



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 16] नई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 22--अप्रैल 28, 2006 (वैशाख 2, 1928)
No. 16] NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 22--APRIL 28, 2006 (VAISAKHA 2, 1928)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 4

PART I—SECTION 4

[रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से
सम्बन्धित अधिसूचनाएं]

[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Officers issued by the Ministry of
Defence]

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 22 अप्रैल 2006

सं. 204, दिनांक 28 मार्च 2006--राष्ट्रपति, भारतीय प्रशासनिक सेवा (हि.प्र. : 87) के अधिकारी श्री राम सुभग सिंह को 1 फरवरी 2006 (पूर्वाह) से 19 अक्टूबर 2006 तक अथवा उनके रक्षा उत्पादन राज्य मंत्री के निजी सचिव के रूप में कार्य करते रहने तक अथवा अगले आदेश जारी होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, निदेशक स्तर पर, 15,100-400-18,300/- रुपए के वेतनमान में रक्षा उत्पादन राज्य मंत्री (राव इंद्रजीत सिंह) के निजी सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

राष्ट्रपति, भारतीय सांख्यिकीय सेवा (85) की अधिकारी और रक्षा मंत्रालय में उप सचिव, श्रीमती टी राजेश्वरी को 24 फरवरी 2006 (पूर्वाह) से 30 अप्रैल 2007 तक, अथवा अगले आदेश जारी होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, इसी मंत्रालय में निदेशक के पद पर नियुक्त करते हैं।

वी सरस्वती
उप सचिव

सं. 205, दिनांक 28 मार्च 2006--राष्ट्रपति, रक्षा मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अवर सचिव श्री बी एल दास को, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 31 जनवरी 2006 के का.ज्ञा. संख्या 4/13/2005-सी

एस-1 की शर्तों के अधीन 8 फरवरी 2006 (पूर्वाह) से अगले आदेश जारी होने तक इसी मंत्रालय में पूर्णतः तदर्थ आधार पर केन्द्रीय सचिवालय सेवा के चयन ग्रेड (उप सचिव) में नियुक्त करते हैं।

2. उपर्युक्त अधिकारी की उप सचिव (तदर्थ) के रूप में नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों के अध्वधीन है :--

- (i) तदर्थ पदोन्नति से ग्रेड में अनिश्चित समय तक बने रहने या नियमित नियुक्ति की चयन सूची में शामिल करने या केन्द्रीय सचिवालय सेवा के चयन ग्रेड (उप सचिव) में वरिष्ठता का दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा।
- (ii) तदर्थ नियुक्ति को बिना कोई कारण बताए किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है।

राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के रक्षा मंत्रालय के सहायक श्री रमेश कुमार को 17 फरवरी 2006 (पूर्वाह) से 26 जून 2006 तक की अवधि तक अथवा अगले आदेश जारी होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, 6500-200-10500/- रुपए के वेतनमान में निम्नलिखित शर्तों के अध्वधीन इसी मंत्रालय में तदर्थ आधार पर अनुभाग अधिकारी के पद पर नियुक्त करते हैं :--

- (i) तदर्थ पदोन्नति से ग्रेड में अनिश्चित समय तक बने रहने या नियमित नियुक्ति के लिए चयन सूची में शामिल करने या

अनुभाग अधिकारियों के ग्रेड में वरिष्ठता का दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा; और

- (ii) नियमित अनुभाग अधिकारियों के उपलब्ध होने पर/कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा सहायकों की वरिष्ठता सह-चयन सूची से तदर्थ आधार पर अनुभाग अधिकारियों के नामांकन किए जाने पर श्री रमेश कुमार को सहायक ग्रेड में प्रत्यावर्तित कर दिया जाएगा।

जी विजयराघवन
अवर सचिव

वायु सेना मुख्यालय

सं. 206, दिनांक 29 मार्च 2006--राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित वैयक्तिक सहायकों की सशस्त्र सेना मुख्यालय आशुलिपिक सेवा में निजी सचिव, (युप ख राजपत्रित), वेतनमान 6500--10500/- रुपए के पद पर अस्थाई आधार पर नियुक्ति को दिनांक 01 जुलाई 2005 से 31 दिसम्बर 2005 तक अथवा चयन सूची से नियमित व्यक्तियों के उपलब्ध होने अथवा उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि तक, जो भी पहले हो, बढ़ाते हैं :-

ए के छिबर
डी एल भाटिया
ए के शर्मा
रविन्दर कुमार
जी एस श्रीधर
जी सी पाण्डे

2. उपरलिखित अधिकारियों की निजी सचिव के रूप में पदोन्नति निम्नलिखित शर्तों के आधार पर है :-

यह पदोन्नतियां पूर्णतः अस्थाई आधार पर की गई हैं तथा प्रशासनिक कारणों पर बिना किसी पूर्व सूचना दिये समाप्त की जा सकती हैं।

उपर्युक्त पद पर स्थाई पदोन्नति के लिए उनका न तो कोई दावा होगा न ही उनकी अस्थाई नियुक्ति की अवधि को वरिष्ठता के लिए गिना जाएगा।

शंकर सिंह
उप मुख्य प्रशासनिक अधिकारी

थल सेना विभाग

सं. 207, दिनांक 28 मार्च 2006--राष्ट्रपति, निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं :-

नियमित सेना
सेना शिक्षा कोर
नायब सूबेदार रैंक में

हवलदार सुरेन्द्र राम गौड़ (सेनांक 9509549एल अब जेसी-803742एम), 11 जुलाई 2005×

हवलदार सवाई सिंह तंवर (सेनांक 9509737एम अब जेसी-803746एच), 21 जून 2005×

हवलदार ब्रिज लाल ठाकुर (सेनांक 9509833एफ अब जेसी-803755के), 18 जून 2005×

हवलदार चन्द्र बिर सिंह (सेनांक 9509836पी अब जेसी-803756एम), 06 जुलाई 2005×

×(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 04 जून 2005 से दी जायेगी)

हवलदार काइजार कमाल सलाउद्दीन आजाद (सेनांक 9509697डब्ल्यू अब जेसी-803760पी), 11 जुलाई 2005+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 10 जून 2005 से दी जायेगी)

हवलदार अमि लाल (सेनांक 9509841ए अब जेसी-803761एक्स), 07 जुलाई 2005[

हवलदार सुनील कुमार ठाकुर (सेनांक 9509843एल अब जेसी-803763एच), 13 जुलाई 2005[

हवलदार बलविन्दर सिंह (सेनांक 9509844एच अब जेसी-803764एल), 14 जुलाई 2005[

हवलदार रनवीर सिंह (सेनांक 9509846वाई अब जेसी-803766डब्ल्यू), 07 जुलाई 2005[

हवलदार सोहन राम लेगा (सेनांक 9509847एफ अब जेसी-803767वाई), 06 जुलाई 2005[

हवलदार वीरेन्द्र कुमार (सेनांक 9509848के अब जेसी-803768एफ), 16 जुलाई 2005[

हवलदार गजपाल सिंह (सेनांक 9509849एफ अब जेसी-803769के), 11 जुलाई 2005[

[(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2005 से दी जायेगी)

हवलदार मदन सिंह (सेनांक 9509850एफ अब जेसी-803770वाई), 01 अगस्त 2005

हवलदार सुरेन्द्र झा (सेनांक 9509852एम अब जेसी-803771एफ), 01 अगस्त 2005

हवलदार सतविन्द्र सिंह (सेनांक 9509855ए अब जेसी-803772के), 17 अगस्त 2005=

हवलदार योगेन्द्र प्रसाद (सेनांक 9509856एच अब जेसी-803773एम), 01 अगस्त 2005

हवलदार कमलेश कुमार सिंह (सेनांक 9509860एल अब जेसी-803775एक्स), 01 अगस्त 2005

=(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2005 से दी जायेगी)

हवलदार ब्रज मोहन सचन (सेनांक 9509869ए अब जेसी-803778एल),
01 सितम्बर 2005

हवलदार अनिल बोरह (सेनांक 9509871एक्स अब जेसी-803779एन),
01 सितम्बर 2005

हवलदार दिनेश कुमार शर्मा (सेनांक 9509874एल अब जेसी-803782एन),
01 सितम्बर 2005

विजय कपूर
अवर सचिव

सं. 208, दिनांक 28 मार्च 2006--राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित
पदोन्नतियां करते हैं।

नियमित सेना
इन्फैन्ट्री
महार रेजिमेन्ट
सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार बापू धोन्डिबा सालवे (जेसी-569208डब्ल्यू),
05 दिसम्बर 2004@

@(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 अक्टूबर 2004)

नायब सूबेदार सरवानन्द यादव (जेसी-569316ए), 13 जनवरी
2005@@

@@(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 नवम्बर 2004)

नायब सूबेदार बलजीत सिंह (जेसी-569171ए), 27 नवम्बर 2004

नायब सूबेदार राजेन्द्र सिंह (जेसी-568980एन), 22 दिसम्बर
2004@@@

@@@ (बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 दिसम्बर 2004)

नायब सूबेदार वैजनाथ सुदामा बनसोडे (जेसी-569189डब्ल्यू),
01 दिसम्बर 2004

नायब सूबेदार बलविन्दर सिंह (जेसी-569260वाई), 01 दिसम्बर
2004

नायब सूबेदार रूप सिंह (जेसी-569067एम), 09 दिसम्बर 2004#

#(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 02 दिसम्बर 2004)

नायब सूबेदार विजेन्द्र चौबे (जेसी-569034एफ), 19 दिसम्बर 2004

नायब सूबेदार संजय कुमार शर्मा (जेसी-569016वाई), 28 जुलाई
2005###

###(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 20 दिसम्बर 2004)

नायब सूबेदार नवाब खान (जेसी-569017एफ), 20 दिसम्बर 2004

नायब सूबेदार गुरबीर सिंह (जेसी-569070एम), 01 जनवरी 2005

नायब सूबेदार बिशन राम (जेसी-569095वाई), 01 जनवरी 2005

नायब सूबेदार अंचल सिंह (जेसी-569279एक्स), 01 जनवरी 2005

नायब सूबेदार गायकवाड गंगाधर जयप्पा (जेसी-569276के),
23 अप्रैल 2005####

####(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 जनवरी 2005)

नायब सूबेदार गायकवाड महादेव हनुमन्त (जेसी-569150के),
06 जनवरी 2005\$

\$(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 जनवरी 2005)

नायब सूबेदार भास्कर मोतीसम सीरबाटे (जेसी-569152पी),
01 जनवरी 2005

नायब सूबेदार शाम सिंह (जेसी-569162वाई), 01 जनवरी 2005

नायब सूबेदार आन सिंह (जेसी-569215एम), 01 जनवरी 2005

नायब सूबेदार महीताब सिंह (जेसी-569216पी), 03 जनवरी 2005\$\$

\$(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 जनवरी 2005)

नायब सूबेदार नारायण सिंह (जेसी-569286एन), 01 जनवरी 2005

नायब सूबेदार बद्री गिरी (जेसी-569200के), 01 जनवरी 2005

नायब सूबेदार भर्साकाले कैलाश सीताराम (जेसी-569204ए),
09 जनवरी 2005\$\$\$

\$\$\$ (बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 जनवरी 2005)

नायब सूबेदार धर्मवीर (जेसी-569205एच), 03 जनवरी 2005%

%(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 जनवरी 2005)

नायब सूबेदार विनायक उत्तम इनाले (जेसी-569246एम), 01 जनवरी
2005

नायब सूबेदार ओछाडे शंकर भगवान (जेसी-569219एच), 01 जनवरी
2005

नायब सूबेदार हरी सिंह (जेसी-569319डब्ल्यू), 15 जनवरी 2005%%

%%(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 जनवरी 2005)

नायब सूबेदार सत्या प्रकाश (जेसी-569047वाई), 09 अप्रैल
2005%%%

%%%(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 08 जनवरी 2005)

नायब सूबेदार सत्यावीर सिंह (जेसी-569068पी), 15 अप्रैल 2005&

&(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 08 जनवरी 2005)

नायब सूबेदार सरजे गोपाल बसप्पा (जेसी-569157एन), 21 जनवरी
2005

नायब सूबेदार कोतवाल सिंह (जेसी-568968पी), 01 फरवरी 2005

नायब सूबेदार उमराव सिंह (जेसी-569079एफ), 09 फरवरी
2005&&

&&(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 फरवरी 2005)

नायब सूबेदार टीकू राम (जेसी-569201एम), 17 फरवरी 2005&&&

&&&(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 फरवरी 2005)

नायब सूबेदार सालीगराम रघु जाधव (जेसी-569222एच), 01 फरवरी 2005

नायब सूबेदार गनेश सिंह मेहता (जेसी-569306डब्ल्यू), 14 मार्च 2005*

*(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 फरवरी 2005)

नायब सूबेदार ओनकार चन्द (जेसी-569252ए), 09 मार्च 2005**

**(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 फरवरी 2005)

नायब सूबेदार जितेन्द्र सिंह (जेसी-569253एच), 09 मार्च 2005***

*** (बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 फरवरी 2005)

नायब सूबेदार राजीन्द्र प्रसाद (जेसी-569254एल), 09 मार्च 2005@

@(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 फरवरी 2005)

नायब सूबेदार चंचल सिंह (जेसी-569329एक्स), 01 फरवरी 2005

नायब सूबेदार बलजीत सिंह (जेसी-569069एक्स), 01 मार्च 2005

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार जगबीर सिंह (4553667के अब जेसी-569668एक्स), 29 अक्टूबर 2005@

@(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 04 सितम्बर 2004)

हवलदार रणजीत सिंह (2983746पी अब जेसी-569669ए), 21 सितम्बर 2005@@

@@(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 08 अगस्त 2005)

हवलदार काम्बले भीमप्पा सत्यप्पा (4560658एल अब जेसी-569670पी), 01 अक्टूबर 2005@@@

@@@ (बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 सितम्बर 2005)

हवलदार लोक राज (4555718एन अब जेसी-569671एक्स), 29 अक्टूबर 2005#

#(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 29 सितम्बर 2005)

हवलदार गोपाल सिंह (4554592के अब जेसी-569672ए), 14 नवम्बर 2005##

##(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 नवम्बर 2005)

हवलदार धरम चन्द (4554624एफ अब जेसी-569673एच), 14 नवम्बर 2005###

###(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 नवम्बर 2005)

मराठा लाईट इन्फैन्ट्री

सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार तांबे नारायण तुकाराम (जेसी-226182ए), 19 सितम्बर 2005+
+(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2005 से दी जाती है)

सूबेदार घोरपडे विष्णु भगवान (जेसी-205524पी), 01 सितम्बर 2005
सूबेदार फकीरप्पा मणगुति (जेसी-212869वाई), 14 सितम्बर 2004+
+(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2005 से दी जाती है)

सूबेदार शेवाले हिम्मतराव रतन (जेसी-204018एक्स), 01 अक्टूबर 2005

सूबेदार पत्रेप्पा यलाप्पा आडवि (जेसी-222655डब्ल्यू), 03 अक्टूबर 2005+

+(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2005 से दी जाती है)

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार पाटील दिनकर रामचंद्र (जेसी-459034वाई), 01 अक्टूबर 2005+

+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 13 नवम्बर 2004 से दी जाती है)

नायब सूबेदार नारायण महादेव पाटील (जेसी-459184पी), 29 जुलाई 2004+

+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2004 से दी जाती है)

नायब सूबेदार पाटील प्रकाश पांडुरंग (जेसी-459191एल), 19 अगस्त 2005+

+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2004 से दी जाती है)

नायब सूबेदार दिलीप विष्णु पलांडे (जेसी-458874एम), 27 सितम्बर 2005+

+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 10 अप्रैल 2005 से दी जाती है)

नायब सूबेदार वालवे भरत रामराव (जेसी-459079वाई), 12 जुलाई 2005+

+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 25 अप्रैल 2005 से दी जाती है)

नायब सूबेदार कामथे पोपट गुलाब (जेसी-458941एम), 01 अक्टूबर 2005+

+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2005 से दी जाती है)

नायब सूबेदार देसले हिम्मताराव विष्णु (जेसी-459252एक्स),
01 अक्टूबर 2005+

+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 मई 2005 से दी जाती है)

नायब सूबेदार एस कृष्णया गौड (जेसी-458978एन), 17 जून 2005+

+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
28 मई 2005 से दी जाती है)

नायब सूबेदार देवरे बलिराम चिन्ध (जेसी-459013एच), 08 अगस्त
2005+

+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 जून 2005 से दी जाती है)

नायब सूबेदार आडाव गोविण्दा सतबा (जेसी-458989ए), 08 अगस्त
2005+

+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 जून 2005 से दी जाती है)

नायब सूबेदार जाधव सुर्यकांत एकनाथ (जेसी-459176डब्ल्यू),
10 अगस्त 2005+

+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 जून 2005 से दी जाती है)

नायब सूबेदार पार्ले चंद्रकांत बंडु (जेसी-459007पी), 16 अगस्त
2005+

+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 जुलाई 2005 से दी जाती है)

नायब सूबेदार मरगाळे पांडुरंग विठु (जेसी-459031एल), 16 अगस्त
2005+

+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 जुलाई 2005 से दी जाती है)

नायब सूबेदार पाटील जोतिबा अप्पाजी (जेसी-459178एफ),
08 नवम्बर 2005+

+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 जुलाई 2005 से दी जाती है)

नायब सूबेदार अब्दुल वह्दाब (जेसी-458534के), 01 सितम्बर 2005+

+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 अगस्त 2005 से दी जाती है)

नायब सूबेदार शेवालकर गोविंद किशनराव (जेसी-458982डब्ल्यू),
23 अक्टूबर 2005+

+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 सितम्बर 2005 से दी जाती है)

नायब सूबेदार चाचर पांडुरंग वसंत (जेसी-459015एन), 01 सितम्बर
2005

नायब सूबेदार लोखंडे सुरेश गंगाराम (जेसी-459029एन), 16 अक्टूबर
2005+

+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 सितम्बर 2005 से दी जाती है)

नायब सूबेदार शिवन पिल्ले आर (जेसी-459030एच), 21 अक्टूबर
2005+

+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 सितम्बर 2005 से दी जाती है)

नायब सूबेदार रामा सिदराम पाटील (जेसी-459014एल), 01 सितम्बर
2005

नायब सूबेदार निकम चंद्रकांत गुलाब (जेसी-458891एम),
01 अक्टूबर 2005

नायब सूबेदार रघुनाथ श्रीपति पाटील (जेसी-459211एन), 01 नवम्बर
2005

सूबेदार लिपिक के रैंक में

नायब सूबेदार लिपिक रणबीर सिंह (जेसी-458907एम), 01 सितम्बर
2005

नायब सूबेदार लिपिक रवि करण सिंह (जेसी-458924एम),
01 सितम्बर 2005

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार कृष्णानंद नरसिंह बांदेकर (सं. 2778773एल अब जेसी-
459586एम), 10 अक्टूबर 2005+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2004 से दी जाती है)

हवलदार साळुंखे यशवंत आनंदराव (सं. 2778446ए अब जेसी-
459587पी), 26 जून 2005+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 जून 2005 से दी जाती है)

हवलदार पाटील गणपति रंगराव (सं. 2781160डब्ल्यू अब जेसी-
459588एक्स), 30 सितम्बर 2005+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 जून 2005 से दी जाती है)

हवलदार आदिक रामु सावळेराव (सं. 2782587एम अब जेसी-
459589ए), 03 दिसम्बर 2005+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 18 जुलाई 2005 से दी जाती है)

हवलदार पाटील रमेश दत्तु (सं. 2782055एम अब जेसी-459590पी),
20 दिसम्बर 2005+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अगस्त 2005 से दी जाती है)

हवलदार मोहम्मद अयुब अली (सं. 2782150वाई अब जेसी-459591एक्स), 09 दिसम्बर 2005+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2005 से दी जाती है)

हवलदार दगड़े राजाराम रघुराम (सं. 2782802एम अब जेसी-459592ए), 20 दिसम्बर 2005+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2005 से दी जाती है)

हवलदार केशव पाटील (सं. 2783584एल अब जेसी-459593एच), 09 दिसम्बर 2005+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2005 से दी जाती है)

हवलदार कुमार झेंडे दत्तात्रय न्हाणु (सं. 2779480एम अब जेसी-459594एल), 25 अक्टूबर 2005+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2005 से दी जाती है)

हवलदार स्वामी (सं. 2783667डब्ल्यू अब जेसी-459595एन), 20 दिसम्बर 2005+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2005 से दी जाती है)

हवलदार दिवेकर दिलीप सखाराम (सं. 2786054एफ अब जेसी-459596डब्ल्यू), 10 दिसम्बर 2005+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2005 से दी जाती है)

हवलदार कुमार शेलार विजयकुमार गिरजप्पा (सं. 2783967के अब जेसी-459597वाई), 29 अक्टूबर 2005+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2005 से दी जाती है)

हवलदार खोत पाण्डुरंग कृष्ण (सं. 2783867एम अब जेसी-459598एफ), 06 दिसम्बर 2005+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2005 से दी जाती है)

हवलदार आम्बरे विलास बाळकृष्ण (सं. 2786188ए अब जेसी-459599के), 23 दिसम्बर 2005+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2005 से दी जाती है)

हवलदार कदम नंदकिशोर हणमंत (सं. 2785597एफ अब जेसी-459600एन), 10 दिसम्बर 2005+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2005 से दी जाती है)

डोगरा रेजिमेण्ट
सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार फतह सिंह सेना मेडल (जेसी-518476एक्स), 23 अप्रैल 2005+

+(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2005 से)

सूबेदार राम लाल (जेसी-518335एच), 30 अप्रैल 2005+

+(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2005 से)

सूबेदार बलदेव राज प्राशर (जेसी-518358के), 01 मई 2005

सूबेदार बख्शीश सिंह (जेसी-518813एफ), 26 दिसम्बर 2005+

+(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2005 से)

सूबेदार सुन्दर सिंह ठाकुर (जेसी-518901एक्स), 01 अक्टूबर 2005

सूबेदार बिसम्बर सिंह (जेसी-518605एम), 25 अक्टूबर 2005+

+(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2005 से)

सूबेदार राम दत्त शर्मा (जेसी-518873डब्ल्यू), 01 दिसम्बर 2005

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार देशराज चम्बयाल (जेसी-519809एल), 01 अप्रैल 2005

नायब सूबेदार शमशेर सिंह ठाकुर (जेसी-519485एल), 12 अप्रैल 2005

नायब सूबेदार रामेश्वर कुमार (जेसी-519679एन), 13 अप्रैल 2005

नायब सूबेदार भगवान दास (जेसी-519766एल), 08 नवम्बर 2005+

+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 27 अप्रैल 2005 से)

नायब सूबेदार रंगील सिंह (जेसी-519842एच), 01 मई 2005

नायब सूबेदार पालदेन ज्ञाछे शौर्य चक्र (जेसी-519631ए), 01 जून 2005

नायब सूबेदार दिलबाग सिंह (जेसी-519783एफ), 29 अक्टूबर 2005+

+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 28 जून 2005 से)

नायब सूबेदार छिरिंग नोरबू बोध, शौर्य चक्र (जेसी-519632एच), 01 जुलाई 2005

नायब सूबेदार हरि लाल (जेसी-519721एफ), 01 जुलाई 2005

नायब सूबेदार रतन लाल (जेसी-519807ए), 01 जुलाई 2005

नायब सूबेदार खजान चन्द (जेसी-519840एक्स), 01 जुलाई 2005
 नायब सूबेदार रमेश चन्द (जेसी-519701एन), 29 नवम्बर 2005+
 +(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
 01 अगस्त 2005 से)

नायब सूबेदार हंसराज (जेसी-519808एच), 01 सितम्बर 2005
 नायब सूबेदार प्रेम नाथ (जेसी-519865के), 01 सितम्बर 2005
 नायब सूबेदार नानक चन्द लगवाल (जेसी-519546एक्स),
 07 दिसम्बर 2005+

+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
 01 अक्टूबर 2005 से)

नायब सूबेदार धर्म चन्द (जेसी-519732एन), 01 नवम्बर 2005
 नायब सूबेदार प्रेम सिंह (जेसी-519733डब्ल्यू), 01 दिसम्बर 2005

सूबेदार (लिपिक) के रैंक में

नायब सूबेदार लिपिक रणजीत सिंह (जेसी-519352पी), 01 अक्टूबर
 2005

नायब सूबेदार लिपिक मोहन लाल शर्मा (जेसी-519389डब्ल्यू),
 01 नवम्बर 2005

नायब सूबेदार लिपिक मोहिन्द्र सिंह समकारिया (जेसी-519390एल),
 01 नवम्बर 2005

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार रतन लाल बंसल (3986489 के अब जेसी-520240एफ),
 01 अगस्त 2005

हवलदार रविन्द्र कुमार (3987039वाई अब जेसी-520241के),
 08 अगस्त 2005

हवलदार अनिल कुमार (3983388एल अब जेसी-520242एम),
 01 सितम्बर 2005

हवलदार कृष्ण पाल भाटिया (3983392एन अब जेसी-520243पी),
 01 सितम्बर 2005

हवलदार प्रकाश चन्द शर्मा (3983320के अब जेसी-520244एक्स),
 01 अक्टूबर 2005

हवलदार सन्देश कुमार (3984407एक्स अब जेसी-520245ए),
 01 अक्टूबर 2005

हवलदार अशोक कुमार (3983139एम अब जेसी-520246एच),
 14 दिसम्बर 2005+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
 ज्येष्ठता 04 अक्टूबर 2005 से)

हवलदार मान सिंह (3983578एक्स अब जेसी-520247एल),
 10 अक्टूबर 2005

हवलदार यश पाल (3983588एफ अब जेसी-520248एन),
 30 अक्टूबर 2005

हवलदार जगदेव कुमार (3983399एक्स अब जेसी-520249डब्ल्यू),
 23 नवम्बर 2005

हवलदार रमेश लाल (3983401के अब जेसी-520250एल),
 01 दिसम्बर 2005

नायब सूबेदार (लिपिक) के रैंक में

हवलदार लिपिक रण सिंह (3981299एन अब जेसी-520251एन),
 01 दिसम्बर 2005

हवलदार लिपिक सी मारिया विलमुट (3985676डब्ल्यू अब जेसी-
 520252डब्ल्यू), 01 दिसम्बर 2005

हवलदार लिपिक बाबू राम शर्मा (3984172डब्ल्यू अब जेसी-
 520253वाई), 01 दिसम्बर 2005

पंजाब रेजिमेन्ट

सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार किरपाल सिंह (जेसी-428614एम), 01 दिसम्बर 2005

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार देस राज (जेसी-429330पी), 01 जुलाई 2004

नायब सूबेदार स्वरन सिंह (जेसी-429472एम), 01 मई 2005

नायब सूबेदार विजय कुमार (जेसी-429380ए), 01 जून 2005

नायब सूबेदार राजा सिंह (जेसी-429518के), 01 जून 2005

नायब सूबेदार राजिन्दर सिंह (जेसी-429385वाई), 01 अगस्त 2005

नायब सूबेदार नन्द किशोर वर्मा (जेसी-429413ए), 01 सितम्बर
 2005

नायब सूबेदार बलवन्त सिंह (जेसी-429394ए), 15 सितम्बर 2005

नायब सूबेदार चम्बेल सिंह ठाकुर (जेसी-429241डब्ल्यू), 01 अक्टूबर
 2005

नायब सूबेदार रतन चन्द (जेसी-429512एच), 01 अक्टूबर 2005

नायब सूबेदार सुखदेव सहोत्रा (जेसी-429507एक्स), 01 अक्टूबर
 2005

नायब सूबेदार लाल सिंह (जेसी-429292एफ), 06 नवम्बर 2005

नायब सूबेदार कुलबीर सिंह (जेसी-429132के), 01 दिसम्बर 2005

नायब सूबेदार जोगिन्द्र सिंह (जेसी-429250एक्स), 01 दिसम्बर 2005

नायब सूबेदार मलकित सिंह (जेसी-429290वाई), 01 दिसम्बर 2005

नायब सूबेदार ओम प्रकाश (जेसी-429476एच), 01 दिसम्बर 2005

सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार यश पाल (जेसी-428214ए), 01 मई 2005

सूबेदार राजिन्दर पाल (जेसी-428236वाई), 01 जून 2005

सूबेदार बलकार सिंह (जेसी-428396वाई), 01 सितम्बर 2005

सूबेदार गुरबचन सिंह (जेसी-428456एच), 01 अक्टूबर 2005

सूबेदार के रैंक में

- नायब सूबेदार हरिन्दर सिंह (जेसी-429395एच), 28 नवम्बर 2004
 नायब सूबेदार केहर सिंह (जेसी-429401एल), 28 नवम्बर 2004
 नायब सूबेदार रन्जीत सिंह (जेसी-429421वाई), 28 नवम्बर 2004
 नायब सूबेदार बहादुर सिंह (जेसी-429429एल), 09 अप्रैल 2005
 नायब सूबेदार गुरदेव सिंह (जेसी-429228एम), 21 जून 2005
 नायब सूबेदार हंस राज (जेसी-429441एम), 01 जुलाई 2005
 नायब सूबेदार करण सिंह (जेसी-429463एल), 01 जुलाई 2005
 नायब सूबेदार बलदेव सिंह (जेसी-429537पी), 10 जुलाई 2005
 नायब सूबेदार बलविन्दर सिंह (जेसी-429538एक्स), 22 अगस्त 2005
 नायब सूबेदार पुरन सिंह गोरया (जेसी-429118एक्स), 01 सितम्बर 2005
 नायब सूबेदार सुरजीत सिंह (जेसी-429206एन), 01 सितम्बर 2005
 नायब सूबेदार प्रेम पाल (जेसी-429475ए), 01 सितम्बर 2005
 नायब सूबेदार सुरजीत सिंह (जेसी-429482डब्ल्यू), 01 सितम्बर 2005
 नायब सूबेदार तरलोचन सिंह (जेसी-429485के), 01 सितम्बर 2005
 नायब सूबेदार निरपाल सिंह (जेसी-429236एल), 01 अक्टूबर 2005
 नायब सूबेदार हरि लाल (जेसी-429257एफ), 01 अक्टूबर 2005
 नायब सूबेदार करनैल सिंह (जेसी-429511ए), 01 अक्टूबर 2005
 नायब सूबेदार सतनाम सिंह (जेसी-429239वाई), 01 अक्टूबर 2005
 नायब सूबेदार जगदीश सिंह (जेसी-429491एक्स), 01 अक्टूबर 2005
 नायब सूबेदार अमर सिंह कोन्डल (जेसी-429283एच), 12 अक्टूबर 2005
 नायब सूबेदार परमिन्दर सिंह (जेसी-429462एच), 01 नवम्बर 2005
 नायब सूबेदार गुरदेव सिंह (जेसी-429495एन), 01 नवम्बर 2005

मद्रास रेजिमेंट

सूबेदार (क्लर्क) के रैंक में

- नायब सूबेदार (क्लर्क) आर अम्बींग मुरुगानन्दम (जेसी-438963के), 05 अक्टूबर 2005×
 ×(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2005 से दी जाएगी)
 नायब सूबेदार (क्लर्क) ओम्मेन पीओ (जेसी-438964एम), 01 अक्टूबर 2005
 नायब सूबेदार (क्लर्क) सुरेन्द्रन वलिया परम्बिल (जेसी-438965पी), 01 नवम्बर 2005
 नायब सूबेदार (क्लर्क) गनेसन एस (जेसी-438966एक्स), 01 नवम्बर 2005

नायब सूबेदार (क्लर्क) उमेद सिंह महार (जेसी-438967ए), 01 नवम्बर 2005

पंजाब रेजिमेंट

नायब सूबेदार के रैंक में

- हवलदार अवतार सिंह (नं. 2478545के अब जेसी-429809के), 10 जून 2005
 (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2004 से दी जाती है)
 हवलदार जसबीर सिंह (नं. 2478562के अब जेसी-429810वाई), 10 जून 2005
 (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2004 से दी जाती है)
 हवलदार गुरशरन सिंह (नं. 2474497एक्स अब जेसी-429811एफ), 17 जून 2005
 (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2005 से दी जाती है)
 हवलदार सतनाम सिंह (नं. 2478568एल अब जेसी-429812के), 10 जून 2005
 (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2005 से दी जाती है)
 हवलदार जगमेल सिंह (नं. 2475911एक्स अब जेसी-429813एम), 17 जून 2005
 (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 13 जनवरी 2005 से दी जाती है)
 हवलदार महेन्द्रा सिंह (नं. 2474306एक्स अब जेसी-429814पी), 17 जून 2005
 (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2005 से दी जाती है)
 हवलदार राम अवाध राम (नं. 2474386ए अब जेसी-429815एक्स), 17 जून 2005
 (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2005 से दी जाती है)
 हवलदार परबोध सिंह (नं. 2474973एल अब जेसी-429862पी), 17 सितम्बर 2005
 (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2005 से दी जाती है)
 हवलदार बोध राज (नं. 2476010एक्स अब जेसी-429825एफ), 13 जून 2005
 (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2005 से दी जाती है)

हवलदार सुच्चा सिंह (नं. 2476770ए अब जेसी-429845पी),
05 अगस्त 2005

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
03 फरवरी 2005 से दी जाती है)

हवलदार चन्द्र शोखर सहोत्रा (नं. 2478386एक्स अब
जेसी-429816ए), 17 जून 2005

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
08 फरवरी 2005 से दी जाती है)

हवलदार करम सिंह (नं. 2476747एम अब जेसी-429817एच),
22 जून 2005

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
19 मार्च 2005 से दी जाती है)

हवलदार शिंगारा सिंह (नं. 2476170एक्स अब जेसी-429818एल),
01 जून 2005

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
20 मार्च 2005 से दी जाती है)

हवलदार सुखराज सिंह (नं. 2478109एम अब जेसी-429846एक्स),
30 अप्रैल 2005

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
28 मार्च 2005 से दी जाती है)

हवलदार ब्रिज लाल (नं. 2476567के अब जेसी-429847ए),
21 जुलाई 2005

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
28 मार्च 2005 से दी जाती है)

हवलदार ओंकार चन्द (नं. 2476714एफ अब जेसी-429807वाई),
07 मई 2005

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 अप्रैल 2005 से दी जाती है)

हवलदार राम दास (नं. 2474120एन अब जेसी-429830एम),
11 जुलाई 2005

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
09 अप्रैल 2005 से दी जाती है)

हवलदार गुलचेन सिंह (नं. 2475189के अब जेसी-429848एच),
22 अगस्त 2005

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
13 अप्रैल 2005 से दी जाती है)

हवलदार तिलक राज (नं. 2474290एक्स अब जेसी-429831पी),
19 जुलाई 2005

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
17 अप्रैल 2005 से दी जाती है)

हवलदार जगदीश सिंह (नं. 2477560एम अब जेसी-429824वाई),
14 जून 2005

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
29 अप्रैल 2005 से दी जाती है)

हवलदार लखविन्द्र सिंह (नं. 2476216पी अब जेसी-429849एल),
09 अगस्त 2005

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 मई 2005 से दी जाती है)

हवलदार विशन सिंह (नं. 2476279एक्स अब जेसी-429863एक्स),
15 सितम्बर 2005

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 मई 2005 से दी जाती है)

हवलदार हरजिन्द्र सिंह (नं. 2478313एल अब जेसी-429850ए),
11 जून 2005

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 मई 2005 से दी जाती है)

हवलदार नीशान सिंह (नं. 2474533एक्स अब जेसी-429832एक्स),
13 जुलाई 2005

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 मई 2005 से दी जाती है)

हवलदार हरदेव (नं. 2477129एन अब जेसी-429819एन), 30 मई
2005

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 मई 2005 से दी जाती है)

हवलदार सत पाल (नं. 2474678एच अब जेसी-429820एच),
09 मई 2005

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 मई 2005 से दी जाती है)

हवलदार सुदर्शन सिंह (नं. 2474216डब्ल्यू अब जेसी-429851एच),
11 मई 2005

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 मई 2005 से दी जाती है)

हवलदार सुरेश चन्द (नं. 2473019एफ अब जेसी-429833ए),
13 जुलाई 2005

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
12 मई 2005 से दी जाती है)

हवलदार राजेन्द्र सिंह (नं. 2476681एफ अब जेसी-429834एच),
13 जुलाई 2005

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
12 मई 2005 से दी जाती है)

हवलदार शाम सिंह (नं. 2474930डब्ल्यू अब जेसी-429821एल),
27 जून 2005

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
23 मई 2005 से दी जाती है)

हवलदार अमरजीत सिंह (नं. 2477566एन अब जेसी-429852एल),
03 अगस्त 2005

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 जून 2005 से दी जाती है)

हवलदार सुखपाल सिंह (नं. 2478172एफ अब जेसी-429822एन),
15 जून 2005

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 जून 2005 से दी जाती है)

हवलदार गुलजार सिंह (नं. 2477553डब्ल्यू अब जेसी-429864ए),
19 सितम्बर 2005

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 जून 2005 से दी जाती है)

हवलदार सतनाम सिंह (नं. 2478723एफ अब जेसी-429861एम),
20 सितम्बर 2005

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 जून 2005 से दी जाती है)

हवलदार राज पाल (नं. 2475042एन अब जेसी-429835एल), 25
जुलाई 2005

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 जून 2005 से दी जाती है)

हवलदार राम सरन (नं. 2475120ए अब जेसी-429836एन),
13 जुलाई 2005

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 जून 2005 से दी जाती है)

हवलदार महेश चन्द्र (नं. 2474191पी अब जेसी-429837डब्ल्यू),
13 जुलाई 2005

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 जून 2005 से दी जाती है)

हवलदार रत्न चन्द ठाकुर (नं. 2473674ए अब
जेसी-429823डब्ल्यू), 01 जून 2005

हवलदार प्रकाश चन्द (नं. 2476621एम अब जेसी-429838वाई),
16 जुलाई 2005

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 जून 2005 से दी जाती है)

हवलदार सरबजित सिंह (नं. 2477954एल अब जेसी-429853एन),
04 अगस्त 2005

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
02 जून 2005 से दी जाती है)

हवलदार रघुबीर सिंह (नं. 2479017एम अब जेसी-429839एफ),
25 जुलाई 2005

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
07 जून 2005 से दी जाती है)

हवलदार जंग बहादुर सिंह (नं. 2478013के अब जेसी-429865एच),
19 सितम्बर 2005

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
09 जून 2005 से दी जाती है)

हवलदार बलविन्द्र सिंह (नं. 2478720एन अब जेसी-429854डब्ल्यू),
24 अगस्त 2005

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
12 जून 2005 से दी जाती है)

हवलदार गुरदीप सिंह, सेना मेडल (नं. 2478460एन अब
जेसी-429855वाई), 03 सितम्बर 2005

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
16 जून 2005 से दी जाती है)

हवलदार लेख राज (नं. 2473761एन अब जेसी-429840डब्ल्यू),
14 जुलाई 2005

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
17 जून 2005 से दी जाती है)

हवलदार आत्मा सिंह (नं. 2477503एल अब जेसी-429856एफ),
03 अगस्त 2005

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
21 जून 2005 से दी जाती है)

हवलदार अशोक कुमार (नं. 2476515एन अब जेसी-429884एन),
06 अक्टूबर 2005

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
21 जून 2005 से दी जाती है)

हवलदार जगदेव सिंह (नं. 2478588वाई अब जेसी-429866एल),
17 सितम्बर 2005

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
30 जून 2005 से दी जाती है)

हवलदार भूपिन्द्र सिंह (नं. 2478648एच अब जेसी-429826के),
12 जुलाई 2005

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 जुलाई 2005 से दी जाती है)

हवलदार सलिनंदर सिंह (नं. 2478884के अब जेसी-429867एन),
18 सितम्बर 2005

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 जुलाई 2005 से दी जाती है)

हवलदार तरलोचन सिंह (नं. 2478598एच अब जेसी-429868डब्ल्यू), 17 सितम्बर 2005

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 जुलाई 2005 से दी जाती है)

हवलदार राजिनंदर सिंह (नं. 2479073एल अब जेसी-429857के),
29 जुलाई 2005

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 जुलाई 2005 से दी जाती है)

हवलदार यशपाल (नं. 2475046के अब जेसी-429858एम),
13 अगस्त 2005

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 जुलाई 2005 से दी जाती है)

हवलदार जगदीश चन्द (नं. 2475257एम अब जेसी-429859पी),
24 अगस्त 2005

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 जुलाई 2005 से दी जाती है)

हवलदार सरवन सिंह (नं. 2476330एम अब जेसी-429885डब्ल्यू),
04 अक्टूबर 2005

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
10 जुलाई 2005 से दी जाती है)

हवलदार जगतार सिंह (नं. 2478781एल अब जेसी-429869वाई),
15 सितम्बर 2005

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 अगस्त 2005 से दी जाती है)

हवलदार कृष्ण सिंह (नं. 2478923एक्स अब जेसी-429870एन),
15 सितम्बर 2005

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 अगस्त 2005 से दी जाती है)

हवलदार यशपाल सिंह (नं. 2475061वाई अब जेसी-429860के),
13 अगस्त 2005

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 अगस्त 2005 से दी जाती है)

हवलदार रन सिंह (नं. 2475449के अब जेसी-429871डब्ल्यू),
12 सितम्बर 2005

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 अगस्त 2005 से दी जाती है)

हवलदार सतनाम सिंह (नं. 2478046पी अब जेसी-429872वाई),
13 सितम्बर 2005

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
16 अगस्त 2005 से दी जाती है)

हवलदार पलविन्दर सिंह (नं. 2476364ए अब जेसी-429886वाई),
05 अक्टूबर 2005

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
16 अगस्त 2005 से दी जाती है)

हवलदार प्रमोद सिंह (नं. 2474657एम अब जेसी-429829एक्स),
11 जून 2005

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
24 अगस्त 2004 से दी जाती है)

हवलदार मेजर सिंह (नं. 2479021पी अब जेसी-429887एफ),
23 सितम्बर 2005

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
29 अगस्त 2005 से दी जाती है)

हवलदार सूरिन सिंह (नं. 2476308एफ अब जेसी-429873एफ),
01 सितम्बर 2005

हवलदार रवि कुमार (नं. 2475318वाई अब जेसी-429874के),
01 सितम्बर 2005

हवलदार सुभाष चन्दर (नं. 2475114एम अब जेसी-429875एम),
18 सितम्बर 2005

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 सितम्बर 2005 से दी जाती है)

हवलदार सुभाष चन्द (नं. 2475262एक्स अब जेसी-429876पी),
21 सितम्बर 2005

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 सितम्बर 2005 से दी जाती है)

हवलदार सुभाष चन्द (नं. 2475085एच अब जेसी-429877एक्स),
18 सितम्बर 2005

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 सितम्बर 2005 से दी जाती है)

हवलदार राम सिंह (नं. 2474668वाई अब जेसी-429878ए),
01 सितम्बर 2005

हवलदार जोरा सिंह (नं. 2479083पी अब जेसी-429879एच),
08 सितम्बर 2005

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 सितम्बर 2005 से दी जाती है)

हवलदार हरमेश कुमार (नं. 2474671वाई अब जेसी-429880एक्स),
19 सितम्बर 2005

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 सितम्बर 2005 से दी जाती है)

हवलदार बिक्रम सिंह राना (नं. 2474215एन अब जेसी-429881ए),
29 सितम्बर 2005

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 सितम्बर 2005 से दी जाती है)

हवलदार गणेश सिंह (नं. 2475051पी अब जेसी-429888के),
23 सितम्बर 2005

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 सितम्बर 2005 से दी जाती है)

हवलदार देश राज (नं. 2474309एल अब जेसी-429882एच),
29 सितम्बर 2005

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 सितम्बर 2005 से दी जाती है)

हवलदार राम भुल्ला (नं. 2475637एल अब जेसी-429883एल),
13 सितम्बर 2005

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 सितम्बर 2005 से दी जाती है)

**मद्रास रेजीमेन्ट
सूबेदार के रैंक में**

नायब सूबेदार आर बालासुब्रामनीयन (जेसी-439236वाई),
07 दिसम्बर 2005×

×(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अगस्त 2005 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार आर पी गनेसन (जेसी-439356एक्स), 01 अगस्त 2005

नायब सूबेदार के के देवइया (जेसी-439129एक्स), 12 नवम्बर
2005×

×(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 नवम्बर 2005 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार बी गिरीसन (जेसी-439157के), 01 नवम्बर 2005

नायब सूबेदार डी देवेन्द्रन (जेसी-439246एम), 01 नवम्बर 2005

नायब सूबेदार बी एम मनु कुमार (जेसी-439233एल), 07 नवम्बर
2005×

×(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 नवम्बर 2005 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार टी कृष्णन (जेसी-439258एक्स), 01 नवम्बर 2005

नायब सूबेदार बालुप्पा मेन्नीकेरी (जेसी-439143के), 07 दिसम्बर
2005×

×(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
20 मई 2005 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार बाम्मिडी कुर्मा राव (जेसी-439164ए), 10 दिसम्बर
2005×

×(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 जून 2005 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार दयानन्दन एम (जेसी-439168डब्ल्यू), 10 दिसम्बर
2005×

×(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
07 जून 2005 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार जगदीसन आर (जेसी-439306एम), 12 दिसम्बर
2005×

×(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 नवम्बर 2005 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार शेशागिरी चौगला (जेसी-439001एम), 01 दिसम्बर
2005

नायब सूबेदार बोल्लम वीरय्या (जेसी-439002पी), 01 दिसम्बर 2005

नायब सूबेदार गंगाधरन के पी (जेसी-439003एक्स), 01 दिसम्बर
2005

नायब सूबेदार जगलिकी मल्लेस्वरा राव (जेसी-439215एच), 01
दिसम्बर 2005

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार कनियाम्पन जी (2593802एच अब जेसी-439666एच),
06 दिसम्बर 2005×

×(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 29 मई 2005 से दी जायेगी)

हवलदार के शानवास (2587193एन अब जेसी-439672डब्ल्यू),
13 दिसम्बर 2005×

×(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अगस्त 2005 से दी जायेगी)

हवलदार रथिनावेल आर (2591192एच अब जेसी-439664एक्स),
25 सितम्बर 2005

हवलदार के सेल्वाराज (2589120ए अब जेसी-439661के),
30 नवम्बर 2005×

×(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2005 से दी जायेगी)

हवलदार भाबुला गौडो (2584213एल अब जेसी-439673वाई),
05 नवम्बर 2005

हवलदार जोन पीटर एस (2588491डब्ल्यू अब जेसी-439669डब्ल्यू),
02 दिसम्बर 2005×

×(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2005 से दी जायेगी)

हवलदार के थुलसी (2589933डब्ल्यू अब जेसी-439670एल),
01 दिसम्बर 2005

नायब सूबेदार (क्लर्क) के रैंक में

हवलदार (क्लर्क) ब्रिजपाल गंगवार (2589178एक्स अब जेसी-
439658के), 01 नवम्बर 2005

हवलदार (क्लर्क) निर्मल बाबू पी (2589179ए अब जेसी-
439659एम), 01 नवम्बर 2005

हवलदार (क्लर्क) जेम्स जॉन (2589207एफ अब जेसी-439660एफ), 01 नवम्बर 2005

हवलदार (क्लर्क) सिसिर रंजन बिस्वाल (2595720वाई अब जेसी-439674एफ), 01 दिसम्बर 2005

हवलदार (क्लर्क) एम सहदेवा पात्रो (2595721एफ अब जेसी-439675के), 01 दिसम्बर 2005

जम्मू और कश्मीर लाईट इन्फैन्ट्री
सूबेदार मेजर की पदोन्नति के लिए

सूबेदार दिलावर सिंह (जेसी-592374डब्ल्यू), 10 नवम्बर 2005

(सूबेदार मेजर रैंक में 01 नवम्बर 2005 से वरिष्ठता दी जाती है)

सूबेदार सुरज प्रकाश (जेसी-592364एन), 14 नवम्बर 2005

(सूबेदार मेजर रैंक में 01 नवम्बर 2005 से वरिष्ठता दी जाती है)

सूबेदार अजीत राज शर्मा (जेसी-592455डब्ल्यू), 02 नवम्बर 2005

(सूबेदार मेजर रैंक में 01 नवम्बर 2005 से वरिष्ठता दी जाती है)

नायब सूबेदार की पदोन्नति के लिए

हवलदार विजय कुमार (9087152एच अब जेसी-593395वाई),
22 सितम्बर 2005

(नायब सूबेदार रैंक में 29 जुलाई 2005 से वरिष्ठता दी जाती है)

हवलदार तरसेम सिंह (9087561ए अब जेसी-593396एफ),
22 सितम्बर 2005

(नायब सूबेदार रैंक में 01 सितम्बर 2005 से वरिष्ठता दी जाती है)

हवलदार शाम लाल (9086888एच अब जेसी-593387के),
01 अक्टूबर 2005

हवलदार पूर्ण सिंह (9087340के अब जेसी-593398एम), 16 नवम्बर
2005

(नायब सूबेदार रैंक में 22 सितम्बर 2005 से वरिष्ठता दी जाती है)

हवलदार योगेश चन्द्र (9087688वाई अब जेसी-593399पी),
05 नवम्बर 2005

(नायब सूबेदार रैंक में 01 अक्टूबर 2005 से वरिष्ठता दी जाती है)

सिख लाईट इन्फैन्ट्री
सूबेदार (जी.डी.) के रैंक में

नायब सूबेदार भजन सिंह (जेसी-508892एन), 22 जून 2004

नायब सूबेदार गज्जन सिंह (जेसी-508914एफ), 22 जून 2004

नायब सूबेदार सुरिंदर सिंह (जेसी-508928एफ), 01 नवम्बर 2004

नायब सूबेदार निर्मल सिंह (जेसी-508819पी), 01 दिसम्बर 2004

नायब सूबेदार बलविंदर सिंह (जेसी-508785एम), 01 जनवरी 2005

नायब सूबेदार गुरनाम सिंह (जेसी-508939एन), 15 जनवरी 2005

नायब सूबेदार हरविंदर सिंह (जेसी-509048एक्स), 01 फरवरी 2005

नायब सूबेदार गुरमुख सिंह (जेसी-508890एच), 07 फरवरी 2005

नायब सूबेदार हरवंश सिंह (जेसी-508909डब्ल्यू), 08 फरवरी 2005

नायब सूबेदार बलदेव सिंह (जेसी-508955एल), 01 मार्च 2005

नायब सूबेदार सुखदयाल सिंह (जेसी-508963के), 01 मार्च 2005

नायब सूबेदार यादविंदर सिंह (जेसी-508982पी), 01 मार्च 2005

नायब सूबेदार मनजीत सिंह (जेसी-508897एम), 01 मार्च 2005

नायब सूबेदार मखन सिंह (जेसी-509017एक्स), 29 मार्च 2005

नायब सूबेदार राम सिंह सिन्दु (जेसी-508837एक्स), 01 अप्रैल 2005

नायब सूबेदार परगट सिंह (जेसी-508839एच), 01 अप्रैल 2005

नायब सूबेदार रशपाल सिंह (जेसी-508841ए), 01 अप्रैल 2005

नायब सूबेदार चंद्र भान सिंह (जेसी-508885एक्स), 01 अप्रैल 2005

नायब सूबेदार हाकम सिंह (जेसी-508924एल), 01 अप्रैल 2005

नायब सूबेदार बख्शीश सिंह (जेसी-508801वाई), 03 अप्रैल 2005

नायब सूबेदार कुलजीत सिंह (जेसी-508969एल), 04 अप्रैल 2005

नायब सूबेदार परमजीत सिंह (जेसी-508979पी), 01 मई 2005

नायब सूबेदार जरनैल सिंह (जेसी-508787एक्स), 11 मई 2005

नायब सूबेदार दिलबाग सिंह (जेसी-508872ए), 22 मई 2005

नायब सूबेदार मधर सिंह (जेसी-508999एच), 01 जून 2005

नायब सूबेदार मुख सिंह (जेसी-509018ए), 26 जून 2005

नायब सूबेदार करमजीत सिंह (जेसी-508820के), 01 अगस्त 2005

सूबेदार क्लर्क (जी डी) के रैंक में

नायब सूबेदार (क्लर्क) शिव चन्द (जेसी-588732एन), 01 सितम्बर
2005

नायब सूबेदार (क्लर्क) सुरजीत कुमार (जेसी-588725एक्स),
01 सितम्बर 2005

नायब सूबेदार (जी डी) के रैंक में

हवलदार बलविन्दर सिंह (सं. 4465344वाई अब जेसी-509270वाई),
30 अगस्त 2005×

×(नायब सूबेदार (जी डी) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले
बिना ज्येष्ठता 29 नवम्बर 2004 से दी जायेगी)

हवलदार करनैल दास (सं. 4465385एच अब जेसी-509271एफ),
30 अगस्त 2005×

×(नायब सूबेदार (जी डी) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले
बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2004 से दी जायेगी)

हवलदार हरनाम सिंह (सं. 4463381एन अब जेसी-509272के),
14 अप्रैल 2005×

×(नायब सूबेदार (जी डी) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले
बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2005 से दी जायेगी)

हवलदार मान सिंह (सं. 4466071एम अब जेसी-509273एम),
03 अगस्त 2005×

×(नायब सूबेदार (जी डी) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 04 फरवरी 2005 से दी जायेगी)

हवलदार रघवीर सिंह (सं. 4462245एल अब जेसी-509274पी),
25 जुलाई 2005×

×(नायब सूबेदार (जी डी) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 26 मार्च 2005 से दी जायेगी)

हवलदार जगतार सिंह (सं. 4469340ए अब जेसी-509275एक्स),
24 अगस्त 2005×

×(नायब सूबेदार (जी डी) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 26 मार्च 2005 से दी जायेगी)

हवलदार बलबीर सिंह (सं. 4465899ए अब जेसी-509276ए),
27 जुलाई 2005×

×(नायब सूबेदार (जी डी) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2005 से दी जायेगी)

हवलदार दर्शन सिंह (सं. 4469270एम अब जेसी-509277एच),
05 अगस्त 2005×

×(नायब सूबेदार (जी डी) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 03 अप्रैल 2005 से दी जायेगी)

हवलदार बलबीर सिंह (सं. 4469380एफ अब जेसी-509278एल),
25 जुलाई 2005×

×(नायब सूबेदार (जी डी) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 03 अप्रैल 2005 से दी जायेगी)

हवलदार रणजीत सिंह (सं. 4469416पी अब जेसी-509279एम),
25 जुलाई 2005×

×(नायब सूबेदार (जी डी) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 10 अप्रैल 2005 से दी जायेगी)

हवलदार दर्शन सिंह (सं. 4470269के अब जेसी-509280एच),
25 जुलाई 2005×

×(नायब सूबेदार (जी डी) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 24 अप्रैल 2005 से दी जायेगी)

हवलदार जसबिन्दर सिंह (सं. 4460436एफ अब जेसी-509281एल),
24 अगस्त 2005×

×(नायब सूबेदार (जी डी) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2005 से दी जायेगी)

हवलदार मोहिन्दर सिंह (सं. 4462754के अब जेसी-509282एम),
24 अगस्त 2005×

×(नायब सूबेदार (जी डी) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2005 से दी जायेगी)

हवलदार पिरथीपाल सिंह (सं. 4464216पी अब जेसी-509283डब्ल्यू), 24 अगस्त 2005×

×(नायब सूबेदार (जी डी) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2005 से दी जायेगी)

हवलदार नयर सिंह (सं. 4465587के अब जेसी-509284वाई),
03 सितम्बर 2005×

×(नायब सूबेदार (जी डी) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 30 जून 2005 से दी जायेगी)

हवलदार मकखन सिंह सेना पदक (सं. 4467447डब्ल्यू अब जेसी-509285एफ), 03 सितम्बर 2005×

×(नायब सूबेदार (जी डी) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 30 जून 2005 से दी जायेगी)

हवलदार सुखबीर सिंह (सं. 4463279एल अब जेसी-509286के),
07 सितम्बर 2005×

×(नायब सूबेदार (जी डी) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2005 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार (क्लर्क जी डी) के रैंक में

हवलदार (क्लर्क) सुरेश कुमार शर्मा (सं. 4465645एच अब जेसी-509287एम), 01 सितम्बर 2005*

हवलदार (क्लर्क) माने पांडुरंग नारायण (सं. 4465803एम अब जेसी-509288पी), 01 सितम्बर 2005*

ग्रिनेडियर्स

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार परशोत्तम चन्द कटोच (सं. 2675855एन अब जेसी-450011डब्ल्यू), 30 दिसम्बर 2004

हवलदार बल राम (सं. 2680233डब्ल्यू अब जेसी-450012वाई),
31 दिसम्बर 2004

हवलदार आशा करन सिंह (सं. 2687458एफ अब जेसी-450013एफ), 01 मई 2005

हवलदार सुरेश कुमार (सं. 2686915एक्स अब जेसी-450014के),
24 जून 2005

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2005 से दी जायेगी)

हवलदार तिलक राज (सं. 2676303एम अब जेसी-450015एम),
27 सितम्बर 2005

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 15 जून 2005 से दी जायेगी)

हवलदार प्रताप सिंह (सं. 2674802एच अब जेसी-450016पी), 24 जुलाई 2005

हवलदार दयाला राम (सं. 2681283एन अब जेसी-450017एक्स),
27 जुलाई 2005

हवलदार प्रहलाद (सं. 2675899एल अब जेसी-450018ए), 29 जुलाई 2005

हवलदार बुद्धि सिंह (सं. 2677163एक्स अब जेसी-450019एच), 07 सितम्बर 2005

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2005 से दी जायेगी)

हवलदार सोराज मीणा (सं. 2679195वाई अब जेसी-450020एक्स), 20 अगस्त 2005

हवलदार राजबीर सिंह (सं. 2675363पी अब जेसी-450021ए), 02 सितम्बर 2005

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2005 से दी जायेगी)

हवलदार दलीप सिंह (सं. 2675857वाई अब जेसी-450022एच), 01 सितम्बर 2005

हवलदार मोहन सिंह (सं. 2682254एल अब जेसी-450023एल), 01 सितम्बर 2005

हवलदार जगपाल सिंह (सं. 2676434एक्स अब जेसी-450024एन), 01 सितम्बर 2005

हवलदार जीवन लाल (सं. 2673230ए अब जेसी-450025डब्ल्यू), 01 सितम्बर 2005

हवलदार शोजी लाल मीणा (सं. 2683785पी अब जेसी-450026वाई), 30 नवम्बर 2005

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2005 से दी जायेगी)

हवलदार बजरंग लाल मीणा (सं. 2683845वाई अब जेसी-450027एफ), 01 सितम्बर 2005

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार राम सिंह (सं. 2673628पी अब जेसी-450028के), 01 सितम्बर 2005

हवलदार मोती सिंह (सं. 2676902एम अब जेसी-450029एम), 03 सितम्बर 2005

हवलदार संवत सिंह (सं. 2677693एम अब जेसी-450030एफ), 25 सितम्बर 2005

हवलदार खेम सिंह (सं. 2673259एच अब जेसी-450031के), 25 सितम्बर 2005

हवलदार कृपाल सिंह (सं. 2676716डब्ल्यू अब जेसी-450032एम), 29 सितम्बर 2005

जम्मू और कश्मीर राईफलस

सूबेदार मेजर जी डी के रैंक में

सूबेदार बलवान सिंह (जेसी-578775ए जैक राईफलस), 01 अगस्त 2005

सूबेदार जगजीत सिंह (जेसी-579044वाई जैक राईफलस), 01 अगस्त 2005

सूबेदार गुरबिन्द सिंह (जेसी-578605डब्ल्यू जैक राईफलस), 01 अगस्त 2005

सूबेदार सतपाल सिंह (जेसी-578847वाई जैक राईफलस), 01 सितम्बर 2005

सूबेदार सुखदेब सिंह (जेसी-578630पी जैक राईफलस), 01 सितम्बर 2005

सूबेदार अब्दुल क्यूम (जेसी-578700एच जैक राईफलस), 01 अक्टूबर 2005

सूबेदार बलवान सिंह (जेसी-579019ए जैक राईफलस), 01 नवम्बर 2005

नायब सूबेदार रूधरा खवास (जेसी-579609वाई जैक राईफलस), 17 अक्टूबर 2004

सूबेदार जी डी के रैंक में

नायब सूबेदार मनोहर सिंह (जेसी-579618ए जैक राईफलस), 01 अक्टूबर 2004

नायब सूबेदार रूधरा खवास (जेसी-579609वाई जैक राईफलस), 17 अक्टूबर 2004

नायब सूबेदार परमजीत सिंह (जेसी-579638एम जैक राईफलस), 01 दिसम्बर 2004

नायब सूबेदार राम कृष्ण (जेसी-579600के जैक राईफलस), 01 जनवरी 2005

नायब सूबेदार रघुबीर चन्द (जेसी-579627एफ जैक राईफलस), 01 जनवरी 2005

नायब सूबेदार केशव चन्द (जेसी-579602पी जैक राईफलस), 03 जनवरी 2005

नायब सूबेदार जगदेव सिंह (जेसी-579746एक्स जैक राईफलस), 01 फरवरी 2005

नायब सूबेदार कमल राम (जेसी-579740डब्ल्यू जैक राईफलस), 01 मार्च 2005

नायब सूबेदार गुरबचन सिंह (जेसी-579747ए जैक राईफलस), 01 मार्च 2005

नायब सूबेदार रंधीर सिंह (जेसी-579750ए जैक राईफलस), 01 मार्च 2005

नायब सूबेदार अनिल कुमार (जेसी-579567एक्स जैक राईफलस), 14 मार्च 2005

नायब सूबेदार वीर सिंह थापा (जेसी-579671एल जैक राईफलस), 10 अप्रैल 2005

नायब सूबेदार निरमल सिंह (जेसी-579696एक्स जैक राईफलस), 01 मई 2005

नायब सूबेदार संसार चन्द (जेसी-579702ए जैक राईफल्स), 01 मई 2005

नायब सूबेदार कर्म सिंह (जेसी-579753एन जैक राईफल्स), 01 मई 2005

नायब सूबेदार किकर सिंह (जेसी-579610एन जैक राईफल्स), 01 जून 2005

नायब सूबेदार अनूप सिंह (जेसी-579511एल जैक राईफल्स), 01 जून 2005

नायब सूबेदार मोहम्मद आजम (जेसी-579512एन जैक राईफल्स), 01 जून 2005

नायब सूबेदार रोमेश लाल (जेसी-579664पी जैक राईफल्स), 01 जून 2005

नायब सूबेदार विशराम सिंह (जेसी-579665एक्स जैक राईफल्स), 01 जून 2005

नायब सूबेदार उधम सिंह (जेसी-579704एल जैक राईफल्स), 01 जून 2005

नायब सूबेदार कुलदीप सिंह राणा (जेसी-579597पी जैक राईफल्स), 07 जून 2005

नायब सूबेदार अश्वनी कुमार राणा (जेसी-579525एल जैक राईफल्स), 08 जून 2005

नायब सूबेदार आत्मा सिंह (जेसी-579323के जैक राईफल्स), 28 जून 2005

नायब सूबेदार उत्तम सिंह (जेसी-579526एन जैक राईफल्स), 01 जुलाई 2005

नायब सूबेदार सुशील कुमार (जेसी-579581के जैक राईफल्स), 01 जुलाई 2005

नायब सूबेदार कृष्ण बहादुर थापा (जेसी-579660वाई जैक राईफल्स), 01 जुलाई 2005

नायब सूबेदार प्रेम चन्द (जेसी-579752एन जैक राईफल्स), 01 जुलाई 2005

नायब सूबेदार रामा नन्द (जेसी-579764ए जैक राईफल्स), 01 जुलाई 2005

नायब सूबेदार धर्म सिंह (जेसी-579765एच जैक राईफल्स), 01 जुलाई 2005

नायब सूबेदार छम्बू राम शर्मा (जेसी-579641एन जैक राईफल्स), 01 जुलाई 2005

नायब सूबेदार प्रभात सिंह (जेसी-579687डब्ल्यू जैक राईफल्स), 01 जुलाई 2005

नायब सूबेदार सतपाल (जेसी-579726के जैक राईफल्स), 01 जुलाई 2005

नायब सूबेदार अजीत सिंह (जेसी-579698एच जैक राईफल्स), 01 अगस्त 2005

नायब सूबेदार विनोद कुमार थापा (जेसी-579607एन जैक राईफल्स), 01 अगस्त 2005

नायब सूबेदार प्रकाश चन्द (जेसी-579666ए जैक राईफल्स), 01 अगस्त 2005

नायब सूबेदार जोगिन्द्र सिंह (जेसी-579637एल जैक राईफल्स), 01 अगस्त 2005

नायब सूबेदार राम लाल (जेसी-579706डब्ल्यू जैक राईफल्स), 01 अगस्त 2005

नायब सूबेदार ओंकार सिंह (जेसी-579778ए जैक राईफल्स), 01 अगस्त 2005

नायब सूबेदार बलबीर सिंह (जेसी-579731पी जैक राईफल्स), 01 अगस्त 2005

नायब सूबेदार दिल बहादुर सिंह (जेसी-579760के जैक राईफल्स), 03 अगस्त 2005

नायब सूबेदार शंकर सिंह (जेसी-579611डब्ल्यू जैक राईफल्स), 01 सितम्बर 2005

नायब सूबेदार मोहन मन शरेष्ठा सिंह (जेसी-579678पी जैक राईफल्स), 01 सितम्बर 2005

नायब सूबेदार दिलबाग सिंह (जेसी-579707वाई जैक राईफल्स), 01 सितम्बर 2005

नायब सूबेदार रविन्द्र कुमार (जेसी-579780एक्स जैक राईफल्स), 01 सितम्बर 2005

नायब सूबेदार कृष्ण सिंह (जेसी-579779एच जैक राईफल्स), 01 सितम्बर 2005

नायब सूबेदार दलबीर सिंह (जेसी-579715एक्स जैक राईफल्स), 01 अक्टूबर 2005

नायब सूबेदार सुभाष चन्द (जेसी-579708एफ जैक राईफल्स), 01 अक्टूबर 2005

नायब सूबेदार दया सागर (जेसी-579717एच जैक राईफल्स), 01 अक्टूबर 2005

नायब सूबेदार सुभाष चन्द्र (जेसी-579719एम जैक राईफल्स), 01 नवम्बर 2005

नायब सूबेदार जोगिन्द्र सिंह (जेसी-579720एच जैक राईफल्स), 01 नवम्बर 2005

सूबेदार लिपिक जी डी के रैंक में

नायब सूबेदार लिपिक रविन्द्र सिंह ठाकुर (जेसी-579206वाई जैक राईफल्स), 01 जुलाई 2005

नायब सूबेदार लिपिक करनैल चन्द कँथ (जेसी-579296एल), जैक राईफल्स, 01 जुलाई 2005

नायब सूबेदार लिपिक सतीश कुमार शर्मा (जेसी-579298डब्ल्यू), जैक राईफल्स, 01 सितम्बर 2005

नायब सूबेदार लिपिक लेख राम ठाकुर (जेसी-579297एन), जैक राईफल्स, 01 सितम्बर 2005

नायब सूबेदार लिपिक रण सिंह (जेसी-579451एफ), जैक राईफल्स, 01 सितम्बर 2005

नायब सूबेदार लिपिक सवर्ण सिंह (जेसी-579215ए), जैक राईफल्स, 01 सितम्बर 2005

नायब सूबेदार लिपिक जगदीश सिंह (जेसी-579370एफ), जैक राईफल्स, 01 अक्टूबर 2005

सिख रेजीमेंट

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार भूपिन्दर सिंह (जेसी-499066के), 29 नवम्बर 2005
(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2005)

नायब सूबेदार गुरमीत सिंह (जेसी-499133के), 25 अक्टूबर 2005
(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2005)

नायब सूबेदार अमरीक सिंह (जेसी-499262के), 21 नवम्बर 2005
(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2005)

नायब सूबेदार टेहल सिंह (जेसी-499178के), 12 नवम्बर 2005
(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2005)

नायब सूबेदार देविन्दर सिंह (जेसी-499196एम), 16 दिसम्बर 2005

(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2005)

नायब सूबेदार लखविन्दर सिंह (जेसी-499152पी), 01 दिसम्बर 2005

सूबेदार क्लर्क के रैंक में

नायब सूबेदार क्लर्क सतपाल सिंह (जेसी-499079एफ), 01 दिसम्बर 2005

गढ़वाल राईफल्स

सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार दर्शन सिंह (जेसी-528507एफ), 01 जुलाई 2005

सूबेदार हरेन्द्र सिंह (जेसी-528845एफ), 01 जुलाई 2005

सूबेदार राम सिंह (जेसी-528241वाई), 01 अगस्त 2005

सूबेदार कमल सिंह (जेसी-528522पी), 01 अगस्त 2005

सूबेदार दिगविजय जोशी (जेसी-528329एच), 01 सितम्बर 2005

सूबेदार मेजर (लिपिक) के रैंक में

सूबेदार (लिपिक) राम सैनार मिश्रा (जेसी-528127एफ), 01 सितम्बर 2005

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार राजेन्द्र प्रसाद (जेसी-529383एच), 01 सितम्बर 2004

नायब सूबेदार कलम सिंह (जेसी-529519एफ), 01 दिसम्बर 2004

नायब सूबेदार हुकम सिंह (जेसी-529424एफ), 01 फरवरी 2005

नायब सूबेदार बिशन सिंह (जेसी-529434एल), 01 मार्च 2005

नायब सूबेदार लखपत सिंह (जेसी-529411के), 20 मार्च 2005

नायब सूबेदार सुरेन्द्र सिंह (जेसी-529435एन), 22 मई 2005

नायब सूबेदार सुरेन्द्र सिंह (जेसी-529223एच), 01 जुलाई 2005

नायब सूबेदार गुलाब सिंह (जेसी-529295एम), 01 जुलाई 2005

नायब सूबेदार तेजपाल सिंह (जेसी-529430पी), 01 जुलाई 2005

नायब सूबेदार दिनेश कुमार (जेसी-529482एल), 01 जुलाई 2005

नायब सूबेदार कुन्दन सिंह (जेसी-529562एच), 01 जुलाई 2005

नायब सूबेदार किशोर कुमार (जेसी-529619एम), 01 जुलाई 2005

नायब सूबेदार कमला नन्द (जेसी-529499वाई), 05 जुलाई 2005

नायब सूबेदार राम कुमार (जेसी-529368एन), 01 अगस्त 2005

नायब सूबेदार तेजेन्द्र सिंह (जेसी-529563एल), 01 अगस्त 2005

नायब सूबेदार नारायण सिंह (जेसी-529409एम), 10 अगस्त 2005

नायब सूबेदार दलबीर सिंह (जेसी-529493एक्स), 01 सितम्बर 2005

नायब सूबेदार उमेद सिंह रावत (जेसी-529515एल), 01 सितम्बर 2005

नायब सूबेदार राम सिंह सजवान (जेसी-529454एच), 01 सितम्बर 2005

नायब सूबेदार जगेन्द्र सिंह (जेसी-529472एफ), 01 सितम्बर 2005

नायब सूबेदार राम चन्द्र सिंह (जेसी-529467डब्ल्यू), 07 सितम्बर 2005

नायब सूबेदार बालम सिंह (जेसी-529618के), 12 सितम्बर 2005

नायब सूबेदार महा नन्द (जेसी-529362एम), 19 सितम्बर 2005

सूबेदार (लिपिक) के रैंक में

नायब सूबेदार (लिपिक) अशोक कुमार तिवारी (जेसी-529073एक्स), 01 सितम्बर 2005

नायब सूबेदार (लिपिक) अमर सिंह (जेसी-529123एक्स),
01 सितम्बर 2005

नायब सूबेदार (लिपिक) अनिल कुमार चौहान (जेसी-529208एन),
01 सितम्बर 2005

9 जी आर

अब सूबेदार (म्यूजीसियन) के रैंक में

नायब सूबेदार (म्यूजीसियन) लुक बहादुर थापा (जेसी-629504एन),
05 दिसम्बर 2005/01 अगस्त 2005*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों के प्रभावित किये बिना ज्येष्ठता दी जायेगी)

जाट रेजीमेंट

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार राजवीर सिंह (सं. 2594274डब्ल्यू अब जेसी-489768पी),
08 जुलाई 2005

हवलदार राम कुमार (सं. 2594102एफ अब जेसी-489769एक्स),
08 जुलाई 2005

हवलदार प्रमोद कुमार (सं. 2594284ए अब जेसी-489770एम),
16 जुलाई 2005

हवलदार राम करन जाट (सं. 3180968एन अब जेसी-489771पी),
23 जुलाई 2005

हवलदार महेश चन्द (सं. 3179084पी अब जेसी-489772एक्स),
06 नवम्बर 2005

हवलदार ओम प्रकाश (सं. 3175329एच अब जेसी-489773ए),
01 दिसम्बर 2005

हवलदार अर्जुन राम (सं. 3177988डब्ल्यू अब जेसी-489774एच),
04 दिसम्बर 2005

हवलदार मनवीर सिंह (सं. 3188350के अब जेसी-489775एल),
04 दिसम्बर 2005

हवलदार किशन पाल (सं. 3177753के अब जेसी-489776एन),
04 दिसम्बर 2005

हवलदार कालू राम गलवा (सं. 3181023डब्ल्यू अब जेसी-489777डब्ल्यू), 01 जनवरी 2006

हवलदार योगेन्द्र सिंह (सं. 3179989एक्स अब जेसी-489761एल),
26 मई 2005*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 17 मई 2005 से दी जायेगी)

हवलदार सोमवीर (सं. 3188506डब्ल्यू अब जेसी-489762एन),
15 जुलाई 2005

हवलदार पवन कुमार (सं. 3183889के अब जेसी-489763डब्ल्यू),
01 नवम्बर 2005

हवलदार होशियार सिंह जाट (सं. 3179747ए अब जेसी-489764वाई), 01 नवम्बर 2005

हवलदार रामपाल चौधरी (सं. 3179773डब्ल्यू अब जेसी-489765एफ), 01 नवम्बर 2005

हवलदार कुंवर सिंह सिनसिनवार (सं. 3178312ए अब जेसी-489766के), 01 नवम्बर 2005

नायब सूबेदार (संगीतकार) के रैंक में

हवलदार (संगीतकार) बानवीर कुमार (सं. 3175008एल अब जेसी-489767एम), 01 सितम्बर 2005

बिहार रेजिमेंट

नायब सूबेदार (जी डी) के रैंक में

हवलदार महादेव सिंह खेरवार (4266859एफ अब जेसी-559469डब्ल्यू), 27 जुलाई 2005/18 अगस्त 2004 (ज्येष्ठता)×

×(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में काल्पनिक ज्येष्ठता दिनांक 18 अगस्त 2004 से दी जाती है)

हवलदार कान्हू चरण हेम्व्रम (4262334डब्ल्यू अब जेसी-559470एल), 15 जून 2005/01 जनवरी 2005 (ज्येष्ठता)×

×(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 01 जनवरी 2005 से दी जाती है)

हवलदार किर्तन चन्द्र देहुरी (4263355एच अब जेसी-559471एन),
09 जनवरी 2005/01 जनवरी 2005 (ज्येष्ठता)×

×(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 01 जनवरी 2005 से दी जाती है)

हवलदार जितेन्द्र प्रसाद राय (4258742एन अब जेसी-559472डब्ल्यू),
29 जून 2005/19 जून (ज्येष्ठता)×

×(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 19 जून 2005 से दी जाती है)

हवलदार शरत कुमार बेहरा (4262323एन अब जेसी-559473वाई),
04 जुलाई 2005/01 मई 2005 (ज्येष्ठता)×

×(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 01 मई 2005 से दी जाती है)

हवलदार ईलब्युस कुजुर (8031253एन अब जेसी-559474एफ),
11 जुलाई 2005/17 जून 2005 (ज्येष्ठता)×

×(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 17 जून 2005 से दी जाती है)

हवलदार ब्रह्मदेव प्रसाद (4264444एन अब जेसी-559475के),
11 जुलाई 2005/01 जुलाई 2005 (ज्येष्ठता)×

×(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 01 जुलाई 2005 से दी जाती है)

हवलदार दीना नाथ सिंह (4264262ए अब जेसी-559476एम),
18 जुलाई 2005/01 जुलाई 2005 (ज्येष्ठता)×

×(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 01 जुलाई 2005 से दी जाती है)

हवलदार शत्रुघ्न साह (4261645एफ अब जेसी-559477पी),
29 जुलाई 2005/22 जून 2005 (ज्येष्ठता)×

×(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 22 जून 2005 से दी जाती है)

हवलदार प्रसन कुमार जेना (4262618के अब जेसी-559478एक्स),
02 अगस्त 2005/16 जुलाई 2005 (ज्येष्ठता)×

×(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 16 जुलाई 2005 से दी जाती है)

हवलदार शुक्र मुण्डा (4266383ए अब जेसी-559479ए), 04 अगस्त 2005/01 मई 2005 (ज्येष्ठता)×

×(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 01 मई 2005 से दी जाती है)

हवलदार माधवेन्द्र लगुरी (4262209डब्ल्यू अब जेसी-559480पी),
09 अगस्त 2005/19 मार्च (ज्येष्ठता)×

×(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 19 मार्च 2005 से दी जाती है)

हवलदार नानेयों ओरौव (4261587एच अब जेसी-559481एक्स),
16 अगस्त 2005/19 मार्च 2005 (ज्येष्ठता)×

×(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 19 मार्च 2005 से दी जाती है)

हवलदार शंकर लाल (4262461पी अब जेसी-559482ए),
16 अगस्त 2005/21 मार्च 2005 (ज्येष्ठता)×

×(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 21 मार्च 2005 से दी जाती है)

नायब सूबेदार लिपिक (जी डी) के रैंक में

हवलदार (लिपिक) जय प्रकाश मेहता (4264231ए अब जेसी-559483एच), 01 अगस्त 2005

हवलदार (लिपिक) विनय कुमार सिंह (4264229एच अब जेसी-559484एल), 31 अगस्त 2005/01 अगस्त (ज्येष्ठता)×

×(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 01 अगस्त 2005 से दी जाती है)

हवलदार (लिपिक) योगेन्द्र प्रसाद (4264234एन अब जेसी-559485एन), 18 जुलाई 2005/01 जुलाई 2005 (ज्येष्ठता)×

×(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 01 जुलाई 2005 से दी जाती है)

हवलदार (लिपिक) राम लाल पाल (4264240एफ अब जेसी-559486डब्ल्यू), 23 सितम्बर 2005/01 सितम्बर 2005 (ज्येष्ठता)×

×(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 01 सितम्बर 2005 से दी जाती है)

हवलदार (लिपिक) प्रदुम्न तिवारी (4264313एच अब जेसी-559487वाई), 04 अक्टूबर 2005/01 अक्टूबर 2005 (ज्येष्ठता)×

×(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 01 अक्टूबर 2005 से दी जाती है)

नायब सूबेदार (जी डी) के रैंक में

हवलदार संजय कुमार किन्डो (4265486एक्स अब जेसी-559488एफ), 24 अगस्त 2005/01 जून 2005 (ज्येष्ठता)×

×(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 01 जून 2005 से दी जाती है)

हवलदार डोमन लकड़ा (4264817डब्ल्यू अब जेसी-559489के),
24 अगस्त 2005/01 जून 2005 (ज्येष्ठता)×

×(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 01 जून 2005 से दी जाती है)

हवलदार फेबियानुस बेंग (4267595एक्स अब जेसी-559490वाई),
04 सितम्बर 2005/01 जून 2005 (ज्येष्ठता)×

×(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 01 जून 2005 से दी जाती है)

हवलदार विष्णु ओरौव (4263189ए अब जेसी-559491एफ), 20 अगस्त 2005/01 जून 2005 (ज्येष्ठता)×

×(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 01 जून 2005 से दी जाती है)

हवलदार जयराम प्रधान (4266660ए अब जेसी-559492के), 25 अगस्त 2005/01 जून 2005 (ज्येष्ठता)×

×(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 01 जून 2005 से दी जाती है)

हवलदार चैतन्य प्रसाद सोरेन (4265413ए अब जेसी-559493ए),
25 अगस्त 2005/01 जून 2005 (ज्येष्ठता)×

×(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 01 जून 2005 से दी जाती है)

हवलदार त्रिलोक नाथ पाण्डेय (4262480ए अब जेसी-559494पी),
25 अगस्त 2005/01 जुलाई 2005 (ज्येष्ठता)×

×(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 01 जुलाई 2005 से दी जाती है)

कम्पनी हवलदार मेजर सुरेन्द्र तिवारी (4263284एम अब जेसी-559495एक्स), 15 अक्टूबर 2005/01 जुलाई 2005 (ज्येष्ठता)×

×(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 01 जुलाई 2005 से दी जाती है)

हवलदार प्रद्युम्न कुमार बराल (4262683के अब जेसी-559496ए),
11 सितम्बर 2005/01 अगस्त 2005 (ज्येष्ठता)×

×(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 01 अगस्त 2005 से दी जाती है)

हवलदार भक्त हेमराम (4265342के अब जेसी-559497एच),
12 सितम्बर 2005/06 अगस्त 2005 (ज्येष्ठता)×

×(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में
ज्येष्ठता दिनांक 06 अगस्त 2005 से दी जाती है)

हवलदार रामगडे महेन्द्र सहदेवराव (4269396एच अब जेसी-
559498एल), 19 सितम्बर 2005/06 अगस्त 2005 (ज्येष्ठता)×

×(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में
ज्येष्ठता दिनांक 06 अगस्त 2005 से दी जाती है)

हवलदार माडवी कृष्ण मल्लाय्या (4267032एक्स अब जेसी-
559499एन), 01 सितम्बर 2005

हवलदार नीराकर परीडा (4262617एफ अब जेसी-559500एक्स),
01 सितम्बर 2005

नायब सूबेदार लिपिक (जी डी) के रैंक में

हवलदार (लिपिक) गंगासागर सिंह (4264241एन अब जेसी-
559501ए), 10 अक्टूबर 2005/01 सितम्बर 2005 (ज्येष्ठता)×

×(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में
ज्येष्ठता दिनांक 01 सितम्बर 2005 से दी जाती है)

हवलदार (लिपिक) दीप नारायण राम (4264312ए अब जेसी-
559502एच), 20 अक्टूबर 2005/01 अक्टूबर 2005 (ज्येष्ठता)×

×(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में
ज्येष्ठता दिनांक 01 अक्टूबर 2005 से दी जाती है)

हवलदार (लिपिक) योगेन्द्र पाल सिंह (15359076एच अब जेसी-
559503एल), 31 अक्टूबर 2005/27 अक्टूबर 2005 (ज्येष्ठता)×

×(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में
ज्येष्ठता दिनांक 27 अक्टूबर 2005 से दी जाती है)

हवलदार (लिपिक) शुभ्र घोष (4264305के अब जेसी-559504एन),
01 नवम्बर 2005

हवलदार (लिपिक) हरे कृष्ण पाण्डेय (4264306एम अब जेसी-
559505डब्ल्यू), 05 नवम्बर 2005/01 नवम्बर 2005 (ज्येष्ठता)×

×(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में
ज्येष्ठता दिनांक 01 नवम्बर 2005 से दी जाती है)

हवलदार (लिपिक) राधे श्याम यादव (4264374ए अब
जेसी-559506वाई), 14 नवम्बर 2005/01 नवम्बर 2005 (ज्येष्ठता)×

×(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में
ज्येष्ठता दिनांक 01 नवम्बर 2005 से दी जाती है)

नायब सूबेदार (जी डी) के रैंक में

हवलदार श्री कान्त चौधरी (4263310एच अब जेसी-559507एफ),
11 अक्टूबर 2005/01 जुलाई 2005 (ज्येष्ठता)×

×(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में
ज्येष्ठता दिनांक 01 जुलाई 2005 से दी जाती है)

हवलदार शैलेश कुमार सिंह (4262025एक्स अब जेसी-559508के),
07 जुलाई 2005/01 जून 2005 (ज्येष्ठता)×

×(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में
ज्येष्ठता दिनांक 01 जून 2005 से दी जाती है)

कम्पनी हवलदार मेजर लॉरेन्स कुजूर (4261309पी अब जेसी-
559509एम), 11 अक्टूबर 2005/26 मई 2005 (ज्येष्ठता)×

×(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में
ज्येष्ठता दिनांक 26 मई 2005 से दी जाती है)

हवलदार रवीन्द्र प्रसाद शर्मा (4261674डब्ल्यू अब जेसी-
559510एफ), 07 अक्टूबर 2005/01 सितम्बर 2005 (ज्येष्ठता)×

×(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में
ज्येष्ठता दिनांक 01 सितम्बर 2005 से दी जाती है)

हवलदार सीरिल टाय्पो (4261408एक्स अब जेसी-559511के), 05
नवम्बर 2005/05 सितम्बर 2005 (ज्येष्ठता)×

×(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में
ज्येष्ठता दिनांक 05 सितम्बर 2005 से दी जाती है)

हवलदार बुद्ध नाथ भगत (4261544एन अब जेसी-559512एम),
05 नवम्बर 2005/17 सितम्बर 2005 (ज्येष्ठता)×

×(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में
ज्येष्ठता दिनांक 17 सितम्बर 2005 से दी जाती है)

हवलदार कमलेश प्रसाद (4260581पी अब जेसी-559513पी), 29
अक्टूबर 2005/27 सितम्बर 2004 (ज्येष्ठता)×

×(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में
ज्येष्ठता दिनांक 27 सितम्बर 2004 से दी जाती है)

हवलदार अधिवंश प्रसाद सिंह (4263326एन अब जेसी-
559514एक्स), 31 अक्टूबर 2005/01 जुलाई 2005 (ज्येष्ठता)×

×(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में
ज्येष्ठता दिनांक 01 जुलाई 2005 से दी जाती है)

हवलदार लक्ष्मण बाखला (4266641पी अब जेसी-559515ए), 17
सितम्बर 2005/01 जुलाई 2005 (ज्येष्ठता)×

×(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में
ज्येष्ठता दिनांक 01 जुलाई 2005 से दी जाती है)

हवलदार स्याम सुन्दर मरांडी (4267133एल अब जेसी-559516एच),
17 अक्टूबर 2005/11 सितम्बर 2005 (ज्येष्ठता)×

×(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में
ज्येष्ठता दिनांक 11 सितम्बर 2005 से दी जाती है)

हवलदार निर्मल एक्का (4261938एम अब जेसी-559517एल),
07 नवम्बर 2005/06 सितम्बर 2005 (ज्येष्ठता)×

×(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में
ज्येष्ठता दिनांक 06 सितम्बर 2005 से दी जाती है)

कोर ऑफ मिलिट्री पुलिस
नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार सडोलकर केराबा कुन्डलीक (नं. 7773676वाई अब जेसी-819074एल), 13 अक्टूबर 2005#

हवलदार मुन्ना लाल (नं. 7773403डब्ल्यू अब जेसी-819075एन), 5 नवम्बर 2005@

हवलदार राम देव मीना (नं. 7773002एफ अब जेसी-819076डब्ल्यू), 21 अक्टूबर 2005@

हवलदार धीरेन्द्र कुमार अचार्या (नं. 7773494एल अब जेसी-819077वाई), 28 अक्टूबर 2005@

हवलदार विजय सिंह चोयल (नं. 7773558एल अब जेसी-819078एफ), 28 अक्टूबर 2005@

हवलदार नागेन्द्र कुमार सिंह (नं. 7773603एम अब जेसी-819079के), 25 अक्टूबर 2005@

हवलदार श्री भागवत विश्वकर्मा (नं. 7773508ए अब जेसी-819080वाई), 25 नवम्बर 2005@

हवलदार देव नाथ यादव (नं. 7773669एच अब जेसी-819081एफ), 31 अक्टूबर 2005@

हवलदार विनोद कुमार यादव (नं. 7773683पी अब जेसी-819082के), 28 अक्टूबर 2005@

हवलदार अरविन्द कुमार सिंह (नं. 7773730एफ अब जेसी-819083एम), 22 नवम्बर 2005@

हवलदार महावीर (नं. 7773765एक्स अब जेसी-819084पी), 1 नवम्बर 2005

हवलदार ब्रिज कान्त सिंह (नं. 7773761एफ अब जेसी-819085एक्स), 1 नवम्बर 2005

हवलदार मुरली जी (नं. 7773764पी अब जेसी-819086ए), 2 नवम्बर 2005\$

हवलदार प्रभात शैकिया (नं. 7773789एफ अब जेसी-819087एच), 2 नवम्बर 2005\$

हवलदार वालके सुनील पोपट (नं. 7773800पी अब जेसी-819088एल), 2 नवम्बर 2005\$

हवलदार कनगराज वी (नं. 7773710एन अब जेसी-819089एन), 1 नवम्बर 2005

हवलदार झरखंडे प्रसाद गुप्ता (नं. 7773758एफ अब जेसी-819090एच), 1 नवम्बर 2005

हवलदार बालाजी (नं. 7773928ए अब जेसी-819091एल), 1 नवम्बर 2005

हवलदार प्रदीप कुमार (नं. 7773768एल अब जेसी-819092एन), 24 नवम्बर 2005 \$

हवलदार नवल किशोर (नं. 7773619एक्स अब जेसी-819095एफ), 2 दिसम्बर 2005&

हवलदार रणधीर सिंह (नं. 7773938के अब जेसी-819096के), 6 दिसम्बर 2005&

हवलदार हेम चन्द्र पाण्डेय (नं. 7773940एफ अब जेसी-819097एम), 1 दिसम्बर 2005

हवलदार जगमोहन शर्मा (नं. 7773822एन अब जेसी-819098पी), 1 दिसम्बर 2005

हवलदार भोला प्रसाद (नं. 7773843के अब जेसी-819099एक्स), 1 दिसम्बर 2005

हवलदार वुन्दाला चिन्नैया (नं. 7773818एल अब जेसी-819100एफ), 1 दिसम्बर 2005

हवलदार देव प्रसाद राय (नं. 7773849एल अब जेसी-819101के), 6 दिसम्बर 2005&

#(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 जुलाई 2005 से दी जाती है)

@(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 अक्टूबर 2005 से दी जाती है)

\$(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 नवम्बर 2005 से दी जाती है)

&(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 दिसम्बर 2005 से दी जाती है)

नायब सूबेदार (क्लर्क) के रैंक में

हवलदार मनवीर सिंह राघव (नं. 7773140एच अब जेसी-819093डब्ल्यू), 1 दिसम्बर 2005

हवलदार बाबू गिरीश चन्द (नं. 7773828पी अब जेसी-819094वाई), 23 दिसम्बर 2005&

&(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 दिसम्बर 2005 से दी जाती है)

विशेष सूची

पंजाब रेजिमेन्ट

नायब सूबेदार धार्मिक शिक्षक पंडित के रैंक में

आर आर टी (पंडित) राकेश चन्द्रा (जेसी-429455एम), 10 जनवरी 2004

हवलदार शिवकान्त तिवारी (नं. 1582240ए अब जेसी-429750पी), 17 जुलाई 2004

आर आर टी (पंडित) रामा कान्त त्रिपाठी (जेसी-429526एच), 17 जुलाई 2004

आर आर टी (पंडित) भुवनेश्वर मणि त्रिपाठी (जेसी-429640ए), 11 दिसम्बर 2004

नायब सूबेदार धार्मिक शिक्षक ग्रन्थी के रैंक में

आर आर टी (ग्रन्थी) गुरमिन्दर सिंह गिल (जेसी-429454के),
10 जनवरी 2004

लांस नायक गुरतेज सिंह (नं. 1494563ए अब जेसी-429729एम),
17 जुलाई 2004

नायक हरदीप सिंह (नं. 1485621एक्स अब जेसी-429730एफ),
17 जुलाई 2004

आर आर टी (ग्रन्थी) मेजर सिंह (जेसी-429527एल), 17 जुलाई
2004

नायक हरजिन्दर सिंह (नं. 2484744एन अब जेसी-429772एम),
19 फरवरी 2005

दिवाकर
अवर सचिव

सं. 209, दिनांक 30 मार्च 2006.--राष्ट्रपति निम्नलिखित पदोन्नतियां
करते हैं :--

नियमित सेना

इन्फैन्ट्री

मैकानाइज्ड इन्फैन्ट्री रेजीमेंट

सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार प्रीतम सिंह (जेसी-418724एन), 01 दिसम्बर 2005

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार मन बहादुर गुरूंग (जेसी-419797एम), 01 अगस्त
2005*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 जनवरी 2005 से दी जाती है)

नायब सूबेदार रोहताश (जेसी-419555के), 29 नवम्बर 2005*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 सितम्बर 2005 से दी जाती है)

नायब सूबेदार राज कुमार (जेसी-419423डब्ल्यू), 31 अक्टूबर
2005*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 अक्टूबर 2005 से दी जाती है)

नायब सूबेदार कपील प्रसाद (जेसी-419681डब्ल्यू), 05 दिसम्बर
2005*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 अक्टूबर 2005 से दी जाती है)

नायब सूबेदार अमर सिंह वर्मा (जेसी-419720के), 01 अक्टूबर
2005

नायब सूबेदार राम सिंह (जेसी-419610पी), 01 नवम्बर 2005

नायब सूबेदार ज्ञान बहादुर थापा (जेसी-419918एच), 26 नवम्बर
2005*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 नवम्बर 2005 से दी जाती है)

नायब सूबेदार जाधव शहाजी नारायण (जेसी-419605के), 01 दिसम्बर
2005

नायब सूबेदार श्याम लाल पटेल (जेसी-419683एफ), 31 दिसम्बर
2005*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 दिसम्बर 2005 से दी जाती है)

नायब सूबेदार बीरी सिंह (जेसी-419746वाई), 01 दिसम्बर 2005

नायब सूबेदार करन सिंह (जेसी-419887एम), 21 दिसम्बर 2005*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 दिसम्बर 2005 से दी जाती है)

नायब सूबेदार वेद प्रकाश (जेसी-419904एच), 03 दिसम्बर 2005*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 दिसम्बर 2005 से दी जाती है)

नायब सूबेदार अनिल आले (जेसी-419920ए), 17 दिसम्बर 2005*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 दिसम्बर 2005 से दी जाती है)

नायब सूबेदार अशोक कुमार गुरूंग (जेसी-419921एच), 17 दिसम्बर
2005*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 दिसम्बर 2005 से दी जाती है)

नायब सूबेदार बिरादर विष्णु सतवाजी (जेसी-419480एक्स), 03
जनवरी 2006*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 जनवरी 2006 से दी जाती है)

नायब सूबेदार कृष्णा मूर्ति के (जेसी-419618एफ), 02 जनवरी
2006*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 जनवरी 2006 से दी जाती है)

मैकानाइज्ड इन्फैन्ट्री रेजीमेंट

सूबेदार (धर्मशिक्षक) के रैंक में

नायब सूबेदार (धर्मशिक्षक) राम चन्द्र तिवारी (जेसी-418461ए),
13 दिसम्बर 2005*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 दिसम्बर 2005 से दी जाती है)

नायब सूबेदार (धर्मशिक्षक) कृष्णा देव शुक्ला (जेसी-418462एच),
06 दिसम्बर 2005*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 दिसम्बर 2005 से दी जाती है)

जोस थोमस
अवर सचिव

सं. 210, दिनांक 28 मार्च 2006.--राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित
पदोन्नतियां करते हैं :--

नियमित सेना

कोर ऑफ सिग्नल्स

स्थाई सूबेदार (वाई ऑफ एस) के रैंक में

नायब सूबेदार जी एम भानुदास (जेसी-371966एच), 24 नवम्बर
2005*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 सितम्बर 2005 से दी जाती है)

नायब सूबेदार एस सी पटनायक (जेसी-372226ए), 01 नवम्बर
2005

नायब सूबेदार बलाई चन्द्र साहा (जेसी-372227एच), 01 नवम्बर
2005

नायब सूबेदार प्रेम राज चौहान (जेसी-372228एल), 01 नवम्बर
2005

नायब सूबेदार नारद शर्मा (जेसी-372229एन), 01 नवम्बर 2005

नायब सूबेदार ओम प्रकाश स्वामी (जेसी-372230एच), 01 नवम्बर
2005

नायब सूबेदार के विजया कुमार (जेसी-372231एल), 01 नवम्बर
2005

नायब सूबेदार रघुनाथन एम डी (जेसी-372232एन), 01 नवम्बर
2005

नायब सूबेदार राम बाबू तोकस (जेसी-372233डब्ल्यू), 01 नवम्बर
2005

नायब सूबेदार ब्रह्म प्रकाश (जेसी-372455एल), 01 नवम्बर 2005

स्थाई सूबेदार (एस ऑफ एस) के रैंक में

नायब सूबेदार किशोर कुमार जोशी (जेसी-372388एल), 01 जून
2005

नायब सूबेदार राजवीर सिंह (जेसी-372391एल), 01 जून 2005

नायब सूबेदार मनोज कुमार (जेसी-372399एक्स), 01 जुलाई 2005

नायब सूबेदार भरत चन्द (जेसी-372402एम), 14 जुलाई 2005

(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 जुलाई 2005 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार नरेन्द्र सिंह (जेसी-372410एल), 01 नवम्बर 2005

नायब सूबेदार शंभू लाल (जेसी-372411एन), 02 नवम्बर 2005

(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 नवम्बर 2005 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार सुरेश बाबू एस (जेसी-372412डब्ल्यू), 01 नवम्बर
2005

नायब सूबेदार एस गनेसन (जेसी-372414एफ), 01 नवम्बर 2005

नायब सूबेदार धनना लाल जाट (जेसी-372415के), 01 नवम्बर
2005

नायब सूबेदार पी आश्विन कुमार एस बी (जेसी-372419ए), 01
नवम्बर 2005

नायब सूबेदार अलि सेर (जेसी-372420पी), 20 नवम्बर 2005

(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 नवम्बर 2005 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार के विजयन्थिरन (जेसी-372421एक्स), 01 नवम्बर
2005

नायब सूबेदार योगेन्द्र सिंह (जेसी-372422ए), 01 नवम्बर 2005

नायब सूबेदार चेरियन जार्ज (जेसी-372423एच), 01 नवम्बर 2005

नायब सूबेदार राम सिंह यादव (जेसी-372424एल), 01 नवम्बर
2005

नायब सूबेदार रामेन्द्र सिंह (जेसी-372426डब्ल्यू), 01 नवम्बर 2005

नायब सूबेदार गनपति सिंह (जेसी-372427वाई), 01 नवम्बर 2005

नायब सूबेदार सोहन लाल (जेसी-372428एफ), 01 नवम्बर 2005

नायब सूबेदार एस विजया कुमार (जेसी-372429के), 01 नवम्बर
2005

नायब सूबेदार देविन्दर कुमार (जेसी-372430वाई), 01 नवम्बर
2005

स्थायी सूबेदार (ओ पी साईफर) के रैंक में

नायब सूबेदार कृष्ण कुमार (जेसी-373332एल), 17 अगस्त 2005

(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 जुलाई 2005 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार वीरेन्द्र सिंह (जेसी-373453एम), 14 जुलाई 2005

(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 जुलाई 2005 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार गुलाब चन्दर (जेसी-373457एच), 01 जुलाई 2005

नायब सूबेदार हरि सिंह राजपूत (जेसी-373460एच), 01 सितम्बर
2005

नायब सूबेदार रनबीर सिंह (जेसी-373461एल), 01 सितम्बर 2005

नायब सूबेदार महाबीर सिंह नेगी (जेसी-373462एन), 01 अक्टूबर 2005

नायब सूबेदार ज्ञान चन्द इन्दु (जेसी-373463डब्ल्यू), 01 अक्टूबर 2005

नायब सूबेदार अच्छे लाल (जेसी-373647पी), 03 अक्टूबर 2005
(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2005 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार डी मुरुगा दास (जेसी-373648एक्स), 01 अक्टूबर 2005

नायब सूबेदार उदय चन्द शर्मा (जेसी-373613एफ), 01 अक्टूबर 2005

नायब सूबेदार मृणाल कान्ती चन्द (जेसी-373614के), 03 अक्टूबर 2005

(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2005 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार आलम सिंह (जेसी-373615एम), 01 अक्टूबर 2005

नायब सूबेदार रामू दादू मोरे (जेसी-373616पी), 01 नवम्बर 2005

स्थायी सूबेदार (ओ पी स्पेशल) के रैंक में

नायब सूबेदार लक्ष्मण सिंह सेंगर (जेसी-373490ए), 01 सितम्बर 2005

नायब सूबेदार भान सिंह (जेसी-373492एल), 01 अक्टूबर 2005

नायब सूबेदार मांगे राम (जेसी-373345एच), 01 नवम्बर 2005

(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 12 अक्टूबर 2005 से दी जायेगी)

स्थायी सूबेदार (क्लर्क जी डी) के रैंक में

नायब सूबेदार प्रेम चन्द यादव (जेसी-372052एल), 01 सितम्बर 2005

नायब सूबेदार राजीवन के सी (जेसी-372053एन), 01 अक्टूबर 2005

नायब सूबेदार देसाई रामा गोंडा के (जेसी-372054डब्ल्यू), 01 अक्टूबर 2005

नायब सूबेदार राजबीर (जेसी-372055वाई), 01 अक्टूबर 2005

नायब सूबेदार किशोरी लाल शर्मा (जेसी-372056एफ), 01 अक्टूबर 2005

नायब सूबेदार राजेन्द्र कुमार (जेसी-372058एम), 01 अक्टूबर 2005

नायब सूबेदार नरेश चन्दर (जेसी-372059पी), 01 नवम्बर 2005

नायब सूबेदार दर्शन सिंह (जेसी-372241पी), 01 नवम्बर 2005

नायब सूबेदार दर्प नारायण राउत (जेसी-372278डब्ल्यू), 01 नवम्बर 2005

नायब सूबेदार महाराज सिंह (जेसी-372279वाई), 07 नवम्बर 2005
(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2005 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार बलबीर सिंह (जेसी-372331डब्ल्यू), 01 दिसम्बर 2005

नायब सूबेदार जसवंत सिंह ठाकुर (जेसी-372375एन), 01 दिसम्बर 2005

स्थायी सूबेदार (एस के टी) के रैंक में

नायब सूबेदार एच जी एस चौहान (जेसी-373472एक्स), 01 नवम्बर 2005

स्थायी सूबेदार (जी डी) के रैंक में

नायब सूबेदार गोपी नाथन एम पी (जेसी-373989एच), 14 अक्टूबर 2005

(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2005 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार भद्रपाल सिंह (जेसी-374227एफ), 01 जुलाई 2005

नायब सूबेदार टी डी पिल्लई के यू (जेसी-374252ए), 01 जुलाई 2005

नायब सूबेदार जुगल किशोर (जेसी-374257वाई), 01 अगस्त 2005

नायब सूबेदार सीता राम (जेसी-374298एच), 01 अगस्त 2005

नायब सूबेदार डी एस कुन्डु (जेसी-374299 एल), 01 सितम्बर 2005

नायब सूबेदार जामन सिंह (जेसी-374306 डबल्यू), 22 सितम्बर 2005

(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2005 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार राम प्रताप (जेसी-374307वाई), 01 सितम्बर 2005

नायब सूबेदार श्रीपाल सिंह (जेसी-374310वाई), 01 सितम्बर 2005

नायब सूबेदार व्ही के मिश्रा (जेसी-374311एफ), 15 अक्टूबर 2005

(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2005 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार हरेन्द्रनाथ सी (जेसी-374349एल), 01 अक्टूबर 2005

नायब सूबेदार पीताम्बर दत्त जेडली (जेसी-374350ए), 01 अक्टूबर 2005

नायब सूबेदार राज पाल सिंह (जेसी-372352एल), 01 अक्टूबर 2005

नायब सूबेदार गोपाल सिंह (जेसी-374353एन), 01 अक्टूबर 2005

नायब सूबेदार जयदीप सिंह (जेसी-374354डब्ल्यू), 01 अक्टूबर 2005

नायब सूबेदार सुरति दास (जेसी-374355वाई), 01 अक्टूबर 2005

नायब सूबेदार ए के चौधरी (जेसी-374356एफ), 01 अक्टूबर 2005

नायब सूबेदार सजीथ व्ही (जेसी-374357के), 01 अक्टूबर 2005

नायब सूबेदार जयकान्त बोरा (जेसी-374359पी), 06 अक्टूबर 2005

(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2005 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार गोपीनाथन नायर के (जेसी-374360के), 01 अक्टूबर 2005

नायब सूबेदार देलीप सिंह (जेसी-374361एम), 01 अक्टूबर 2005

नायब सूबेदार पी सी तलवार (जेसी-374362पी), 07 अक्टूबर 2005

(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2005 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार चंचल सिंह (जेसी-374363एक्स), 01 अक्टूबर 2005

नायब सूबेदार अवध प्रसाद (जेसी-374364ए), 01 नवम्बर 2005

नायब सूबेदार जे एन गुरूंग (जेसी-374365एच), 01 नवम्बर 2005

नायब सूबेदार केशव कुमार (जेसी-374368डब्ल्यू), 05 नवम्बर 2005

(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2005 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार ओम पंकाश जांगीर (जेसी-374369वाई), 01 नवम्बर 2005

नायब सूबेदार दलीप सिंह ठाकुर (जेसी-374370एन), 01 नवम्बर 2005

नायब सूबेदार विजया कुमार जी (जेसी-374372वाई), 01 नवम्बर 2005

नायब सूबेदार भंवर लाल (जेसी-374373एफ), 01 नवम्बर 2005

नायब सूबेदार एस सी पाल (जेसी-374375एम), 12 नवम्बर 2005

(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2005 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार तेज पाल सिंह (जेसी-374376पी), 07 नवम्बर 2005

(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2005 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार मिलाप चन्द (जेसी-374378ए), 01 नवम्बर 2005

नायब सूबेदार पूरन सिंह (जेसी-374381ए), 04 नवम्बर 2005

(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2005 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार श्री कुमार नायर (जेसी-374389एम), 01 नवम्बर 2005

नायब सूबेदार राजमनि कुरमावंशी (जेसी-374391के), 01 नवम्बर 2005

नायब सूबेदार सुमेर सिंह (जेसी-374394एक्स), 01 नवम्बर 2005

नायब सूबेदार ललित कुमार (जेसी-374395ए), 01 नवम्बर 2005

नायब सूबेदार राज कुमार (जेसी-374396एच), 12 नवम्बर 2005

(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2005 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार के मयन्डी (जेसी-374397एल), 01 नवम्बर 2005

नायब सूबेदार मिजाद हुसैन (जेसी-374450एल), 01 नवम्बर 2005

नायब सूबेदार बिष्णु देव ठाकुर (जेसी-374458एक्स), 01 दिसम्बर 2005

सेना वायु रक्षा कोर

नायब सूबेदार के पद में

बीएचएम मानसिध टोपनो (सं. 14360708वाई अब जेसी-299360ए), 26 नवम्बर 2005/01 अगस्त 2005*

आरएचएम सुरेन्द्र बाबू (सं. 14361070के अब जेसी-299361एच), 22 नवम्बर 2005/01 सितम्बर 2005*

बीएचएम रघुनन्दन यादव (सं. 14369922एच अब जेसी-299362एल), 10 नवम्बर 2005/21 सितम्बर 2005*

हवलदार आशा राम (सं. 14360943एक्स अब जेसी-299363एन), 24 अक्टूबर 2005/01 अक्टूबर 2005*

हवलदार बिरेन्द्र सिंह (सं. 14381410एच अब जेसी-299364डब्ल्यू), 10 नवम्बर 2005/03 अक्टूबर 2005*

बीएचएम हरी सिंह यादव (सं. 14374744पी अब जेसी-299365वाई), 15 नवम्बर 2005/18 अक्टूबर 2005*

हवलदार इंद्र प्रसाद रे (सं. 14378107डब्ल्यू अब जेसी-299366एफ), 17 नवम्बर 2005/26 अक्टूबर 2005*

बीएचएम राज कुमार (सं. 14372429ए अब जेसी-299367के), 01 नवम्बर 2005

बीएचएम प्रभाकरन थिरमबल्ली (सं. 14371340एफ अब जेसी-299368एम), 24 नवम्बर 2005/01 नवम्बर 2005*

हवलदार अजय कुमार शर्मा (सं. 14377349एम अब जेसी-299369पी), 08 दिसम्बर 2005/14 नवम्बर 2005*

हवलदार रघुवीर सिंह (सं. 14367115पी अब जेसी-299370के), 15 दिसम्बर 2005/15 नवम्बर 2005*

आरएचएम ठाकुर प्रसाद (सं. 14354717के अब जेसी-299371एम), 05 दिसम्बर 2005/01 दिसम्बर 2005*

हवलदार सतपाल सिंह (सं. 14487070डब्ल्यू अब जेसी-299372पी), 19 दिसम्बर 2005/01 दिसम्बर 2005*

हवलदार मनोहर लाल (सं. 14487538वाई अब जेसी-299373एक्स), 01 जनवरी 2006

धर्मशिक्षक संतोष कुमार (नया अब जेसी-299374ए), 14 जनवरी 2006

धर्मशिक्षक योगेश शर्मा (नया अब जेसी-299375एच), 14 जनवरी 2006

बीएचएम गोपाल सिंह गौर (सं. 14358878के अब जेसी-299376एल), 25 नवम्बर 2005/03 अक्टूबर 2005*

बीएचएम सुल्तान सिंह (सं. 14364801एक्स अब जेसी-299377एन), 05 दिसम्बर 2005/27 अक्टूबर 2005*

हवलदार जीवन चंद्र (सं. 14376334वाई अब जेसी-299378डब्ल्यू), 10 दिसम्बर 2005/19 नवम्बर 2005*

हवलदार बलबीर सिंह (सं. 14384020एल अब जेसी-299379वाई), 10 दिसम्बर 2005/19 नवम्बर 2005*

हवलदार कमलेश नारायण (सं. 14387964एक्स अब जेसी-299380एन), 10 जनवरी 2006/24 नवम्बर 2005*

बीएचएम दशरथ सिंह यादव (सं. 14346440एफ अब जेसी-299381डब्ल्यू), 14 दिसम्बर 2005/01 दिसम्बर 2005*

हवलदार चंदु लाल (सं. 14387991एल अब जेसी-299382वाई), 15 दिसम्बर 2005/01 दिसम्बर 2005*

हवलदार सतबीर सिंह (सं. 14362509के अब जेसी-299383एफ), 16 दिसम्बर 2005/01 दिसम्बर 2005*

आरएचएम सुशांता कुमार बोस (सं. 14377534ए अब जेसी-299384के), 28 दिसम्बर 2005/01 दिसम्बर 2005*

आरएचएम बाबू जी (सं. 14389182ए अब जेसी-299385एम), 21 जनवरी 2006/22 दिसम्बर 2005*

बीएचएम ए. एन. सिंह पाल (सं. 14358129एन अब जेसी-299386पी), 01 जनवरी 2006

बीएचएम सरूप सिंह (सं. 14386953वाई अब जेसी-299387एक्स), 01 जनवरी 2006

बीएचएम बीरेन कुमार सिंह (सं. 14363097ए अब जेसी-299388ए), 02 जनवरी 2006/01 जनवरी 2006*

हवलदार नर बहादुर मंगर (सं. 14477013एफ अब जेसी-299389एच), 03 जनवरी 2006/01 जनवरी 2006*

हवलदार रविन्द्रन पिल्लै जे (सं. 14363316डब्ल्यू अब जेसी-299390एक्स), 05 जनवरी 2006/01 जनवरी 2006*

बीएचएम अवतार सिंह (सं. 14369422एल अब जेसी-299391ए), 06 जनवरी 2006/01 जनवरी 2006*

हवलदार देबेन सनचुरे (सं. 14357572पी अब जेसी-299392एच), 07 जनवरी 2006/01 जनवरी 2006*

बीएचएम राजकिशोर सिंह यादव (सं. 14361401ए अब जेसी-299393एल), 07 जनवरी 2006/01 जनवरी 2006*

बीएचएम कुलबीर सिंह (सं. 14379004के अब जेसी-299394एन), 07 जनवरी 2006/01 जनवरी 2006*

आरएचएम कुंभार हरीबा बाबु (सं. 14361154एक्स अब जेसी-299395डब्ल्यू), 10 जनवरी 2006/01 दिसम्बर 2005*

*(पदोन्नति के लिए ज्येष्ठता)

स्थायी कमीशन

कप्तान से मूल मेजर के रैंक में

वी-451ए कप्तान वाई वी वी सुन्दर राम मूर्ति, आर वी सी, 17 दिसम्बर 1998

लेफ्टिनेंट से मूल कप्तान के रैंक में

वी-549एन कप्तान राकेश शर्मा, आर वी सी, 13 अप्रैल 2004 लेकिन इस रैंक में वरिष्ठता की तिथि 11 जून 2001

वी-550एच कप्तान मोहम्मद महबूब उर रहमान, आर वी सी, 13 अप्रैल 2004 लेकिन इस रैंक में वरिष्ठता की तिथि 11 जून 2001

वी-551एल कप्तान विनीत बुडोला, आर वी सी, 13 अप्रैल 2004 लेकिन इस रैंक में वरिष्ठता की तिथि 11 जून 2001

वी-552एन कप्तान एस जे प्रेम कुमार ई, आर वी सी, 13 अप्रैल 2004 लेकिन इस रैंक में वरिष्ठता की तिथि 11 जून 2002

वी-553वाई कप्तान नीरज गुप्ता, आर वी सी, 13 अप्रैल 2004 लेकिन इस रैंक में वरिष्ठता की तिथि 11 जून 2001

वी-554वाई कप्तान मानव देशवाल, आर वी सी, 13 अप्रैल 2004 लेकिन इस रैंक में वरिष्ठता की तिथि 11 जून 2001

वी-555एफ कप्तान भूपेन्द्र विशनोई, आर वी सी, 13 अप्रैल 2004 लेकिन इस रैंक में वरिष्ठता की तिथि 11 जून 2001

वी-556के कप्तान एम एम महुसूदन, आर वी सी, 13 अप्रैल 2004 लेकिन इस रैंक में वरिष्ठता की तिथि 11 जून 2002

वी-557एम कप्तान निशान्त राना, आर वी सी, 13 अप्रैल 2004 लेकिन इस रैंक में वरिष्ठता की तिथि 11 जून 2002

वी-558पी कप्तान अनूप आर, आर वी सी, 13 अप्रैल 2004 लेकिन इस रैंक में वरिष्ठता की तिथि 11 जून 2002

वी-559एक्स कप्तान संजय जाधव, आर वी सी, 13 अप्रैल 2004
लेकिन इस रैंक में वरिष्ठता की तिथि 11 जून 2002

वी-560एम कप्तान मनोज कुमार दास, आर वी सी, 13 अप्रैल 2004
लेकिन इस रैंक में वरिष्ठता की तिथि 10 सितम्बर 2001

वी-561पी कप्तान विजय महतो, आर वी सी, 13 अप्रैल 2004
लेकिन इस रैंक में वरिष्ठता की तिथि 10 सितम्बर 2001

एस. पी. शर्मा
अवर सचिव

आर्मी शाखा

सं. 211, दिनांक 31 मार्च 2006--राष्ट्रपति साहब निम्नलिखित की नियुक्तियां/पदोन्नतियां करते हैं :--

व्यक्ति का नाम, पदोन्नति और तारीख

श्रीमती प्रतिमा गोपाल शर्मा, वरिष्ठ निजी सचिव, 01 जनवरी 2004
श्री गोविन्द चंद्र हाजरा, वरिष्ठ निजी सचिव, 01 अप्रैल 2004
श्री सुकुमार भट्टाचार्य, वरिष्ठ निजी सचिव, 01 अप्रैल 2004
श्री नरेन्द्र सिंह रावत, वरिष्ठ निजी सचिव, 01 दिसम्बर 2004
श्रीमती नसीम अयुब खान पठान, निजी सचिव, 03 अगस्त 2004
श्रीमती के विजयालक्ष्मी, निजी सचिव, 03 अगस्त 2004
श्री सुभाष चंद, निजी सचिव, 01 दिसम्बर 2005

एम वी विजयन
डेस्क अधिकारी

सं. 212, दिनांक 3 अप्रैल 2006--राष्ट्रपति निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं :--

नियमित सेना
स्थायी आयोग

ले. कर्नल से कर्नल के मूल रैंक में (समय मान द्वारा)

आई सी संख्या, नाम, आर्म व सब्सटैंटिव तिथि

आईसी-38554 कुलवन्त सिंह, इन्फैन्ट्री, 22 दिसम्बर 2005
आईसी-36461 एच एस चौहान, ए ओ सी, 16 दिसम्बर 2004
आईसी-35957 आई एस बिरमन, ए ओ सी, 09 जून 2005
आईसी-38518 मनी राम, इन्फैन्ट्री, 22 दिसम्बर 2005
आईसी-38320 अशोक परमार, आर्टी, 22 दिसम्बर 2005
आईसी-38399 धर्मपाल, इन्फैन्ट्री, 22 दिसम्बर 2005
आईसी-30125 डी के गुप्ता, ए ओ सी, 16 दिसम्बर 2004
आईसी-30852 ए एम रॉय, आर्टी, 16 दिसम्बर 2004
आईसी-38569 आर पी चौधरी, इन्फैन्ट्री, 22 दिसम्बर 2005

आईसी-38637 ए के गुप्ता, ए ई सी, 22 दिसम्बर 2005

आईसी-38362 अवतार सिंह, इन्फैन्ट्री, 22 दिसम्बर 2005

आईसी-38584 सुशील चन्द्रा, इन्फैन्ट्री, 22 दिसम्बर 2005

आईसी-38452 एच के खंडेलवाल, सिग्नल्स, 22 दिसम्बर 2005

आईसी-37196 ए डी पलान्दे, इन्फैन्ट्री, 16 दिसम्बर 2004

आईसी-35959 बी एस अधिकारी, इन्फैन्ट्री, 09 जून 2005

आईसी-34179 डी पी सिंह, ए सी, 16 दिसम्बर 2004

आईसी-38449 मन मोहन बुराधोकी, ए ओ सी, 22 दिसम्बर 2005

ले. कर्नल से कर्नल (चयन द्वारा) के मूल रैंक में

वैयक्तिक नं., नाम, आर्म व मूल रैंक की तिथि

आईसी-34558 वी एस बख्तावर, ए ओ सी, 01 दिसम्बर 2002

आईसी-37348 एस एस सांगवान, इन्फैन्ट्री, 01 फरवरी 2005

आईसी-37715 आर के चड्ढा, आर्टी, 01 फरवरी 2005

आईसी-38661 एस पी एस पुरी, ए ओ सी, 01 फरवरी 2005

आईसी-39145 डी वी एस पंचाल, इन्फैन्ट्री, 01 फरवरी 2005

अजय गोयल
उप निदेशक
एम एस-8ए

सं. 213, दिनांक 28 मार्च 2006--राष्ट्रपति, रक्षा मंत्रालय में अनुभाग अधिकारी श्री ओ. पी. वधवा की अधिवर्षिता की आयु पूरी होने पर उन्हें 28 फरवरी, 2006 (अपराह्न) से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त करते हैं।

जी. विजयराघवन
अवर सचिव

सेना शाखा

सं. 214, दिनांक 31 मार्च 2006--राष्ट्रपति, निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नाम के आगे दी गई तारीख से उनके द्वारा सेवानिवृत्ति की साधारण आयु प्राप्त कर लेने से पूर्व उनके अनुरोध पर व्यक्तिगत कारणों से सेना सेवा से निवृत्त होने की अनुमति प्रदान करते हैं :--

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

आईसी-25451 कर्नल बाजवा हरचरण सिंह, इन्फैन्ट्री, 20 अप्रैल 2001 (अपराह्न)

आईसी-34891 लै. कर्नल विजय बहादुर सिंह, एस एम, इन्फैन्ट्री, 20 नवम्बर 2001 (अपराह्न)

आईसी-40242 लै. कर्नल पंकज पुनीत सिंह, इन्फैन्ट्री, 03 जनवरी 2005 (अपराह)

आईसी-34799 कर्नल अरविन्द कुमार मेडहोक, इन्फैन्ट्री, 04 अप्रैल 2005 (अपराह)

आईसी-40348 लै. कर्नल पंकज अवस्थी, एस एम, इन्फैन्ट्री, 12 जुलाई 2005 (पूर्वाह)

आईसी-36770 कर्नल (टी एस) पुनधीर हरीश कुमार, इन्फैन्ट्री, 18 जुलाई 2005 (अपराह)

आईसी-34563 लै. कर्नल दास अश्वनी कुमार, इन्फैन्ट्री, 30 जून 2005 (अपराह)

आईसी-39108 लै. कर्नल पी एस जेम्स, इन्फैन्ट्री, 13 अप्रैल 2005 (पूर्वाह)

आईसी-34247 कर्नल नवीन कुमार दत्ता, इन्फैन्ट्री, 01 जून 2005 (पूर्वाह)

आईसी-38672 लै. कर्नल डेविड देवाश्याम, इन्फैन्ट्री, 31 मई 2005 (अपराह)

आईसी-39681 लै. कर्नल के. ए. मोहन, वीरचक्र, एसएम इन्फैन्ट्री, 15 अप्रैल 2005 (अपराह)

आईसी-41991 लै. कर्नल सुनील कुमार, एससी इन्फैन्ट्री, 28 जून 2005 (अपराह)

आईसी-38665 लै. कर्नल इन्द्रजीत सिंह सुहाग, इन्फैन्ट्री, 30 जून 2005 (अपराह)

आईसी-33907 कर्नल आर वी केनजेलकर, इंजीनियर, 28 फरवरी 2005 (अपराह)

आईसी-41873 मेजर सुरेन्द्र केशव कुलकर्णी, सिग्नल्स, 15 अगस्त 2004 (अपराह)

आईसी-39187 लै. कर्नल शरत कुमार कलप्पा, सिग्नल, 23 मार्च 2005 (अपराह)

आईसी-31954 कर्नल कृष्णा मूर्ति गुरुसामी, सिग्नल, 15 जून 2005 (अपराह)

आईसी-37909 लै. कर्नल नारायण अय्यर, एओसी, 07 जून 2005 (अपराह)

आईसी-39844 लै. कर्नल रघु नन्दन सत्यनारायण प्रसाद, ईएमई, 02 अप्रैल 2003 (अपराह)

आईसी-39829 कर्नल प्रकाश झा, ईएमई, 20 अप्रैल 2005 (अपराह)

आईसी-36526 कर्नल डिल्लन प्रीतपाल सिंह, एसी, 28 अप्रैल 2005 (अपराह)

आईसी-34768 कर्नल हरेन्द्र पाल सिंह, एसी, 06 मई 2005 (अपराह)

आईसी-33718 कर्नल फिलिप जोसेफ, एसी, 14 मार्च 2005 (अपराह)

आईसी-39231 लै. कर्नल ए बाला सुन्दर राजन, आर्टी, 30 नवम्बर 2003 (अपराह)

आईसी-40113 मेजर अतुल सक्सेना, एडी आर्टी, 10 जुलाई 2004 (अपराह)

आईसी-36216 कर्नल महेन्द्र सहगल, एडी आर्टी, 19 फरवरी 2005 (अपराह)

आर. के. शर्मा
संयुक्त निदेशक
एमएस/पीआर

कार्यालय महानिदेशक सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा/डीजी-3डी

सं. 215, दिनांक 03 अप्रैल 2006.--रक्षा मंत्रालय के अधीन परिवार कल्याण संगठन की डॉ. (श्रीमती) एस कृष्णामूर्ति वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी (परिवार कल्याण) ग्रुप ए राजपत्रित निवर्तन आयु होने पर दिनांक 30 जून 2004 (अपराह) से सेवा निवृत्त हुई तथा 01 जुलाई 2004 (पूर्वाह) से पेंशन स्थापना में स्थानांतरित की गई।

रक्षा मंत्रालय के अधीन परिवार कल्याण संगठन की डॉ. (श्रीमती) पी. शेलेन्द्रा वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी (परिवार कल्याण) ग्रुप ए राजपत्रित निवर्तन आयु होने पर दिनांक 30 सितम्बर 2005 (अपराह) से सेवा निवृत्त हुई तथा 01 अक्टूबर 2005 (पूर्वाह) से पेंशन स्थापना में स्थानांतरित की गई।

अमर नाथ सिन्हा
उप निदेशक

MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 22nd April 2006

No. 204, dated 28th March 2006.—The President is pleased to appoint Shri Ram Subhag Singh, IAS (HP : 87), as Private Secretary to Raksha Utpadan Rajya Mantri (Rao Inderjit Singh) at the level of Director in the scale of pay of Rs. 15,100-400-18,300/- w.e.f. 1.2.2006 (FN) and upto 19.10.2006 or till he ceases to function as Private Secretary to RURM or until further orders, whichever event occurs the earliest.

The President is pleased to appoint Smt. T. Rajeswari ISS (85), Deputy Secretary, Ministry of Defence as Director in the same Ministry w.e.f. 24.02.2006 (FN) upto 30.04.2007 or until further orders whichever is earlier.

V. SARASWATHY
Dy. Secy.

No. 205, dated 28th March 2006.—The President is pleased to appoint Shri B. L. Dass, CSS, Under Secretary, Ministry of Defence to the Selection Grade (Deputy Secretary) of CSS, in the same Ministry, purely on ad-hoc basis w.e.f. 08.02.2006 (FN) until further orders in terms of DOP&T Order No. 4/13/2005-CS.I dated the 31st January, 2006.

2. The appointment of the above officer as Deputy Secretary (ad-hoc) in the Ministry of Defence, is subject to following conditions :—

- (i) The ad-hoc promotion shall not confer any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Selection Grade (Deputy Secretary) of CSS.
- (ii) Ad-hoc appointment may be terminated at any point of time without giving any reason therefor.

The President is pleased to appoint Shri Ramesh Kumar, Assistant borne on the CSS cadre of Ministry of Defence as Section Officer on ad-hoc basis in the same Ministry in the scale of Rs. 65,00-200-10,500/- w.e.f. 17.02.2006 (FN) for a period upto 26.06.2006 or untill further order, whichever is earlier, subject to the following conditions :—

- (i) The ad-hoc promotion shall not confer any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Section Officers' and
- (ii) Shri Ramesh Kumar will be reverted to the Assistants' Grade on availability of regular Section Officers/nomination of ad-hoc Section Officers by DOP&T from SCSL of Assistant.

G. VIJAYARAGHAVAN
Under Secy.

AIR HEADQUARTERS

No. 206, dated 29th March 2006.—The President is pleased to extend the appointment of the following Personal Assistants of AFHQ Stenographer's Service as Private Secretary (Group 'B' Gazetted) on temporary basis in the pay scale of Rs. 6,500-10,500/-, w.e.f. 01 Jul 2005 to 31 Dec 2005 or till persons from Select List become available or till the individual retires, whichever is earlier :—

Sl. No. & Name

- Shri/Smt.
- (a) AK Chhibar
 - (b) DL Bhatia
 - (c) AK Sharma
 - (d) Ravinder Kumar
 - (e) GS Sridhar
 - (f) GC Pande

2. The promotion shall be subjected to the following conditions :—

- (a) Their appointment is purely on temporary basis and shall be terminated on administrative ground without issuing any prior notice to the effect.
- (b) The officers shall have no claim for regular promotion/appointment on the basis of this promotion granted now nor will their period of such appointment count toward seniority in the grade of PS.

SHANKAR SINGH
Dy. Chief Administrative Officer

(ARMY BRANCH)

No. 207, dated 28th March 2006.—The President is pleased to make the following promotions :—

REGULAR ARMY
ARMY EDUCATIONAL CORPS

To be Naib Subedar

Hav Surendra Ram Ganju (No. 9509549L now JC-803742M), 11 Jul 2005*

Hav Sawai Singh Tanwar (No. 9509737M now JC-803746H), 21 Jun 2005*

Hav Brij Lal Thakur (No. 9509833F now JC-803755K), 18 Jun 2005*

Hav Chandra Vir Singh (No. 9509836P now JC-803756M), 06 Jul 2005*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 04 Jun 2005 without effect on pay and allowances)

Hav Kaizar Kamal Salauddin Azad (No. 9509697W now JC-803760P), 11 Jul 2005@

@(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 10 Jun 2005 without effect on pay and allowances)

Hav Ami Lal (No. 9509841A now JC-803761X), 07 Jul 2005#

Hav Sunil Kumar Thakur (No. 9509843L now JC-803763H), 13 Jul 2005#

Hav Balvinder Singh (No. 9509844H now JC-803764L), 14 Jul 2005#

Hav Ranvir Singh (No. 9509846Y now JC-803766W), 07 Jul 2005#

Hav Sohan Ram Legga (No. 9509847F now JC-803767Y), 06 Jul 2005#

Hav Virender Kumar (No. 9509848K now JC-803768F), 16 Jul 2005#

Hav Gajpal Singh (No. 9509849M now JC-803769K), 11 Jul 2005#

\$(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jul 2005 without effect on pay and allowances)

Hav Madan Singh (No. 9509850F now JC-803770Y), 01 Aug 2005

Hav Surendra Jha (No. 9509852M now JC-803771F), 01 Aug 2005

Hav Satvinder Singh (No. 9509855A now JC-803772K), 17 Aug 2005\$

Hav Yogendra Prasad (No. 9509856H now JC-803773M), 01 Aug 2005

Hav Kamlesh Kumar Singh (No. 9509860L now JC-803775X), 01 Aug 2005

\$(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug 2005 without effect on pay and allowances)

Hav Braj Mohan Sachan (No. 9509869A now JC-803778L), 01 Sep 2005

Hav Anil Borah (No. 9509871X now JC-803779N), 01 Sep 2005

Hav Dinesh Kumar Sharma (No. 9509874L now JC-803782N), 01 Sep 2005

V. K. KAPOOR
Under Secy

No. 208, dated 28th March 2006.—The President is pleased to make the following promotions :—

REGULAR ARMY
(INFANTRY)
THE MAHAR REGIMENT

To be Subedar

Nb Sub Bapu Dhondiba Salve (JC-569208W), 05 Dec 2004@

@(Granted seniority without effect on pay and allowances wef 01 Oct 2004)

Nb Sub Sarwanand Yadav (JC-569316A), 13 Jan 2005@@

@@(Granted seniority without effect on pay and allowances wef 01 Nov 2004)

Nb Sub Baljit Singh (JC-569171A), 27 Nov 2004

Nb Sub Rajendra Singh (JC-568980N), 22 Dec 2004@@@

@@@ (Granted seniority without effect on pay and allowances wef 01 Dec 2004)

Nb Sub Vaijanath Sudama Bansod (JC-569189W), 01 Dec 2004

Nb Sub Balvinder Singh (JC-569260Y), 01 Dec 2004

Nb Sub Rup Singh (JC-569067M), 09 Dec 2004#

\$(Granted seniority without effect on pay and allowances wef 02 Dec 2004)

Nb Sub Vijendra Chaubey (JC-569034F), 19 Dec 2004

Nb Sub Balram (JC-569015W), 11 Feb 2005\$\$

\$\$ (Granted seniority without effect on pay and allowances wef 19 Dec 2004)

Nb Sub Sanjay Kumar Sharma (JC-569016Y), 28 Jul 2005###

(Granted seniority without effect on pay and allowances wef 20 Dec 2004)

Nb Sub Navab Khan (JC-569017F), 20 Dec 2004

Nb Sub Gurbir Singh (JC-569070M), 01 Jan 2005

Nb Sub Bishan Ram (JC-569095Y), 01 Jan 2005

Nb Sub Achal Singh (JC-569279X), 01 Jan 2005

Nb Sub Gaikwad Gangadhar Jayappa (JC-569276K), 23 Apr 2005\$\$

\$\$ (Granted seniority without effect on pay and allowances wef 01 Jan 2005)

Nb Sub Gayakwad Mahadeo Hanumant (JC-569150K), 06 Jan 2005\$\$\$

\$\$\$ (Granted seniority without effect on pay and allowances wef 01 Jan 2005)

Nb Sub Bhaskar Motiram Shirbhate (JC-569152P), 01 Jan 2005

Nb Sub Shyam Singh (JC-569162Y), 01 Jan 2005

Nb Sub Aan Singh (JC-569215M), 01 Jan 2005

Nb Sub Mahitab Singh (JC-569216P), 03 Jan 2005%

%(Granted seniority without effect on pay and allowances wef 01 Jan 2005)

Nb Sub Narayan Singh (JC-569286N), 01 Jan 2005

Nb Sub Badri Giri (JC-569200K), 01 Jan 2005

Nb Sub Bharsakale Kailash Sitaram (JC-569204A),
09 Jan 2005%%

%%(Granted seniority without effect on pay and
allowances wef 01 Jan 2005)

Nb Sub Dharamvir (JC-569205H), 03 Jan 2005%%%

%%%(Granted seniority without effect on pay and
allowances wef 01 Jan 2005)

Nb Sub Vinayak Uttam Ingle (JC-569246M), 01 Jan
2005

Nb Sub Aughade Shankar Bhagwan (JC-569219H),
01 Jan 2005

Nb Sub Hari Singh (JC-569319W), 15 Jan 2005&

&(Granted seniority without effect on pay and allowances
wef 01 Jan 2005)

Nb Sub Satya Prakash (JC-569047Y), 09 Apr 2005&&

&&(Granted seniority without effect on pay and
allowances wef 08 Jan 2005)

Nb Sub Satyaveer Singh (JC-569068P), 15 Apr
2005&&&

&&&(Granted seniority without effect on pay and
allowances wef 08 Jan 2005)

Nb Sub Sarje Gopal Basappa (JC-569157N), 21 Jan
2005

Nb Sub Kotwal Singh (JC-568968P), 01 Feb 2005

Nb Sub Umrao Singh (JC-569079F), 09 Feb 2005*

*(Granted seniority without effect on pay and allowances
wef 01 Feb 2005)

Nb Sub Tikku Ram (JC-569201M), 17 Feb 2005**

**(Granted seniority without effect on pay and
allowances wef 01 Feb 2005)

Nb Sub Shaligram Ragho Jadhao (JC-569222H), 01 Feb
2005

Nb Sub Ganesh Singh Mehta (JC-569306W), 14 Mar
2005***

*** (Granted seniority without effect on pay and
allowances wef 01 Feb 2005)

Nb Sub Onkar Chand (JC-569252A), 09 Mar 2005@

@(Granted seniority without effect on pay and allowances
wef 01 Feb 2005)

Nb Sub Jitendra Singh (JC-569253H), 09 Mar 2005@@

@@(Granted seniority without effect on pay and
allowances wef 01 Feb 2005)

Nb Sub Rajender Prasad (JC-569254L), 09 Mar
2005@@@

@@@ (Granted seniority without effect on pay and
allowances wef 01 Feb 2005)

Nb Sub Chanchal Singh (JC-569329X), 01 Feb 2005

Nb Sub Baljit Singh (JC-569069X), 01 Mar 2005

To be Naib Subedar

Hav Jagbir Singh (4553667K now JC-569668X), 29 Oct
2005@

@(Granted seniority without effect on pay and allowances
wef 04 Sep 2004)

Hav Ranjit Singh (2983746P now JC-569669A), 21 Sep
2005@@

@@(Granted seniority without effect on pay and
allowances wef 08 Aug 2005)

Hav Kamble Bhimappa Shetyapa (4560658L now JC-
569670P), 01 Oct 2005@@@

@@@ (Granted seniority without effect on pay and
allowances wef 01 Sep 2005)

Hav Lok Raj (4555718A now JC-569671X), 29 Oct
2005#

#(Granted seniority without effect on pay and allowances
wef 29 Sep 2005)

Hav Gopal Singh (4554592K now JC-569672A), 14 Nov
2005##

##(Granted seniority without effect on pay and
allowances wef 01 Nov 2005)

Hav Dharam Chand (4554624F now JC-569673H),
14 Nov 2005###

(Granted seniority without effect on pay and
allowances wef 01 Nov 2005)

THE MARATHA LI

To be Sub Maj

Sub Tambe Narayan Tukaram (JC-226182A), 19 Sep
2005*

*(Granted seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Jun
2005 without effect on pay and allowances)

Sub Ghorpade Vishnu Bhagwan (JC-205524P), 01 Sep
2005

Sub Fakeerappa Managutti (JC-212889Y), 14 Sep 2005*

*(Granted seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Sep
2005 without effect on pay and allowances)

Sub Shewale Himmatrao Ratan (JC-204018X), 01 Oct
2005

Sub Patreppa Yallappa Addvi (JC-222655W), 03 Oct
2005*

*(Granted seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Oct
2005 without effect on pay and allowances)

To be Sub

Nb Sub Patil Dinkar Ramachandra (JC-459034Y), 01 Oct 2005*

*(Granted seniority in the rank of Sub wef 13 Nov 2004 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Narayan Mahadeo Patil (JC-459184P), 29 Jul 2005*

*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Dec 2004 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Patil Prakash Pandurang (JC-459191L), 19 Aug 2005*

*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Dec 2004 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Dilip Vishnu Palande (JC-458874M), 27 Sep 2005*

*(Granted seniority in the rank of Sub wef 10 Apr 2005 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Walave Bharat Ramrao (JC-459079Y), 12 Jul 2005*

*(Granted seniority in the rank of Sub wef 25 Apr 2005 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Kamthe Popat Gulab (JC-458941M), 01 Oct 2005*

*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 May 2005 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Desale Himmatrao Vishnu (JC-459252X), 01 Oct 2005*

*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 May 2005 without effect on pay and allowances)

Nb Sub S Krishnaiah Goud (JC-458978N), 17 Jun 2005*

*(Granted seniority in the rank of Sub wef 28 May 2005 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Deore Baliram Chindh (JC-459013H), 08 Aug 2005*

*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Jun 2005 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Adav Govind Sataba (JC-458989A), 08 Aug 2005*

*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Jun 2005 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Jadhav Suryakant Ekanathrao (JC-459176W), 10 Aug 2005*

*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Jun 2005 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Parle Chandrakant Bandu (JC-459007P), 16 Aug 2005*

*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Jul 2005 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Margale Pandurang Vithu (JC-459031L), 16 Aug 2005*

*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Jul 2005 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Patil Jotiba Appaji (JC-459178F), 08 Nov 2005*

*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Jul 2005 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Abdul Wahab (JC-458534K), 01 Sep 2005*

*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Aug 2005 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Shewaikar Govind Kishanarao (JC-458982W), 23 Oct 2005*

*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Sep 2005 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Chachar Pandurang Vasant (JC-459015N), 01 Sep 2005

Nb Sub Lokhande Suresh Gangaram (JC-459029N), 16 Oct 2005*

*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Sep 2005 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Sivan Pillai R (JC-459030H), 21 Oct 2005*

*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Sep 2005 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Rama Sidram Patil (JC-459014L), 01 Sep 2005

Nb Sub Nikam Chandrakant Gulab (JC-458891M), 01 Oct 2005

Nb Sub Raghunath Shripati Patil (JC-459211N), 01 Nov 2005

To be Sub Clk

Nb Sub Clk Ranbir Singh (JC-458907M), 01 Sep 2005

Nb Sub Clk Ravi Karan Singh (JC-458924M), 01 Sep 2005

To be Nb Sub

Hav Krishnanand Narasinha Bandekar (No. 2778773L now JC-459586M), 10 Oct 2005*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Oct 2004 without effect on pay and allowances)

Hav Salunkhe Yashwant Anandrao (No. 2778446A now JC-459587P), 26 Jun 2005*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Jun 2005 without effect on pay and allowances)

Hav Patil Ganpati Rangrao (No. 2781160W now JC-459588X), 30 Sep 2005*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Jun 2005 without effect on pay and allowances)

Hav Adik Ramu Sawieram (No. 2782587M now JC-459589A), 03 Dec 2005*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 18 Jul 2005 without effect on pay and allowances)

Hav Patil Ramesh Dattu (No. 2782055M now JC-459590P), 20 Dec 2005*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Aug 2005 without effect on pay and allowances)

Hav Mohd Ayub Ali (No. 2782150Y now JC-459591X), 09 Dec 2005*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Aug 2005 without effect on pay and allowances)

Hav Dagade Rajaram Raghuram (No. 2782802M now JC-459592A), 20 Dec 2005*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Aug 2005 without effect on pay and allowances)

Hav Keshav Patil (No. 2783584L now JC-459593H), 09 Dec 2005*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Aug 2005 without effect on pay and allowances)

Hav Kumar Zende Dattatray Nhanu (No. 2779480M now JC-459594L), 25 Oct 2005*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Oct 2005 without effect on pay and allowances)

Hav Swami (No. 2783667W now JC-459595N), 20 Dec 2005*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Oct 2005 without effect on pay and allowances)

Hav Divekar Dilip Sakham (No. 2786054F now JC-459596W), 10 Dec 2005*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Oct 2005 without effect on pay and allowances)

Hav Kumar Sholar Vijaykumar Girajappa (No. 2783967K now JC-459597Y), 29 Oct 2005*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Oct 2005 without effect on pay and allowances)

Hav Khot Pandurang Krishna (No. 2783867M now JC-459598F), 06 Dec 2005*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Nov 2005 without effect on pay and allowances)

Hav Ambre Vilas Balkrishna (No. 2786188A now JC-459599K), 23 Dec 2005*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Nov 2005 without effect on pay and allowances)

Hav Kadam Nandkishor Hanmant (No. 2785597F now JC-459600N), 10 Dec 2005*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Dec 2005 without effect on pay and allowances)

THE DOGRA REGIMENT

To be Sub Maj

Sub Fateh Singh, SM (JC-518476X), 23 Apr 2005+

+(Granted seniority in the rank of Sub Maj with effect from 01 Mar 2005 without effect on pay and allowances)

Sub Ram Lal (JC-518335H), 30 Apr 2005+

+(Granted seniority in the rank of Sub Maj with effect from 01 Mar 2005 without effect on pay and allowances)

Sub Baldev Raj Prashar (JC-518358K), 01 May 2005

Sub Bakhshish Singh (JC-518813F), 26 Dec 2005+

+(Granted seniority in the rank of Sub Maj with effect from 01 Jun 2005 without effect on pay and allowances)

Sub Sunder Singh Thakur (JC-518901X), 01 Oct 2005

Sub Bishambher Singh (JC-518605M), 25 Oct 2005+

+(Granted seniority in the rank of Sub Maj with effect from 01 Oct 2005 without effect on pay and allowances)

Sub Ram Dutt Sharma (JC-518873W), 01 Dec 2005

To be Sub

Nb Sub Desh Raj Chambial (JC-519809L), 01 Apr 2005

Nb Sub Shamsher Singh Thakur (JC-519485L), 12 Apr 2005

Nb Sub Rameshwar Kumar (JC-519679N), 13 Apr 2005

Nb Sub Bhagwan Dass (JC-519766L), 08 Nov 2005+

+(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 27 Apr 2005 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Rangil Singh (JC-519842H), 01 May 2005

Nb Sub Palden Giachho, SC (JC-519631A), 01 Jun 2005

Nb Sub Dilbag Singh (JC-519783F), 29 Oct 2005+

+(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 28 Jun 2005 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Chhering Norbu Bodh, SC (JC-519632H), 01 Jul 2005

Nb Sub Hari Lal (JC-519721F), 01 Jul 2005

Nb Sub Rattan Lal (JC-519807A), 01 Jul 2005

Nb Sub Khazan Chand (JC-519840X), 01 Jul 2005

Nb Sub Ramesh Chand (JC-519701N), 29 Nov 2005+

+(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 Aug 2005 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Hans Raj (JC-519808H), 01 Sep 2005

Nb Sub Prem Nath (JC-519865K), 01 Sep 2005

Nb Sub Nanak Chand Lagwal (JC-519546X), 07 Dec 2005+

+(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 Oct 2005 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Dharam Chand (JC-519732N), 01 Nov 2005

Nb Sub Prem Singh (JC-519733W), 01 Dec 2005

To be Sub Clk

Nb Sub/Clk Ranjeet Singh (JC-519352P), 01 Oct 2005

Nb Sub/Clk Mohan Lal Sharma (JC-519389W), 01 Nov 2005

Nb Sub/Clk Mohinder Singh Samkaria (JC-519390L), 01 Nov 2005

To be Nb Sub

Hav Rattan Lal Bansal (3986489K now JC-520240F), 01 Aug 2005

Hav Ravinder Kumar (3987039Y now JC-520241K), 08 Aug 2005

Hav Anil Kumar (3983388L now JC-520242M), 01 Sep 2005

Hav Krishan Paul Bhatia (3983392N now JC-520243P), 01 Sep 2005

Hav Parkash Chand Sharma (3983320K now JC-520244X), 01 Oct 2005

Hav Sandesh Kumar (3984407X now JC-520245A), 01 Oct 2005

Hav Ashok Kumar (3983139M now JC-520246H), 14 Dec 2005+

+(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 04 Oct 2005 without effect on pay and allowances)

Hav Man Singh (3983578X now JC-520247L), 10 Oct 2005

Hav Yash Paul (3983588F now JC-520248N), 30 Oct 2005

Hav Jagdev Kumar (3983399X now JC-520249W), 23 Nov 2005

Hav Ramesh Lal (3983401K now JC-520250L), 01 Dec 2005

To be Nb Sub/Clk

Hav/Clk Ran Singh (3981299N now JC-520251N), 01 Dec 2005

Hav/Clk C Maria Vilmut (3985676W now JC-520252W), 01 Dec 2005

Hav/Clk Babu Ram Sharma (3984172W now JC-520253Y), 01 Dec 2005

THE PUNJAB REGIMENT

To be Sub Maj

Sub Kirpal Singh (JC-428614M), 01 Dec 2005

To be Sub

Nb Sub Des Raj (JC-429330P), 01 Jul 2004

Nb Sub Sawarn Singh (JC-429472M), 01 May 2005

Nb Sub Vijay Kumar (JC-429380A), 01 Jun 2005

Nb Sub Raja Singh (JC-429518K), 01 Jun 2005

Nb Sub Rajinder Singh (JC-429385Y), 01 Aug 2005

Nb Sub Nand Kishore Verma (JC-429413A), 01 Sep 2005

Nb Sub Balwant Singh (JC-429394A), 15 Sep 2005

Nb Sub Chambel Singh Thakur (JC-429241W), 01 Oct 2005

Nb Sub Rattan Chand (JC-429512H), 01 Oct 2005

Nb Sub Sukhdev Sahotra (JC-429507X), 01 Oct 2005

Nb Sub Lal Singh (JC-429292F), 06 Nov 2005

Nb Sub Kulbir Singh (JC-429132K), 01 Dec 2005

Nb Sub Joginder Singh (JC-429250X), 01 Dec 2005

Nb Sub Malkit Singh (JC-429290Y), 01 Dec 2005

Nb Sub Om Parkash (JC-429476H), 01 Dec 2005

To be Sub Maj

Sub Yash Paul (JC-428214A), 01 May 2005

Sub Rajinder Pal (JC-428236Y), 01 Jun 2005

Sub Balkar Singh (JC-428396Y), 01 Sep 2005

Sub Gurbachan Singh (JC-428456H), 01 Oct 2005

To be Sub

Nb Sub Harinder Singh (JC-429395H), 28 Nov 2004

Nb Sub Kehar Singh (JC-429401L), 28 Nov 2004

Nb Sub Ranjit Singh (JC-429421Y), 28 Nov 2004

Nb Sub Bahadur Singh (JC-429429L), 09 Apr 2005

Nb Sub Gurdev Singh (JC-429228M), 21 Jun 2005

Nb Sub Hans Raj (JC-429441M), 01 Jul 2005

Nb Sub Karan Singh (JC-429463L), 01 Jul 2005

Nb Sub Baldev Singh (JC-429537P), 10 Jul 2005

Nb Sub Balwinder Singh (JC-429538X), 22 Aug 2005

Nb Sub Puran Singh Goraya (JC-429118X), 01 Sep 2005

Nb Sub Surjit Singh (JC-429206N), 01 Sep 2005

Nb Sub Prem Pal (JC-429475A), 01 Sep 2005

Nb Sub Surjeet Singh (JC-429482W), 01 Sep 2005

Nb Sub Tarlochan Singh (JC-429485K), 01 Sep 2005

Nb Sub Nirpal Singh (JC-429236L), 01 Oct 2005

Nb Sub Hari Lal (JC-429257F), 01 Oct 2005

Nb Sub Karnail Singh (JC-429511A), 01 Oct 2005

Nb Sub Satnam Singh (JC-429239Y), 01 Oct 2005

Nb Sub Jagdish Singh (JC-429491X), 01 Oct 2005
 Nb Sub Amar Singh Kondal (JC-429283H), 12 Oct 2005
 Nb Sub Parminder Singh (JC-429462H), 01 Nov 2005
 Nb Sub Gurdev Singh (JC-429495N), 01 Nov 2005

THE MADRAS REGIMENT

To be Sub (Clk)

Nb Sub (Clk) R Ambigai Muruganandam (JC-438963K),
 05 Oct 2005*

*(Granted seniority in the rank of Sub (Clk) with effect
 from 01 Oct 2005 without effect on pay and allowances)

Nb Sub (Clk) Oommen PO (JC-438964M), 01 Oct 2005

Nb Sub (Clk) Surendran Valiya Parambil (JC-438965P),
 01 Nov 2005

Nb Sub (Clk) Ganesan S (JC-438966X), 01 Nov 2005

Nb Sub (Clk) Umed Singh Mahar (JC-438967A), 01 Nov
 2005

THE PUNJAB REGIMENT

To be Nb Sub

Hav Avtar Singh (2478545K now JC-429809K), 10 Jun
 2005

(Granted ante dated seniority wef 01 Dec 2004 without
 effect on pay and allowances)

Hav Jasvir Singh (2478562K now JC-429810Y), 10 Jun
 2005

(Granted ante dated seniority wef 01 Dec 2004 without
 effect on pay and allowances)

Hav Gursharn Singh (2474497X now JC-429811F), 17 Jun
 2005

(Granted ante dated seniority wef 01 Jan 2005 without
 effect on pay and allowances)

Hav Satnam Singh (2478568L now JC-429812K), 10 Jun
 2005

(Granted ante dated seniority wef 01 Jan 2005 without
 effect on pay and allowances)

Hav Jagmal Singh (2475911X now JC-429813M), 17 Jun
 2005

(Granted ante dated seniority wef 13 Jan 2005 without
 effect on pay and allowances)

Hav Mahendra Singh (2474306X now JC-429814P), 17 Jun
 2005

(Granted ante dated seniority wef 01 Feb 2005 without
 effect on pay and allowances)

Hav Ram Awadh Ram (2474386A now JC-429815X),
 17 Jun 2005

(Granted ante dated seniority wef 01 Feb 2005 without
 effect on pay and allowances)

Hav Parbodh Singh (2474973L now JC-429862P), 17 Sep
 2005

(Granted ante dated seniority wef 01 Feb 2005 without
 effect on pay and allowances)

Hav Bodh Raj (2476010X now JC-429825X), 13 Jun
 2005

(Granted ante dated seniority wef 01 Feb 2005 without
 effect on pay and allowances)

Hav Sucha Singh (2476770A now JC-429845P), 05 Aug
 2005

(Granted ante dated seniority wef 03 Feb 2005 without
 effect on pay and allowances)

Hav Chander Shekher Sahotra (2478386X now JC-
 429816A), 17 Jun 2005

(Granted ante dated seniority wef 08 Feb 2005 without
 effect on pay and allowances)

Hav Karam Singh (2476747M now JC-429817H), 22 Jun
 2005

(Granted ante dated seniority wef 19 Mar 2005 without
 effect on pay and allowances)

Hav Shingara Singh (2476170X now JC-429818L), 01 Jun
 2005

(Granted ante dated seniority wef 20 Mar 2005 without
 effect on pay and allowances)

Hav Sukhraj Singh (2478109M now JC-429846X),
 30 Apr 2005

(Granted ante dated seniority wef 28 Mar 2005 without
 effect on pay and allowances)

Hav Brij Lal (2476567K now JC-429847A), 21 Jul 2005

(Granted ante dated seniority wef 28 Mar 2005 without
 effect on pay and allowances)

Hav Onkar Chand (2476714F now JC-429807Y), 07 May
 2005

(Granted ante dated seniority wef 01 Apr 2005 without
 effect on pay and allowances)

Hav Ram Dass (2474120N now JC-429830M), 11 Jul
 2005

(Granted ante dated seniority wef 09 Apr 2005 without
 effect on pay and allowances)

Hav Gulchain Singh (2475189K now JC-429848H), 22 Aug
 2005

(Granted ante dated seniority wef 13 Apr 2005 without
 effect on pay and allowances)

Hav Tilak Raj (2474290X now JC-429831P), 19 Jul
 2005

(Granted ante dated seniority wef 17 Apr 2005 without
 effect on pay and allowances)

Hav Jagdish Singh (2477560M now JC-429824Y), 14 Jun 2005

(Granted ante dated seniority wef 29 Apr 2005 without effect on pay and allowances)

Hav Lakhwinder Singh (2476216P now JC-429849L), 09 Aug 2005

(Granted ante dated seniority wef 01 May 2005 without effect on pay and allowances)

Hav Kishan Singh (2476279X now JC-429863X), 15 Sep 2005

(Granted ante dated seniority wef 01 May 2005 without effect on pay and allowances)

Hav Harjinder Singh (2478313L now JC-429850A), 11 May 2005

(Granted ante dated seniority wef 01 May 2005 without effect on pay and allowances)

Hav Nishan Singh (2474533X now JC-429832X), 13 Jul 2005

(Granted ante dated seniority wef 01 May 2005 without effect on pay and allowances)

Hav Hardev (2477129N now JC-429819N), 30 May 2005

(Granted ante dated seniority wef 01 May 2005 without effect on pay and allowances)

Hav Sat Paul (2474678H now JC-429820H), 09 May 2005

(Granted ante dated seniority wef 01 May 2005 without effect on pay and allowances)

Hav Sudershan Singh (2474216W now JC-429851H), 11 May 2005

(Granted ante dated seniority wef 01 May 2005 without effect on pay and allowances)

Hav Suresh Chand (2473019F now JC-429833A), 13 Jul 2005

(Granted ante dated seniority wef 12 May 2005 without effect on pay and allowances)

Hav Rajinder Singh (2476681F now JC-429834H), 13 Jul 2005

(Granted ante dated seniority wef 12 May 2005 without effect on pay and allowances)

Hav Sham Singh (2474930W now JC-429821L), 27 Jun 2005

(Granted ante dated seniority wef 23 May 2005 without effect on pay and allowances)

Hav Amarjit Singh (2477566N now JC-429852L), 03 Aug 2005

(Granted ante dated seniority wef 01 Jun 2005 without effect on pay and allowances)

Hav Sukhpal Singh (2478172F now JC-429822N), 15 Jun 2005

(Granted ante dated seniority wef 01 Jun 2005 without effect on pay and allowances)

Hav Gulzar Singh (2477553W now JC-429864A), 19 Sep 2005

(Granted ante dated seniority wef 01 Jun 2005 without effect on pay and allowances)

Hav Satnam Singh (2478723F now JC-429861M), 20 Sep 2005

(Granted ante dated seniority wef 01 Jun 2005 without effect on pay and allowances)

Hav Raj Pal (2475042N now JC-429835L), 25 Jul 2005

(Granted ante dated seniority wef 01 Jun 2005 without effect on pay and allowances)

Hav Ram Saran (2475120A now JC-429836M), 13 Jul 2005

(Granted ante dated seniority wef 01 Jun 2005 without effect on pay and allowances)

Hav Mahesh Chander (2474191P now JC-429837W), 13 Jul 2005

(Granted ante dated seniority wef 01 Jun 2005 without effect on pay and allowances)

Hav Rattan Chand Thakur (2473674A now JC-429823W), 01 Jun 2005

Hav Parkash Chand (2476621M now JC-429838Y), 16 Jul 2005

(Granted ante dated seniority wef 01 Jun 2005 without effect on pay and allowances)

Hav Sarbjit Singh (2477954L now JC-429853N), 04 Aug 2005

(Granted ante dated seniority wef 02 Jun 2005 without effect on pay and allowances)

Hav Raghubir Singh (2479017M now JC-429839F), 25 Jul 2005

(Granted ante dated seniority wef 07 Jun 2005 without effect on pay and allowances)

Hav Jang Bahadur Singh (2478013K now JC-429865H), 19 Sep 2005

(Granted ante dated seniority wef 09 Jun 2005 without effect on pay and allowances)

Hav Balwinder Singh (2478720N now JC-429854W), 24 Aug 2005

(Granted ante dated seniority wef 12 Jun 2005 without effect on pay and allowances)

Hav Gurdip Singh, SM (2478460N now JC-429855Y),
03 Sep 2005

(Granted ante dated seniority wef 16 Jun 2005 without
effect on pay and allowances)

Hav Lekh Raj (2473761N now JC-429840W), 14 Jul
2005

(Granted ante dated seniority wef 17 Jun 2005 without
effect on pay and allowances)

Hav Atma Singh (2477503L now JC-429856F), 03 Aug
2005

(Granted ante dated seniority wef 21 Jun 2005 without
effect on pay and allowances)

Hav Ashok Kumar (2476515N now JC-429884N), 06
Oct 2005

(Granted ante dated seniority wef 21 Jun 2005 without
effect on pay and allowances)

Hav Jagdev Singh (2478588Y now JC-429866L), 17 Sep
2005

(Granted ante dated seniority wef 30 Jun 2005 without
effect on pay and allowances)

Hav Bhupinder Singh (2478648H now JC-429826K),
12 Jul 2005

(Granted ante dated seniority wef 01 Jul 2005 without
effect on pay and allowances)

Hav Salinder Singh (2478884K now JC-429867N),
18 Sep 2005

(Granted ante dated seniority wef 01 Jul 2005 without
effect on pay and allowances)

Hav Tarlochan Singh (2478598H now JC-429868W),
17 Sep 2005

(Granted ante dated seniority wef 01 Jul 2005 without
effect on pay and allowances)

Hav Rajinder Singh (2479073L now JC-429857K),
29 Jul 2005

(Granted ante dated seniority wef 01 Jul 2005 without
effect on pay and allowances)

Hav Yash Pal (2475046K now JC-429858M), 13 Aug
2005

(Granted ante dated seniority wef 01 Jul 2005 without
effect on pay and allowances)

Hav Jagdish Chand (2475257M now JC-429859P),
24 Aug 2005

(Granted ante dated seniority wef 01 Jul 2005 without
effect on pay and allowances)

Hav Sarwan Singh (2476330M now JC-429885W),
04 Oct 2005

(Granted ante dated seniority wef 10 Jul 2005 without
effect on pay and allowances)

Hav Jagtar Singh (2478781L now JC-429869Y), 15 Sep
2005

(Granted ante dated seniority wef 01 Aug 2005 without
effect on pay and allowances)

Hav Krishan Singh (2478923X now JC-429870N),
15 Sep 2005

(Granted ante dated seniority wef 01 Aug 2005 without
effect on pay and allowances)

Hav Yesh Pal Singh (2475061Y now JC-429860K),
13 Aug 2005

(Granted ante dated seniority wef 01 Aug 2005 without
effect on pay and allowances)

Hav Ran Singh (2475449K now JC-429871W), 12 Sep
2005

(Granted ante dated seniority wef 01 Aug 2005 without
effect on pay and allowances)

Hav Satnam Singh (2478046P now JC-429872Y), 13 Sep
2005

(Granted ante dated seniority wef 16 Aug 2005 without
effect on pay and allowances)

Hav Palwinder Singh (2476364A now JC-429886Y),
05 Oct 2005

(Granted ante dated seniority wef 16 Aug 2005 without
effect on pay and allowances)

Hav Parmodh Singh (2474657M now JC-429829X),
11 Jun 2005

(Granted ante dated seniority wef 24 Aug 2004 without
effect on pay and allowances)

Hav Major Singh (2479021P now JC-429887F), 28 Sep
2005

(Granted ante dated seniority wef 29 Aug 2005 without
effect on pay and allowances)

Hav Surain Singh (2476308F now JC-429873F), 01 Sep
2005

Hav Ravi Kumar (2475318Y now JC-429874K), 01 Sep
2005

Hav Subash Chander (2475114M now JC-429875M),
18 Sep 2005

(Granted ante dated seniority wef 01 Sep 2005 without
effect on pay and allowances)

Hav Subhash Chand (2475262X now JC-429876P),
21 Sep 2005

(Granted ante dated seniority wef 01 Sep 2005 without
effect on pay and allowances)

Hav Subhash Chand (2475085H now JC-429877X),
18 Sep 2005

(Granted ante dated seniority wef 01 Sep 2005 without
effect on pay and allowances)

Hav Ram Singh (2474668Y now JC-429878A), 01 Sep 2005

Hav Jora Singh (2479083P now JC-429879H), 08 Sep 2005

(Granted ante dated seniority wef 01 Sep 2005 without effect on pay and allowances)

Hav Harmesh Kumar (2474671Y now JC-429880X), 19 Sep 2005

(Granted ante dated seniority wef 01 Sep 2005 without effect on pay and allowances)

Hav Bikram Singh Rana (2474215N now JC-429881A), 29 Sep 2005

(Granted ante dated seniority wef 01 Sep 2005 without effect on pay and allowances)

Hav Ganesh Singh (2475051P now JC-429888K), 23 Sep 2005

(Granted ante dated seniority wef 01 Sep 2005 without effect on pay and allowances)

Hav Desh Raj (2474309L now JC-429882H), 29 Sep 2005

(Granted ante dated seniority wef 01 Sep 2005 without effect on pay and allowances)

Hav Ram Bhulla (2475637L now JC-429883L), 13 Sep 2005

(Granted ante dated seniority wef 01 Sep 2005 without effect on pay and allowances)

THE MADRAS REGIMENT

To be Sub

Nb Sub R Balasubramanian (JC-439236Y), 07 Dec 2005*

*(Gtd seniority in the rank of Sub with effect from 01 Aug 2005 without effect on pay and allces)

Nb Sub RP Ganesan (JC-439356X), 01 Aug 2005

Nb Sub KK Devaiah (JC-439129X), 12 Nov 2005*

*(Gtd seniority in the rank of Sub with effect from 01 Nov 2005 without effect on pay and allces)

Nb Sub B Gireesan (JC-439157K), 01 Nov 2005

Nb Sub D Devendiran (JC-439246H), 01 Nov 2005

Nb Sub BM Manu Kumar (JC-439233L), 07 Nov 2005*

*(Gtd seniority in the rank of Sub with effect from 01 Nov 2005 without effect on pay and allces)

Nb Sub T Krishnan (JC-439258X), 01 Nov 2005

Nb Sub Balappa Mennikeri (JC-439143K), 07 Dec 2005*

*(Gtd seniority in the rank of Sub with effect from 20 May 2005 without effect on pay and allces)

Nb Sub Bammidi Kurma Rao (JC-439164A), 10 Dec 2005*

*(Gtd seniority in the rank of Sub with effect from 01 Jun 2005 without effect on pay and allces)

Nb Sub Dayanandan M (JC-439168W), 10 Dec 2005*

*(Gtd seniority in the rank of Sub with effect from 07 Jun 2005 without effect on pay and allces)

Nb Sub Jagadeesan R (JC-439306M), 12 Dec 2005*

*(Gtd seniority in the rank of Sub with effect from 01 Nov 2005 without effect on pay and allces)

Nb Sub Sheshagiri Chougala (JC-439001M), 01 Dec 2005

Nb Sub Bollam Vearayya (JC-439002P), 01 Dec 2005

Nb Sub Gangadharan KP (JC-439003X), 01 Dec 2005

Nb Sub Jagalinki Malleswara Rao (JC-439215H), 01 Dec 2005

To be Nb Sub

Hav Kanniyappan G (2593802H now JC-439666H), 06 Dec 2005*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub with effect from 29 May 2005 without effect on pay and allces)

Hav K Shanavas (2587193N now JC-439672W), 13 Dec 2005*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Aug 2005 without effect on pay and allces)

Hav Rathinavel R (2591192H now JC-439664X), 25 Sep 2005

Hav K Selvaraj (2589120A now JC-439661K), 30 Nov 2005*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Oct 2005 without effect on pay and allces)

Hav Bhabula Gauda (2584213L now JC-439673Y), 05 Nov 2005

Hav John Peter S (2588491W now JC-439669W), 02 Dec 2005*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Dec 2005 without effect on pay and allces)

Hav K Thulasi (2589933W now JC-439670L), 01 Dec 2005

To be Nb Sub (Clk)

Hav (Clk) Brijpal Gangwar (2589178X now JC-439658K), 01 Nov 2005

Hav (Clk) Nirmal Babu P (2589179A now JC-439659M), 01 Nov 2005

Hav (Clk) James John (2589207F now JC-439660F), 01 Nov 2005

Hav (Clk) Sisir Ranjan Biaswal (2595720Y now JC-439674F), 01 Dec 2005

Hav (Clk) M Sahadeba Patro (2595721F now JC-439675K), 01 Dec 2005

JAK LI

To be Substantive Subedar Major (Clk)

Sub Dilawar Singh (JC-592374W), 10 Nov 2005

(Gtd seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Nov 2005)

To be Substantive Subedar Major (GD)

Sub (GD) Suraj Parkash (JC-592364N), 14 Nov 2005

(Gtd seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Nov 2005)

Sub (GD) Ajit Raj Sharma (JC-592455W), 02 Nov 2005

(Gtd seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Nov 2005)

To be Naib Subedar (GD)

Hav Vijay Kumar (9087152H now JC-593395Y), 22 Sep 2005

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub Maj wef 29 Jul 2005)

Hav Tarsem Singh (9087571A now JC-593396F), 22 Sep 2005

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub Maj wef 01 Sep 2005)

Hav Sham Lal (9086888H now JC-593397K), 01 Oct 2005

Hav Puran Singh (9087340K now JC-593398M), 16 Nov 2005

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub Maj wef 22 Sep 2005)

Hav Yogesh Chander (9087688Y now JC-593399P), 05 Nov 2005

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub Maj wef 01 Oct 2005)

THE SIKH LI

To be Subedar (GD)

Nb Sub Bhajan Singh (JC-508892N), 22 Jun 2004

Nb Sub Gajjan Singh (JC-508914F), 22 Jun 2004

Nb Sub Surinder Singh (JC-508928F), 01 Nov 2004

Nb Sub Nirmal Singh (JC-508819P), 01 Dec 2004

Nb Sub Balwinder Singh (JC-508785M), 01 Jan 2005

Nb Sub Gurnam Singh (JC-508939N), 15 Jan 2005

Nb Sub Harvinder Singh (JC-509048X), 01 Feb 2005

Nb Sub Gurmukh Singh (JC-508890H), 07 Feb 2005

Nb Sub Harbans Singh (JC-508909W), 08 Feb 2005

Nb Sub Baldev Singh (JC-508955L), 01 Mar 2005

Nb Sub Sukhdial Singh (JC-508963K), 01 Mar 2005

Nb Sub Yadvinder Singh (JC-508982P), 01 Mar 2005

Nb Sub Manjit Singh (JC-508897M), 01 Mar 2005

Nb Sub Makhani Singh (JC-509017X), 29 Mar 2005

Nb Sub Ram Singh Sindhu (JC-508837X), 01 Apr 2005

Nb Sub Pargat Singh (JC-508839H), 01 Apr 2005

Nb Sub Rachpal Singh (JC-508841A), 01 Apr 2005

Nb Sub Chander Bhan Singh (JC-508885X), 01 Apr 2005

Nb Sub Hakam Singh (JC-508924L), 01 Apr 2005

Nb Sub Bakhshish Singh (JC-508801Y), 03 Apr 2005

Nb Sub Kuljit Singh (JC-508969L), 04 Apr 2005

Nb Sub Paramjit Singh (JC-508979P), 01 May 2005

Nb Sub Jarnail Singh (JC-508787X), 11 May 2005

Nb Sub Dilbag Singh (JC-508872A), 22 May 2005

Nb Sub Maghar Singh (JC-508999H), 01 Jun 2005

Nb Sub Mukh Singh (JC-509018A), 26 Jun 2005

Nb Sub Karamjit Singh (JC-508820K), 01 Aug 2005

To be Sub (Clk) (GD)

Nb Sub (Clk) Shiv Chand (JC-508732N), 01 Sep 2005

Nb Sub (Clk) Surjeet Kumar (JC-508725X), 01 Sep 2005

To be Nb Sub (GD)

Hav Balwinder Singh (No. 4465344Y now JC-509270Y), 30 Aug 2005*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect 29 Nov 2004)

Hav Karnail Das (No. 4465385H now JC-509271F), 30 Aug 2005*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 01 Dec 2004)

Hav Harnam Singh (No. 4463381N now JC-509272K), 14 Apr 2005*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 01 Feb 2005)

Hav Man Singh (No. 4466071N now JC-509273M), 03 Aug 2005*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 04 Feb 2005)

Hav Raghubir Singh (No. 4462245L now JC-509274P), 25 Jul 2005*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 26 Mar 2005)

Hav Jagtar Singh (No. 4469340A now JC-509275X),
24 Jul 2005*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 26 Mar 2005)

Hav Balbir Singh (No. 4465899A now JC-509276A),
27 Jul 2005*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 01 Apr 2005)

Hav Darshan Singh (4469270M now JC-509277H),
05 Aug 2005*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 03 Apr 2005)

Hav Balbir Singh (4469380F now JC-509278L), 25 Jul 2005*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 03 Apr 2005)

Hav Ranjit Singh (No. 4469416P now JC-509279N),
25 Jul 2005*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 10 Apr 2005)

Hav Darshan Singh (No. 4470269K now JC-509280N),
25 Jul 2005*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 24 Apr 2005)

Hav Jaswinder Singh (No. 4460436F now JC-509281L),
24 Aug 2005*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 01 Jun 2005)

Hav Mohinder Singh (No. 4462754K now JC-509282N),
24 Aug 2005*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 01 Jun 2005)

Hav Pirthipal Singh (No. 4464216P now JC-509283W),
24 Aug 2005*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 01 Jun 2005)

Hav Maghar Singh (No. 4465587K now JC-509284Y),
03 Sep 2005*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 30 Jun 2005)

Hav Makhan Singh, SM (No. 4467447W now JC-509285F), 03 Sep 2005*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 30 Jun 2005)

Hav Sukhbir Singh (No. 4463279L now JC-509286K),
07 Sep 2005*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 01 Aug 2005)

To be Nb Sub (Cik) (GD)

Hav/(Cik) Suresh Kumar Sharma (No. 4465645H now JC-509287M), 01 Sep 2005

Hav/(Cik) Mane Pandurang Narayan (No. 4465803M now JC-509288P), 01 Sep 2005

THE GRENADIERS

To be Nb Sub

Hav Parshotam chand Katoch (No. 2675855N now JC-450011W), 30 Dec 2004

Hav Bal Ram (No. 2680233W now JC-450012Y), 31 Dec 2004

Hav Asha Karan Singh (No. 2687458F now JC-450013F),
01 May 2005

Hav Suresh Kumar (No. 2686915X now JC-450014K),
24th Jun 2005

(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 May 2005 without effect on pay and Allces)

Hav Tilak Raj (No. 2676303M now JC-450015M),
27 Sep 2005

(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 15 Jun 2005 without effect on pay and Allces)

Hav Pratap Singh (No. 2674802H now JC-450016P),
24 Jul 2005

Hav Diyala Ram (No. 2681283N now JC-450017X),
27 Jul 2005

Hav Prahlad (No. 2675899L now JC-450018A), 29 Jul 2005

Hav Budhi Singh (No. 2677163X now JC-450019H), 07 Sep 2005

(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Aug 2005 without effect on pay and Allces)

Hav Sorej Meena (No. 2679195Y now JC-450020X), 20 Aug 2005

Hav Rajbir Singh (No. 2675363P now JC-450021A), 02 Sep 2005

(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Sep 2005 without effect on pay and Allces)

Hav Dalip Singh (No. 2675857Y now JC-450022H),
01 Sep 2005

Hav Mohan Singh (No. 2682254L now JC-450023L), 01 Sep 2005

Hav Jagpal Singh (No. 2676434X now JC-450024N), 01 Sep 2005

Hav Jiwan Lal (No. 2673230A now JC-450025W), 01 Sep 2005

Hav Shoji Lal Meena (No. 2683785P now JC-450026Y),
30 Nov 2005

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep 2005
without effect on pay and Allces)

Hav Bajrang Lal Meena (No. 2683845Y now JC-
450027F), 01 Sep 2005

Hav Ram Singh (No. 2673628P now JC-450028K), 01 Sep
2005

Hav Moti Singh (No. 2676902M now JC-450029M),
03 Sep 2005

Hav Sanwat Singh (No. 2677693M now JC-450030F),
25 Sep 2005

Hav Khem Singh (No. 2673259H now JC-450031K),
25 Sep 2005

Hav Kirpal Singh (No. 2676716W now JC-450032M),
29 Sep 2005

JAK RIF

To be Substantive Sub Maj (GD)

Sub Balwan Singh (JC-578775A), Jak Rif, 01 Aug 2005

Sub Jagjit Singh (JC-579044Y), Jak Rif, 01 Aug 2005

Sub Gurwinder Singh (JC-578605W), Jak Rif, 01 Aug
2005

Sub Satpal Singh (JC-578847Y), Jak Rif, 01 Sep 2005

Sub Sukhdev Singh (JC-578630P), Jak Rif, 01 Sep 2005

Sub Abdul Qayoum (JC-578700H), Jak Rif, 01 Oct 2005

Sub Balwan Singh (JC-579019A), Jak Rif, 01 Nov 2005

To be Substantive Sub (GD)

Nb Sub Manohar Singh (JC-579618A), Jak Rif, 01 Oct
2004

Nb Sub Rudra Khawas (JC-579609Y), Jak Rif, 17 Oct
2004

Nb Sub Paramjit Singh (JC-579638N), Jak Rif, 01 Dec
2004

Nb Sub Ram Krishan (JC-579600K), Jak Rif, 01 Jan 2005

Nb Sub Raghbir Chand (JC-579627F), Jak Rif, 01 Jan
2005

Nb Sub Keshav Chand (JC-579602P), Jak Rif, 03 Jan 2005

Nb Sub Jagdev Singh (JC-579746X), Jak Rif, 01 Feb 2005

Nb Sub Kamal Ram (JC-579740W), Jak Rif, 01 Mar 2005

Nb Sub Gurbachan Singh (JC-579747A), Jak Rif, 01 Mar
2005

Nb Sub Randhir Singh (JC-579750A), Jak Rif, 01 Mar
2005

Nb Sub Anil Kumar (JC-579567X), Jak Rif, 14 Mar 2005

Nb Sub Bir Singh Thapa (JC-579671L), Jak Rif, 10 Apr
2005

Nb Sub Nirmal Singh (JC-579696X), Jak Rif, 01 May
2005

Nb Sub Sansar Chand (JC-579702A), Jak Rif, 01 May
2005

Nb Sub Karam Singh (JC-579753N), Jak Rif, 01 May 2005

Nb Sub Kikar Singh (JC-579610N), Jak Rif, 01 Jun 2005

Nb Sub Anoop Singh (JC-579511L), Jak Rif, 01 Jun 2005

Nb Sub Mohd Azam (JC-579512N), Jak Rif, 01 Jun 2005

Nb Sub Romesh Lal (JC-579664P), Jak Rif, 01 Jun 2005

Nb Sub Vishram Singh (JC-579665X), Jak Rif, 01 Jun
2005

Nb Sub Udham Singh (JC-579704L), Jak Rif, 01 Jun 2005

Nb Sub Kuldip Singh Rana (JC-579597P), Jak Rif,
07 Jun 2005

Nb Sub Ashwani Kumar Rana (JC-579525L), Jak Rif,
08 Jun 2005

Nb Sub Atma Singh (JC-579323K), Jak Rif, 28 Jun 2005

Nb Sub Uttam Singh (JC-579526N), Jak Rif, 01 Jul 2005

Nb Sub Sushil Kumar (JC-579581K), Jak Rif, 01 Jul 2005

Nb Sub Kishan Bahadur Thapa (JC-579660Y), Jak Rif,
01 Jul 2005

Nb Sub Prem Chand (JC-579752N), Jak Rif, 01 Jul 2005

Nb Sub Rama Nand (JC-579764A), Jak Rif, 01 Jul 2005

Nb Sub Dharam Singh (JC-579765H), Jak Rif, 01 Jul 2005

Nb Sub Shambhu Ram Sharma (JC-579641N), Jak Rif,
01 Jul 2005

Nb Sub Parbhat Singh (JC-579687W), Jak Rif, 01 Jul 2005

Nb Sub Sat Pal (JC-579726K), Jak Rif, 01 Jul 2005

Nb Sub Ajit Singh (JC-579698H), Jak Rif, 01 Aug 2005.

Nb Sub Binod Kumar Thapa (JC-579607N), Jak Rif,
01 Aug 2005

Nb Sub Prakash Chand (JC-579666A), Jak Rif, 01 Aug
2005

Nb Sub Joginder Singh (JC-579637L), Jak Rif, 01 Aug
2005

Nb Sub Ram Lal (JC-579706W), Jak Rif, 01 Aug 2005

Nb Sub Onkar Singh (JC-579778A), Jak Rif, 01 Aug 2005

Nb Sub Balbir Singh (JC-579731P), Jak Rif, 01 Aug 2005

Nb Sub Dil Bahadur (JC-579760K), Jak Rif, 03 Aug 2005

Nb Sub Shankar Singh (JC-579611W), Jak Rif, 01 Sep 2005

Nb Sub Mohan Man Shrestha (JC-579678P), Jak Rif, 01 Sep 2005

Nb Sub Dilbhag Singh (JC-579707Y), Jak Rif, 01 Sep 2005

Nb Sub Ravinder Kumar (JC-579780X), Jak Rif, 01 Sep 2005

Nb Sub Krishan Singh (JC-579779H), Jak Rif, 01 Sep 2005

Nb Sub Dalbir Singh (JC-579715X), Jak Rif, 01 Oct 2005

Nb Sub Subash Chand (JC-579708F), Jak Rif, 01 Oct 2005

Nb Sub Daya Sagar (JC-579717H), Jak Rif, 01 Oct 2005

Nb Sub Subhash Chander (JC-579719M), Jak Rif, 01 Nov 2005

Nb Sub Joginder Singh (JC-579720H), Jak Rif, 01 Nov 2005

To be Substantive Sub Clk (GD)

Nb Sub (Clk) Ravinder Singh Thakur (JC-579206Y), Jak Rif, 01 July 2005

Nb Sub (Clk) Karnail Chand Kaith (JC-579296L), Jak Rif, 01 July 2005

Nb Sub (Clk) Satish Kumar Sharma (JC-579298W), Jak Rif, 01 Sep 2005

Nb Sub (Clk) Lekh Ram Thakur (JC-579297N), Jak Rif, 01 Sep 2005

Nb Sub (Clk) Ran Singh (JC-579451F), Jak Rif, 01 Sep 2005

Nb Sub (Clk) Swaran Singh (JC-579215A), Jak Rif, 01 Sep 2005

Nb Sub (Clk) Jagdish Singh (JC-579370F), Jak Rif, 01 Oct 2005

THE SIKH REGIMENT

To be Subedar

Nb Sub Bhupinder Singh (JC-499066K), 29 Nov 2005

(Gtd ante date of seniority in the rank of Sub wef 01 Oct 2005 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Gurmit Singh (JC-499133K), 25 Oct 2005

(Gtd ante date of seniority in the rank of Sub wef 01 Oct 2005 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Amrik Singh (JC-499262K), 21 Nov 2005

(Gtd ante date of seniority in the rank of Sub wef 01 Oct 2005 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Tehal Singh (JC-499178K), 12 Nov 2005

(Gtd ante date of seniority in the rank of Sub wef 01 Nov 2005 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Dewinder Singh (JC-499196M), 16 Dec 2005

(Gtd ante date of seniority in the rank of Sub wef 01 Nov 2005 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Lakhwinder Singh (JC-499152P), 01 Dec 2005

To be Subedar (Clk)

Nb Sub (Clk) Satpal Singh (JC-499079F), 01 Dec 2005

THE GARHWAL RIFLES

To be Sub Maj

Sub Darshan Singh (JC-528502F), 01 July 2005

Sub Harendra Singh (JC-528645F), 01 July 2005

Sub Ram Singh (JC-528241Y), 01 Aug 2005

Sub Kamal Singh (JC-528522P), 01 Aug 2005

Sub Digvijay Joshi (JC-528329H), 01 Sep 2005

To be Sub Maj (Clk)

Sub (Clk) Ram Saingar Misra (JC-528127F), 01 Sep 2005

To be Sub

Nb Sub Rajendra Prasad (JC-529383H), 01 Sep 2004

Nb Sub Kalam Singh (JC-529519F), 01 Dec 2004

Nb Sub Hukam Singh (JC-529424F), 01 Feb 2005

Nb Sub Bishan Singh (JC-529434L), 01 Mar 2005

Nb Sub Lakhpat Singh (JC-529411K), 20 Mar 2005

Nb Sub Surendar Singh (JC-529435N), 22 May 2005

Nb Sub Surendra Singh (JC-529223H), 01 July 2005

Nb Sub Gulab Singh (JC-529295M), 01 July 2005

Nb Sub Tejpal Singh (JC-529430P), 01 July 2005

Nb Sub Dinesh Kumar (JC-529482L), 01 Jul 2005

Nb Sub Kundan Singh (JC-529562H), 01 Jul 2005

Nb Sub Kishor Kumar (JC-529619M), 01 Jul 2005

Nb Sub Kamla Nand (JC-529499Y), 05 Jul 2005

Nb Sub Raj Kumar (JC-529368N), 01 Aug 2005

Nb Sub Tajender Singh (JC-529563L), 01 Aug 2005

Nb Sub Narain Singh (JC-529409M), 10 Aug 2005

Nb Sub Dalvir Singh (JC-529483X), 01 Sep 2005

Nb Sub Umed Singh Rawat (JC-529515L), 01 Sep 2005

Nb Sub Ram Singh Sajwan (JC-529464H), 01 Sep 2005

Nb Sub Jagender Singh (JC-529472F), 01 Sep 2005

Nb Sub Ram Chandar Singh (JC-529467W), 07 Sep 2005

Nb Sub Balam Singh (JC-529618K), 12 Sep 2005

Nb Sub Maha Nand (JC-529362M), 19 Sep 2005

To be Sub (Clk)

Nb Sub (Clk) Ashok Kumar Tiwari (JC-529073X),
01 Sep 2005

Nb Sub (Clk) Amar Singh (JC-529123X), 01 Sep 2005

Nb Sub (Clk) Anil Kumar Chauhan (JC-529208N),
05 Sep 2005

9GR

To be Sub (Musn)

Nb Sub (Musn) Luk Bahadur Thapa (JC-629504N),
05 Dec 2005/01 Aug 2005*

*(Seniority without effect on pay and allowances)

THE JAT REGIMENT

To be Nb Sub

Hav Rajvir Singh (No. 2594274W now JC-489768P),
08 Jul 2005

Hav Ram Kumar (No. 2594102F now JC-489769X),
08 Jul 2005

Hav Parmod Kumar (No. 2594284A now JC-489770M),
16 Jul 2005

Hav Ram Karan Jat (No. 3180968N now JC-489771P),
23 Jul 2005

Hav Mahesh Chand (No. 3179084P now JC-489772X),
06 Nov 2005

Hav Om Prakash (No. 3175329H now JC-489773A),
01 Dec 2005

Hav Arjun Ram (No. 3177988W now JC-489774H),
04 Dec 2005

Hav Manbir Singh (No. 3188350K now JC-489775L),
04 Dec 2005

Hav Kishan Pal (No. 3177753K now JC-489776N), 04 Dec
2005

Hav Kalu Ram Galwa (No. 3181023W now JC-489777W),
01 Jan 2006

Hav Yogendra Singh (No. 3179989X now JC-489761L),
26 May 2005*

*(Gtd. Seniority in the rank of Nb Sub wef 17 May 2005
without effect on pay & allowances)

Hav Somveer (No. 3188506W now JC-489762N), 15 July
2005

Hav Pawan Kumar (No. 3183889K now JC-489763W),
01 Nov 2005

Hav Hoshiyar Singh Jat (No. 3179747A now JC-
489764Y), 01 Nov 2005

Hav Rampal Choudhary (No. 3179773W now JC-
489765F), 01 Nov 2005

Hav Kunwar Singh Sinsinwar (No. 3178312A now JC-
489766K), 01 Nov 2005

To be Nb Sub (Musn)

Hav (Musn) Banvir Kumar (No. 3175008L now JC-
489767M), 01 Sep 2005

THE BIHAR REGIMENT

To be Nb Sub (GD)

Hav Mahadev Singh Kherwar (No. 4266859F now JC-
559469W), 27 Jul 2005/18 Aug 2004 (Seniority)*

*(Granted notional seniority in the rank of Nb Sub with
effect from 18 Aug 2004 without effect on pay and allces)

Hav Kanhu Charan Hembram (No. 4263344W now JC-
559470L), 15 Jun 2005/01 Jan 2005 (Seniority)*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from
01 Jun 2005 without effect on pay and allces.)

Hav Kirtan Chandra Dehuri (No. 4263355H now JC-
559471N), 09 Jun 2005/01 Jan 2005 (Seniority)*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from
01 Jan 2005 without effect on pay and allces)

Hav Jitendra Prasad Rai (No. 4258742N now JC-
559472W), 29 Jun 2005/19 Jun 2005 (Seniority)*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from
19 Jun 2005 without effect on pay and allces)

Hav Sarat Kumar Behera (No. 4262323N now JC-
559473Y), 04 Jul 2005/01 May 2005 (Seniority)*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from
01 May 2005 without effect on pay and allces)

Hav Elbuis Kujur (No. 8031253N now JC-559474F),
11 Jul 2005/17 Jun 2005 (Seniority)*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from
17 Jun 2005 without effect on pay and allces)

Hav Brahmdeo Prasad (No. 4264444N now JC-
559475K), 11 Jul 2005/01 Jul 2005 (Seniority)*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from
01 Jul 2005 without effect on pay and allces)

Hav Dina Nath Singh (No. 4264262A now JC-559476M),
18 Jul 2005/01 Jul 2005 (Seniority)*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from
01 Jul 2005 without effect on pay and allces)

Hav Shatrughan Sah (No. 4261645F now JC-559477P),
29 July 2005/22 June 2005 (Seniority)*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from
22 Jun 2005 without effect on pay and allces)

Hav Prasan Kumar Jena (No. 4262618K now JC-559478X), 2 Aug 2005/16 Jul 2005 (Seniority)*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 16 July 2005 without effect on pay and allces)

Hav Sukra Munda (No. 4266383A now JC-559479A), 4 Aug 2005/01 May 2005 (Seniority)*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 May 2005 without effect on pay and allces)

Hav Madhabendra Laguri (No. 4262209W now JC-559480P), 09 Aug 2005/19 Mar 2005 (Seniority)*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 19 Mar 2005 without effect on pay and allces)

Hav Naneya Oraon (No. 4261587H now JC-559481X), 16 Aug 2005/19 Mar 2005 (Seniority)*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 19 March 2005 without effect on pay and allces)

Hav Shankar Lal (No. 4262461P now JC-559482A), 16 Aug 2005/21 Mar 2005 (Seniority)*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 21 Mar 2005 without effect on pay and allces)

To be Nb Sub (CLERK/GD)

Hav/Clk Jay Prakash Mehta (No. 4264231A now JC-559483H), 01 Aug 2005

Hav/Clk Binay Kumar Singh (No. 4264229H now JC-559484L), 31 Aug 2005/01 Aug 2005 (Seniority)*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub/Clk with effect from 01 Aug 2005 without effect on pay and allces)

Hav/Clk Jogendra Prasad (No. 4264234N now JC-559485N), 18 Jul 2005/01 Jul 2005 (Seniority)*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub/Clk with effect from 01 Jul 2005 without effect on pay and allces)

Hav/Clk Ram Lal Pal (No. 4264240F now JC-559486W), 23 Sep 2005/01 Sep 2005 (Seniority)*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub/Clk with effect from 01 Sep 2005 without effect on pay and allces)

Hav/Clk Pradumn Tiwari (No. 4264313H now JC-559487Y), 04 Oct 2005/01 Oct 2005 (Seniority)*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub/Clk with effect from 01 Oct 2005 without effect on pay and allces.)

To be Nb Sub (GD)

Hav Sanjay Kumar Kindo (No. 4265846X now JC-559488F), 24 Aug 2005/01 Jun 2005 (Seniority)*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Jun 2005 without effect on pay and allces)

Hav Doman Lakada (No. 4264817W now JC-559489K), 24 Aug 2005/01 Jun 2005 (Seniority)*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Jun 2005 without effect on pay and allces)

Hav Fabianus Beng (No. 4267595X now JC-559490Y), 04 Sep 2005/01 Jun 2005 (Seniority)*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Jun 2005 without effect on pay and allces)

Hav Bishnu Oraon (No. 4263189A now JC-559491F), 20 Aug 2005/01 Jun 2005 (Seniority)*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Jun 2005 without effect on pay and allces)

Hav Jayaram Pradhan (No. 4266660A now JC-559492K), 25 Aug 2005/01 Jun 2005 (Seniority)*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Jun 2005 without effect on pay and allces)

Hav Chaitanay Prasad Soren (No. 4265413A now JC-559493M), 25 Aug 2005/01 Jun 2005 (Seniority)*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Jun 2005 without effect on pay and allces)

Hav Trilok Nath Pandey (No. 4262480A now JC-559494P), 25 Aug 2005/01 Jul 2005 (Seniority)*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 1 Jul 2005 without effect on pay and allces)

CHM Surender Tiwary (No. 4263284M now JC-559495X), 15 Jul 2005/01 Jul 2005 (Seniority)*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Jul 2005 without effect on pay and allces)

Hav Pradyumna Kumar Baral (No. 4262683K now JC-559496A), 11 Sep 2005/01 Aug 2005 (Seniority)*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Aug 2005 without effect on pay and allces)

Hav Bhakta Hemram (No. 4265342K now JC-559497H), 12 Sep 2005/06 Aug 2005 (Seniority)*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 06 Aug 2005 without effect on pay and allces.)

Hav Ramagade Mahendra Sahadeorao (No. 4269396H now JC-559498L), 19 Sep 2005/6 Aug 2005 (Seniority)*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 06 Aug 2005 without effect on pay and allces)

Hav Madavi Krushna Mallayya (No. 4267032X now JC-559499N), 01 Sep 2005

Hav Nirakar Parida (No. 4262617F now JC-559500X), 01 Sep 2005

To be Nb Sub (Clk/GD)

Hav/Clk Ganga Sagar Singh (No. 4264241N now JC-559501A), 10 Oct 2005/01 Sep 2005 (Seniority)*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub/Clk with effect from 01 Sep 2005 without effect on pay and allces)

Hav/Clk Dip Narayan Ram (No. 4264312A now JC-559502H), 20 Oct 2005/01 Oct 2005 (Seniority)*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub/Clk with effect from 01 Oct 2005 without effect on pay and allces)

Hav/Clk Yogendra Pal Singh (No. 15359076H now JC-559503L), 31 Oct 2005/27 Oct 2005 (Seniority)*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub/Clk with effect from 27 Oct 2005 without effect on pay and allces)

Hav/Clk Subhra Ghosh (No. 4264305K now JC-559504N), 1 Nov 2005

Hav/Clk Hare Krishna Pandey (No. 4264306M now JC-559505W), 5 Nov 2005/1 Nov 2005 (Seniority)*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub/Clk with effect from 1 Nov 2005 without effect on pay and allces)

Hav/Clk Radhe Shyam Yadava (No. 4264374A now JC-559506Y), 14 Nov 2005/1 Nov 2005 (Seniority)*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub/Clk with effect from 01 Nov 2005 without effect on pay and allces)

To be Nb Sub (GD)

Hav Sri Kant Choudhary (No. 4263310H now JC-559507F), 11 Oct 2005/01 July 2005 (Seniority)*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 July 2005 without effect on pay and allces)

Hav Sailesh Kumar Singh (No. 4262025X now JC-559508K), 07 July 2005/01 June 2005 (Seniority)*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Jun 2005 without effect on pay and allces)

CHM Laurence Kujur (No. 4261309P now JC-559509M), 11 Oct 2005/26 May 2005 (Seniority)*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub/Musician with effect from 26 May 2005 without effect on pay and allces)

Hav Ravinder Prasad Sharma (No. 4261674W now JC-559510F), 07 Oct 2005/01 Sep 2005 (Seniority)*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Sep 2005 without effect on pay and allces)

Hav Cyril Toppo (No. 4261408X now JC-559511K), 05 Nov 2005/05 Sep 2005 (Seniority)*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 05 Sep 2005 without effect on pay and allces)

Hav Budh Nath Bhagat (No. 4261544N now JC-559512M), 05 Nov 2005/17 Sep 2005 (Seniority)*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 17 Sep 2005 without effect on pay and allces)

Hav Kamlesh Prasad (No. 4260581P now JC-559513P), 29 Oct 2005/27 Sep 2004 (Seniority)*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 27 Sep 2004 without effect on pay and allces)

Hav Adhibans Prasad Singh (No. 4263326N now JC-559514X), 31 Oct 2005/01 Jul 2005 (Seniority)*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Jul 2005 without effect on pay and allces)

Hav Laxman Baxla (No. 4266641P now JC-559515A), 17 Sep 2005/01 Jul 2005 (Seniority)*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 July 2005 without effect on pay and allces)

CHM Shyam Sundar Marandi (No. 4267133L now JC-559516H), 17 Oct 2005/11 Sep 2005 (Seniority)*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 11 Sep 2005 without effect on pay and allces)

Hav Nirmal Ekka (No. 4261938M now JC-559517L), 07 Nov 2005/06 Sep 2005 (Seniority)*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 06 Sep 2005 without effect on pay and allces)

CORPS OF MILITARY POLICE

To be Nb Sub

Hav Sadolkar Keraba Kundalik (No. 7773676Y now JC-819074L), 13 Oct 2005#

Hav Munna Lal (No. 7773403W now JC-819075N), 05 Nov 2005@

Hav Ram Dev Meena (No. 7773002F now JC-819076W), 21 Oct 2005@

Hav Dharendra Kumar Acharya (No. 7773494L now JC-819077Y), 28 Oct 2005@

Hav Vijay Singh Choyal (No. 7773558L now JC-819078F), 28 Oct 2005@

Hav Nagendra Kumar Singh (No. 7773603M now JC-819079K), 25 Oct 2005@

Hav Shree Bhagwt Visvakarma (No. 7773508A now JC-819080Y), 25 Nov 2005@

Hav Deo Nath Yadav (No. 7773669H now JC-819081F), 31 Oct 2005@

Hav Vinod Kumar Yadav (No. 7773683P now JC-819082K), 28 Oct 2005@

Hav Arvind Kumar Singh (No. 7773730F now JC-819083M), 22 Nov 2005@

Hav Mahabir (No. 7773765X now JC-819084P), 01 Nov 2005

Hav Brij Kant Singh (No. 7773761F now JC-819085X), 01 Nov 2005

Hav Murali G (No. 7773764P now JC-819086A), 02 Nov 2005\$

Hav Prabhat Saikia (No. 7773789F now JC-819087H), 02 Nov 2005\$

Hav Walke Sunil Popat (No. 7773800P now JC-819088L), 02 Nov 2005\$

Hav Kanagaraj V (No. 7773710N now JC-819089N), 01 Nov 2005

Hav Jharkhande Prasad Gupta (No. 7773758F now JC-819090H), 01 Nov 2005

Hav Balaji (No. 7773928A now JC-819091L), 01 Nov 2005

Hav Pradip Kumar (No. 7773768L now JC-819092N), 24 Nov 2005&

Hav Nawal Kishor (No. 7773619X now JC-819095F), 02 Dec 2005&

Hav Randhir Singh (No. 7773938K now JC-819096K), 06 Dec 2005&

Hav Hem Chandra Pandey (No. 7773940F now JC-819097M), 01 Dec 2005

Hav Jagmohan Sharma (No. 7773822N now JC-819098P), 01 Dec 2005

Hav Bhola Prasad (No. 7773843K now JC-819099X), Dec 2005

Hav Vundrala Chinnaiah (No. 7773818L now JC-819100F), 01 Dec 2005@

Hav Deo Prasad Rai (No. 7773849L now JC-819101K), 06 Dec 2005&

#(Granted seniority with effect from 01 Jul 2005 without effect on pay and allowances)

@(Granted seniority with effect from 01 Oct 2005 without effect on pay and allowances)

\$(Granted seniority with effect from 01 Nov 2005 without effect on pay and allowances)

&(Granted seniority with effect from 01 Dec 2005 without effect on pay and allowances)

To be Naib Subedar (Clerk/GD)

Hav Manvir Singh Raghav (No. 7773140H now JC-819093W), 01 Dec 2005

Hav Babu Girish Chand (No. 7773828P now JC-819094Y), 23 Dec 2005&

&(Granted seniority with effect from 01 Dec 2005 without effect on pay and allowances)

SPECIAL LIST

THE PUNJAB REGIMENT

To be Nb Sub Religious Teachers (Pandit)

RRT (Pandit) Rakesh Chandra (JC-429455M), 10 Jan 2004

Hav Shiv Kant Tiwari (No. 1582240A now JC-429750P), 17 Jul 2004

RRT (Pandit) Rama Kant Tripathi (JC-429526H), 17 Jul 2004

RRT (Pandit) Bhuwaneshwar Mani Tripathi (JC-429640A), 11 Dec 2004

To be Nb Sub Religious Teachers (Granthi)

RRT (Granthi) Gurminder Singh Gill (JC-429454K), 10 Jan 2004

L Nk Gurtej Singh (No. 1494563A now JC-429729M), 17 Jul 2004

Nk Hardip Singh (No. 1485621X now JC-429730F), 17 Jul 2004

RRT (Granthi) Major Singh (JC-429527L), 17 Jul 2004

Nk Harjinder Singh (No. 2484744N now JC-429772N), 19 Feb 2005

DIWAKAR
Under Secy.

No. 209, dated 30 March 2006.—The President is pleased to make the following promotions:—

REGULAR ARMY

INFANTRY

THE MECHANISED INFANTRY REGIMENT

To be Substantive Sub Major (GD)

Sub Pritam Singh (JC-418724N), 01 Dec 2005

To be Substantive Sub (GD)

Nb Sub Man Bahadur Gurung (JC-419797M), 01 Aug 2005*

*(Granted seniority in the rank of Substantive Sub wef 01 Jan 2005 without effect on pay and allces)

Nb Sub Rohitash (JC-419555K), 29 Nov 2005*

*(Granted seniority in the rank of Substantive Sub wef 01 Sep 2005 without effect on pay and allces)

Nb Sub Raj Kumar (JC-419423W), 31 Oct 2005*

*(Granted seniority in the rank of Substantive Sub wef 01 Oct 2005 without effect on pay and allces)

Nb Sub Kapil Prasad (JC-419681W), 05 Dec 2005*

*(Granted seniority in the rank of Substantive Sub wef 01 Oct 2005 without effect on pay and allces)

Nb Sub Amar Singh Verma (JC-419720K), 01 Oct 2005

Nb Sub Ram Singh (JC-419610P), 01 Nov 2005

Nb Sub Gian Bahadur Thapa (JC-419918H), 26 Nov 2005*

*(Granted seniority in the rank of Substantive Sub wef 01 Nov 2005 without effect on pay and allces)

Nb Sub Jadhav Shahaji Narayan (JC-419605K), 01 Dec 2005*

Nb Sub Shyam Lal Patel (JC-419683F), 31 Dec 2005*

*(Granted seniority in the rank of Substantive Sub wef 01 Dec 2005 without effect on pay and allces)

Nb Sub Biri Singh (JC-419746Y), 01 Dec 2005

Nb Sub Karan Singh (JC-419887M), 21 Dec 2005*

*(Granted seniority in the rank of Substantive Sub wef 01 Dec 2005 without effect on pay and allces)

Nb Sub Ved Prakash (JC-419904H), 03 Dec 2005*

*(Granted seniority in the rank of Substantive Sub wef 01 Dec 2005 without effect on pay and allces)

Nb Sub Anil Ale (JC-419920A), 17 Dec 2005*

*(Granted seniority in the rank of Substantive Sub wef 01 Dec 2005 without effect on pay and allces)

Nb Sub Ashok Kumar Gurung (JC-419921H), 17 Dec 2005*

*(Granted seniority in the rank of Substantive Sub wef 01 Dec 2005 without effect on pay and allces)

Nb Sub Biradar Vishnu Satavaji (JC-419480X), 03 Jan 2006*

*(Granted seniority in the rank of Substantive Sub wef 01 Jan 2006 without effect on pay and allces)

Nb Sub Krishna Murthy K (JC-419618F), 02 Jan 2006*

*(Granted seniority in the rank of Substantive Sub wef 01 Jan 2006 without effect on pay and allces)

To be Subedar (RT) (Pandit)

Nb Sub (RT) Ram Chandra Tiwari (JC-418461A), 13 Dec 2005*

*(Granted seniority in the rank of Substantive Sub wef 01 Dec 2005 without effect on pay and allces)

Nb Sub (RT) Krishna Deo Shukla (JC-418462H), 06 Dec 2005*

*(Granted seniority in the rank of Substantive Sub wef 01 Dec 2005 without effect on pay and allces)

JOSE THOMAS
Under Secy.

No. 210, dated 28 March 2006.—The President is pleased to make the following promotions/appointments:—

REGULAR ARMY
CORPS OF SIGNALS

To be Substantive Sub (Y of S)

Nb Sub G M Bhanudas (JC-371966H), 24 Nov 2005*

*(Granted seniority in the rank of Sub wef 1 Sep 2004 without effect on pay and allces)

Nb Sub S C Pattanaik (JC-372226A), 01 Nov 2005

Nb Sub Balai Chandra Saha (JC-372227H), 01 Nov 2005

Nb Sub Prem Raj Chauhan (JC-372228L), 01 Nov 2005

Nb Sub Narad Sharma (JC-372229N), 01 Nov 2005

Nb Sub Om Prakash Swami (JC-372230H), 01 Nov 2005

Nb Sub K Vijay Kumar (JC-372231L), 01 Nov 2005

Nb Sub Raghunadhan MD (JC-372232N), 01 Nov 2005

Nb Sub Ram Babu Tokas (JC-372233W), 01 Nov 2005

Nb Sub Braham Parkash (JC-372455L), 01 Nov 2005

To be Substantive Sub (F of S)

Nb Sub Kishor Kumar Joshi (JC-372388L), 01 June 2005

Nb Sub Rajvir Singh (JC-372391L), 01 June 2005

Nb Sub Manoj Kumar (JC-372399X), 01 July 2005

Nb Sub Bharat Chand (JC-372402M), 14 July 2005

(Granted seniority in the rank of Sub wef 1 July 2005 without effect on pay and allces)

Nb Sub Narendra Singh (JC-372410L), 01 Nov 2005

Nb Sub Shambhu Lal (JC-372411N), 02 Nov 2005

(Granted seniority in the rank of Sub wef 1 Nov 2005 without effect on pay and allces.)

Nb Sub Suresh Babu S (JC-372412W), 01 Nov 2005

Nb Sub S Ganesan (JC-372414F), 01 Nov 2005

Nb Sub Dhanna Lal Jat (JC-372415K), 01 Nov 2005

Nb Sub P Ashwin Kumar SB (JC-372419A), 01 Nov 2005

Nb Sub Ali Sher (JC-372420P), 20 Nov 2005

(Granted seniority in the rank of Sub wef 1 Nov 2005 without effect on pay and allces)

Nb Sub K Vyjayanthiran (JC-372421X), 01 Nov 2005

Nb Sub Yogendra Singh (JC-372422A), 01 Nov 2005

Nb Sub Cherian George (JC-372423H), 01 Nov 2005

Nb Sub Ram Singh Yadav (JC-372424L), 01 Nov 2005

Nb Sub Ramendra Singh (JC-372426W), 01 Nov 2005

Nb Sub Ganpati Singh (JC-372427Y), 01 Nov 2005

Nb Sub Sohan Lal (JC-372428F), 01 Nov 2005

Nb Sub S Vijaya Kumar (JC-372429K), 01 Nov 2005

Nb Sub Devinder Kumar (JC-372430Y), 01 Dec 2005

To be Substantive Sub (OP Ciph)

Nb Sub Krishan Kumar (JC-373332L), 17 Aug 2005

(Granted seniority in the rank of Sub wef 1 July 2005 without effect on pay and allces)

Nb Sub Virender Singh (JC-373453M), 14 July 2005

(Granted seniority in the rank of Sub wef 1 July 2005 without effect on pay and allces)

Nb Sub Gulab Chander (JC-373457H), 01 July 2005
 Nb Sub Hari Singh Rajput (JC-373460H), 01 Sep 2005
 Nb Sub Ranvir Singh (JC-373461L), 01 Sep 2005
 Nb Sub Mahabir Singh Negi (JC-373462N), 01 Oct 2005
 Nb Sub Gian Chand Indu (JC-373463W), 01 Oct 2005
 Nb Sub Achhe Lal (JC-373647P), 03 Oct 2005
 (Granted seniority in the rank of Sub wef 1 Oct 2005 without effect on pay and allces)
 Nb Sub D Muruga Das (JC-373648X), 01 Oct 2005
 Nb Sub Udai Chand Sharma (JC-373613F), 01 Oct 2005
 Nb Sub Mrinal Kanti Chand (JC-373614K), 03 Oct 2005
 (Granted seniority in the rank of Sub wef 1 Oct 2005 without effect on pay and allces)
 Nb Sub Alam Singh (JC-373615M), 01 Oct 2005
 Nb Sub Ramu Dadu More (JC-373616P), 01 Nov 2005

To be Substantive Sub (OP Spec)

Nb Sub Laxman Singh Sengar (JC-373490A), 01 Sep 2005
 Nb Sub Bhan Singh (JC-373492L), 01 Oct 2005
 Nb Sub Mange Ram (JC-373345H), 01 Nov 2005
 (Granted seniority in the rank of Sub wef 12 Oct 2005 without effect on pay and allces)

To be substantive Subedar (CLK GD)

Nb Sub Prem Chand Yadav (JC-372052L), 01 Sep 2005
 Nb Sub Rajeevan K C (JC-372053N), 01 Oct 2005
 Nb Sub Desai Rama Gonda K (JC-372054W), 01 Oct 2005
 Nb Sub Rajbir (JC-372055Y), 01 Oct 2005
 Nb Sub Kishori Lal Sharma (JC-372056F), 01 Oct 2005
 Nb Sub Rajendra Kumar (JC-372058M), 01 Oct 2005
 Nb Sub Naresh Chander (JC-372059P), 01 Nov 2005
 Nb Sub Darshan Singh (JC-372241P), 01 Nov 2005
 Nb Sub Darpa Narayan Rout (JC-372278W), 01 Nov 2005
 Nb Sub Maharaj Singh (JC-372279Y), 07 Nov 2005
 (Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Nov 2005 without effect on pay and allces)
 Nb Sub Balbir Singh (JC-372331W), 01 Dec 2005
 Nb Sub Jaswant Singh Thakur (JC-372375N), 01 Dec 2005

To be Substantive Sub (S K T)

Nb Sub H G S Chauhan (JC-373472X), 01 Nov 2005

To be Substantive Sub (GD)

Nb Sub Gopinathan MP (JC-373989H), 14 Oct 2005
 (Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Apr 2005 without effect on pay and allces)

Nb Sub Bhadrupal Singh (JC-374227F), 01 July 2005
 Nb Sub T D Pillai K U (JC-374252A), 01 July 2005
 Nb Sub Jugal Kishore (JC-374257Y), 01 Aug 2005
 Nb Sub Sita Ram (JC-374298H), 01 Aug 2005
 Nb Sub D S Kundu (JC-374299L), 01 Sep 2005
 Nb Sub Jaman Singh (JC-374306W), 22 Sep 2005
 (Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Sep 2005 without effect on pay and allces)
 Nb Sub Ram Pratap (JC-374307Y), 01 Sep 2005
 Nb Sub Sripal Singh (JC-374310Y), 01 Sep 2005
 Nb Sub V K Mishra (JC-374311F), 15 Oct 2005
 (Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Oct 2005 without effect on pay and allces)
 Nb Sub Hareendranadh C (JC-374349L), 01 Oct 2005
 Nb Sub Pitamber Datt Jadli (JC-374350A), 01 Oct 2005
 Nb Sub Raj Pal Singh (JC-374352L), 01 Oct 2005
 Nb Sub Gopal Singh (JC-374353N), 01 Oct 2005
 Nb Sub Jaideep Singh (JC-374354W), 01 Oct 2005
 Nb Sub Surti Dass (JC-374355Y), 01 Oct 2005
 Nb Sub A K Choudhary (JC-374356F), 01 Oct 2005
 Nb Sub Sajith V (JC-374357K), 01 Oct 2005
 Nb Sub Jaikanta Borah (JC-374359P), 06 Oct 2005
 (Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Oct 2005 without effect on pay and allces)
 Nb Sub Gopinadhan Nair K (JC-374360K), 01 Oct 2005
 Nb Sub Delipa Singh (JC-374361M), 01 Oct 2005
 Nb Sub P C Talwar (JC-374362P), 07 Oct 2005
 (Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Oct 2005 without effect on pay and allces)
 Nb Sub Chanchal Singh (JC-374363X), 01 Oct 2005
 Nb Sub Awadh Prasad (JC-374364A), 01 Nov 2005
 Nb Sub J N Gurung (JC-374365H), 01 Nov 2005
 Nb Sub Keshav Kumar (JC-374368W), 05 Nov 2005
 (Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Nov 2005 without effect on pay and allces)
 Nb Sub Om Prakash Jangir (JC-374369Y), 01 Nov 2005
 Nb Sub Dalip Singh Thakur (JC-374370N), 01 Nov 2005
 Nb Sub Vijaya Kumar G (JC-374372Y), 01 Nov 2005
 Nb Sub Bhanwar Lal (JC-374373F), 01 Nov 2005
 Nb Sub S C Pal (JC-374375M), 12 Nov 2005
 (Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Nov 2005 without effect on pay and allces)

Nb Sub Tej Pal Singh (JC-374376P), 07 Nov 2005

(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Nov 2005 without effect on pay and allces.)

Nb Sub Milap Chand (JC-374378A), 01 Nov 2005

Nb Sub Puran Singh (JC-374381A), 04 Nov 2005

(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Nov 2005 without effect on pay and allces)

Nb Sub Sree Kumaran Nair (JC-374389M), 01 Nov 2005

Nb Sub Rajmani Kurmavanshi (JC-374391K), 01 Nov 2005

Nb Sub Samer Singh (JC-374394X), 01 Nov 2005

Nb Sub Lalit Kumar (JC-374395A), 01 Nov 2005

Nb Sub Raj Kumar (JC-374396H), 12 Nov 2005

(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Nov 2005 without effect on pay and allces)

Nb Sub K Mayandy (JC-374397L), 01 Nov 2005

Nb Sub Mizad Hossain (JC-374450L), 01 Nov 2005

Nb Sub Bishnu Deo Thakur (JC-374458X), 01 Dec 2005

CORPS OF ARMY AIR DEFENCE

To be Nb Sub

BHM Mansidh Topno (No. 14360708Y now JC-299360A), 26 Nov 2005/01 Aug 2005*

RHM Surendra Babu (No. 14361070K now JC-299361H), 22 Nov 2005/01 Sep 2005*

BHM Raghunandan Yadav (No. 14369922H now JC-299362L), 10 Nov 2005/21 Sep 2005*

Hav Asha Ram (No. 14360943X now JC-299363N), 24 Oct 2005/01 Oct 2005*

Hav Birendra Singh (No. 14381410H now JC-299364W), 10 Nov 2005/03 Oct 2005*

BHM Hari Singh Yadav (No. 14374744P now JC-299365Y), 15 Nov 2005/18 Oct 2005*

Hav Indra Prasad Ray (No. 14378107W now JC-299366F), 17 Nov 2005/26 Oct 2005*

BHM Raj Kumar (No. 14372429A now JC-299367K), 01 Nov 2005

BHM Prabhakaran Thirumbally (No. 14371340F now JC-299368M), 24 Nov 2005/01 Nov 2005*

Hav Ajay Kumar Sharma (No. 14377349M now JC-299369P), 08 Dec 2005/14 Nov 2005*

Hav Raghubir Singh (No. 14367115P now JC-299370K), 15 Dec 2005/15 Nov 2005*

RHM Thakur Prasad (No. 14354717K now JC-299371M), 05 Dec 2005/01 Dec 2005*

Hav Satpal Singh (No. 14487070W now JC-299372P), 19 Dec 2005/01 Dec 2005*

Hav Manohar Lal (No. 14487538Y now JC-299373X), 01 Jan 2006

RT Santosh Kumar (NYA now JC-299374A), 14 Jan 2006

RT Yogesh Sharma (NYA now JC-299375H), 14 Jan 2006

BHM Gopal Singh (No. 14358878K now JC-299376L), 25 Nov 2005/03 Oct 2005*

BHM Sultan Singh (No. 14364801X now JC-299377N), 05 Dec 2005/27 Oct 2005*

Hav Jiwan Chandra (No. 14376334Y now JC-299378W), 10 Dec 2005/19 Nov 2005*

Hav Balbir Singh (No. 14384020L now JC-299379Y), 10 Dec 2005/19 Nov 2005*

Hav Kamalesh Narayan (No. 14387964X now JC-299380N), 10 Jan 2006/24 Nov 2005*

BHM Dasrath Singh Yadav (No. 14346440F now JC-299381W), 14 Dec 2005/01 Dec 2005*

Hav Chandu Lal (No. 14387991L now JC-299382Y), 15 Dec 2005/01 Dec 2005*

Hav Satbir Singh (No. 14362509K now JC-299383F), 16 Dec 2005/01 Dec 2005*

RHM Sushanta Kumar Bose (No. 14377534A now JC-299384K), 28 Dec 2005/01 Dec 2005*

RHM Baboo G (No. 14389182A now JC-299385M), 21 Jan 2006/22 Dec 2005*

BHMAN Singh Pal (No. 14358129N now JC-299386P), 01 Jan 2006

BHM Sarup Singh (No. 14386953Y now JC-299387X), 01 Jan 2006

BHM Biren Kumar Singh (No. 14363097A now JC-299388A), 02 Jan 2006/01 Jan 2006*

Hav Nar Bahadru Mangar (No. 14477013F now JC-299389H), 03 Jan 2006/01 Jan 2006*

Hav Raveendran Pillai (No. 14363316W now JC-299390X), 05 Jan 2006/01 Jan 2006*

BHM Avtar Singh (No. 14369422L now JC-299391A), 06 Jan 2006/01 Jan 2006*

Hav Deben Sunchure (No. 14357572P now JC-299392H), 07 Jan 2006/01 Jan 2006*

BHM Raj Kishore Singh Yadav (No. 14361401A now JC-299393L), 07 Jan 2006/01 Jan 2006*

THM Kulbir Singh (No. 14379004K now JC-299394N), 07 Jan 2006/01 Jan 2006*

RHM Kumbhar Hariha Babu (No. 14361154X now JC-299395W), 10 Jan 2006/01 Dec 2005*

*(Gtd ante-date seniority wef)

PERMANENT COMMISSION

Capt to be Substantive Major

V-451A, Capt YVV Sunder Ram Murty RVC, 17 Dec 1998

Lieut to be Substantive Capt

V-549N, Capt Rakesh Sharma RVC, 13 Apr 2004, but seniority in the rank wef 11.06.2001

V-550H, Capt Mohammed Meheub ur-Rahman RVC, 13 Apr 2004, but seniority in the rank wef 11.06.2001

V-551L, Capt Vineet Butola RVC, 13 Apr 2004, but seniority in the rank wef 11.06.2001

V-552N, Capt SJ Premkumar E RVC, 13 Apr 2004, but seniority in the rank wef 11.06.2002

V-553Y, Capt Neeraj Gupta RVC, 13 Apr 2004, but seniority in the rank wef 11.06.2001

V-554Y, Capt Manav Deshwal RVC, 13 Apr 2004, but seniority in the rank wef 11.06.2001

V-555F, Capt Bhupender Bishnoi RVC, 13 Apr 2004, but seniority in the rank wef 11.06.2001

V-556K, Capt MM Madhusudan RVC, 13 Apr 2004, but seniority in the rank wef 11.06.2002

V-557M, Capt Nishant Rana RVC, 13 Apr 2004, but seniority in the rank wef 11.06.2002

V-558P, Capt Anup RRVC, 13 Apr 2004, but seniority in the rank wef 11.06.2002

V-559X, Capt Sanjay Jadhav RVC, 13 Apr 2004, but seniority in the rank wef 11.06.2002

V-560M, Capt Manoj Kumar Das RVC, 13 Apr 2004, but seniority in the rank wef 10.09.2001

V-561P, Capt Vijay Mahato RVC, 13 Apr 2004, but seniority in the rank wef 10.09.2001

S. P. SHARMA
Under Secy.

No. 24 dated 31 March 2006.—The President is pleased to make the following promotions:—

Sl. No., Name of Persons & date of Promotion

Smt Pratima Gopal Sharma, Senior Private Secretary, 01 Jan 2004

Shri GC Hazra, Senior Private Secretary, 01 Apr 2004

Shri S Bhattacharya, Senior Private Secretary, 01 Apr 2004

Shri N S Rawat, Senior Private Secretary, 01 Dec 2004

Smt Naseem A Pathan, Private Secretary, 03 Aug 2004

Smt K Vijaylakshmi, Private Secretary, 03 Aug 2004

Shri Subhash Chand, Private Secretary, 01 Dec 2005

No. 212, dated 3 April 2006.—The President is pleased to make the following promotion:—

REGULAR ARMY
PERMANENT COMMISSION

LT Cols To Be Substantive Col (By Time Scale)

IC-38554H Lt Col, Kulwant Singh, Inf 22 Dec 2005

IC-36461P Lt Col, HS Chauhan, AOC 16 Dec 2004

IC-35957X Lt Col, IS Birman, AOC 09 Jun 2005

IC-38518X Lt Col, Mani Ram, Inf 22 Dec 2005

IC-38320Y Lt Col, Ashok Parmar, Arty 22 Dec 2005

IC-38399M Lt Col, Dharam Pal, Inf 22 Dec 2005

IC-30125M Lt Col, DK Gupta, AOC 16 Dec 2004

IC-30852K Lt Col, AM Roy, Arty 16 Dec 2004

IC-38569L Lt Col, RP Choudhary, Inf 22 Dec 2005

IC-38637N Lt Col, AK Gupta, AEC 22 Dec 2005

IC-38362L Lt Col, Avtar Singh, Inf 22 Dec 2005

IC-38584A Lt Col, Susheel Chandra, Inf 22 Dec 2005

IC-38452M Lt Col, HK Khandelwal, Sigs 22 Dec 2005

IC-37196W Lt Col, AD Palande, Inf 16 Dec 2004

IC-35959N Lt Col, BS Adhikari, Inf 09 Jun 2005

IC-34179L Lt Col, DP Singh, AC 16 Dec 2004

IC-38449M Lt Col, Man Mohan Burathoki, AOC 22 Dec 2005

LT Col To Be Substantive Col (By Selection)

IC-34558 VS Bakhtawar, AOC 01.12.2002

IC-37348 S S Sangwan, Inf 01.02.2005

IC-37715 RK Chadha, Arty 01.02.2005

IC-38661 SPS Puri, AOC 01.02.2005

IC-39145 DVS Panghal, Inf 01.02.2005

AJAY GOEL
Dy. Dir
MS-8A

No. 213 dated 28 March 2006.—The President is pleased to retire Shri O. P. Wadhwa, Section Officer, Ministry of Defence from Government Service with effect from 28.2.2006 (AN) on attaining the age of superannuation.

G. VIJAYARAGHAVAN
Under Secy.

ARMY BRANCH

No. 214 dated 31 March 2006.—The President is pleased to permit the under mentioned officers to retire from the Army

Service wef dates noted against them, earlier than their normal age of retirement at their own request for their personal reasons:—

**REGULAR ARMY
PERMANENT COMMISSION**

IC-25451 Col, Bajwa Harcharan Singh, Inf 2004.2001 (AN)

IC-34891 Lt Col, Vijay Bahadur Singh SM, Inf 20.11.2001 (AN)

IC-40242 Lt Col, Pankaj Punit Singh, Inf 03.01.2005 (AN)

IC-34799 Col, Arvind Kumar Madhok, Inf 04.04.2005 (AN)

IC-40348 Lt Col, Pankaj Awasthi, SM**, Inf 12.07.2005 (FN)

IC-36770 Col (TS), Pundir Harish Kumar, Inf 18.07.2005 (AN)

IC-34563 Lt Col, Das Aswini Kumar, Inf 30.06.2005 (AN)

IC-39108 Lt Col, PS James, Inf 13.04.2005 (FN)

IC-34247 Col, Navin Kumar Dutta, Inf 01.06.2005 (FN)

IC-38672 Lt Col, David Devasahayam, Inf 31.05.2005 (AN)

IC-39681 Lt Col, K A Mohan, VrC, SM* Inf 15.04.2005 (AN)

IC-41991 Lt Col, Sunil Kumar, SC, Inf 28.06.2005 (AN)

IC-38665 Lt Col, Inderjeet Singh Suhag, Inf 30.06.2005 (AN)

IC-33907 Col, RV Kenjalkar, Engrs 28.02.2005 (AN)

IC-41873 Maj, Surendra Keshav, Kulkarni, Sigs 15.08.2004 (AN)

IC-39187 Lt Col, Sharat Kumar Kalapa, Sigs 23.03.2005 (AN)

IC-31954 Col, Krishna Murthi Gurusamy, Sigs 15.06.2005 (AN)

IC-37909 Lt Col, Narayan Iyer, AOC 07.06.2005 (AN)

IC-39844 Lt Col, Raghu Nandan Satyanarayan Prasad, EME 02.04.2003 (AN)

IC-39829 Col, Prakash Jha, EME 20.04.2005 (AN)

IC-36526 Col, Dhillon Pritpal Singh, AC 28.04.2005 (AN)

IC-34768 Col, Harendra Pal Singh, AC 06.05.2005 (AN)

IC-33718 Col, Philip Joseph, AC 14.03.2005 (AN)

IC-39231 Lt Col, A Balasundara Rajan, Arty 30.11.2003 (AN)

IC-40113 Maj, Atul Saxena, AD Arty 10.07.2004 (AN)

IC-36216 Col, Mahendra Sehgal, AD Arty 19.02.2005 (AN)

R.K. SHARMA
Jt. Dir.
MS/PR

**KARYALAYA MAHA NIDESHA SASHASTRA SENA
CHIKITSA SEWA/DG-3D**

No. 215 dated 3 April 2006.— Dr. (Mrs) S Krishnamurthy, Senior Medical Officer (GP 'A' Gazetted) of Family Welfare Organization under Ministry of Defence retired from service on attaining the age of superannuation w.e.f. 30.06.2004 (A/N) and transferred to Pension Establishment w.e.f. 01.07.04 (F/N)

Dr (Mrs) Pratibha Shailendra, Senior Medical Officer (Gp 'A' Gazetted) of Family Welfare Organization under Ministry of Defence retired from service on attaining the age of superannuation w.e.f. 30.09.2005 (A/N) and transferred to Pension Establishment w.e.f. 01.10.2005 (F/N)

A. N. SINHA
Dy. Dir.